



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014—फाल्गुन 2, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्र. ई.-5-821-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएस., सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2014 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16 एवं 23 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री एस. सुहेल अली, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2014

क्र. ई.-1-25-2014-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री कर्मवीर शर्मा (2010), अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बीना, जिला सागर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी (कनिष्ठ वेतनमान).

(1)	(2)	(3)
2	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केवलारी, जिला सिवनी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर (कनिष्ठ वेतनमान).
3	श्री अनुराग चौधरी (2010), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन (कनिष्ठ वेतनमान).
4	श्री भास्कर लक्षकार (2010), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंदेरी, जिला अशोकनगर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया (कनिष्ठ वेतनमान).
5	सुश्री नेहा माख्या (2011), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया, जिला भोपाल.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंदेरी, जिला अशोकनगर.
6	सुश्री अनुग्रह पी (2011), सहायक कलेक्टर, उज्जैन.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया, जिला भोपाल.
7	श्री बी. विजय दत्ता (2011), सहायक कलेक्टर, रीवा.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर.
8	श्री सौरभ कुमार सुमन (2011), सहायक कलेक्टर, जबलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केवलारी, जिला सिवनी.
9	डॉ. विजय कुमार जे. (2011), सहायक कलेक्टर, सागर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीना, जिला सागर.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. ई.-5-464-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जयदीप गोविंद, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2014 द्वारा दिनांक 22 से 31 जनवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. ई.-1-56-2014-5-एक.—डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे. (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग दिनांक 3 से 11 फरवरी 2014 तक ब्राजील जायका परियोजना के अन्तर्गत

शासकीय अध्ययन दौरे पर हैं. डॉ. राजौरा को उक्त अध्ययन दौरे की अवधि में श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई.-5-854-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग को दिनांक 10 से 22 फरवरी 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 23 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-909-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. पी. डेहरिया, आयएएस., कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 6 से 13 फरवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 14, 15 एवं 16 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एन. पी. डेहरिया की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. डेहरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एन. पी. डेहरिया द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एन. पी. डेहरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. पी. डेहरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. ई.-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 23 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-955-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 20 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह गंगवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्र. ई.-1-69-2014-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भाप्रसे (1998), अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम् संभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती उर्मिल मिश्रा द्वारा सचिव, राज्य सूचना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1997), वि.क.अ.-सह-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग तथा सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल केवल सचिव, राज्य सूचना आयोग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई.-5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 12 से 13 फरवरी 2014 तक, दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सीमा शर्मा, भाप्रसे., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सीमा शर्मा उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 7 फरवरी 2014 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-856-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 17 से

21 फरवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 15 एवं 16 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती छबि भारद्वाज की अवकाश अवधि में श्री ए. पी. सिंह, राप्रसे., अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती छबि भारद्वाज द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. सिंह, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-923-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएस., सहायक कलेक्टर, झाबुआ को दिनांक 24 फरवरी से 14 मार्च 2014 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अँटोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. ई.-5-546-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे, तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2013 से 6 दिसम्बर 2013 तक, इकसठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 7 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2013 तक, तैंतीस दिन का पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 6 अक्टूबर एवं 9, 10 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. एफ-1(ए) 06-2001-ब-2-दो.—(1) श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन सेवाएं, मध्यप्रदेश इन्दौर को उनके पुत्र की शादी होने से दिनांक 5 मार्च से 5 अप्रैल 2014 तक, इकत्तीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 6 अप्रैल 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी., इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवाएं, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. एफ-02(बी)01-2013-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश, जेल मैनुअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जेल मुरैना के लिये श्री दिनेश कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री आर. एस. कुलश्रेष्ठ, निवासी सावलिया गली, कलेक्ट्रेट के पीछे, गणेशपुरा मुरैना को आगामी तीन वर्षों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है। राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

क्र. एफ-02(बी)01-2013-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश, जेल मैनुअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जेल गरोठ, जिला मन्दसौर के लिये श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मानक चन्द जैन, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर को आगामी तीन वर्षों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है। राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. एफ-31-03-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर की याचिका क्र. 7941-2011 वीरेन्द्र पाटीदार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा याचिका क्र. 4205-2013 मेधा पाटकर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3 जनवरी 2014 के परिपालन में इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना की नहर परियोजना से प्रभावित किसानों/खातेदारों की समस्त शिकायतों के निराकरण हेतु नर्मदा संकुल परियोजनाओं के लिये गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण को प्राधिकृत करते हुए उनके कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार विस्तार करता है।

शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष भू-अर्जन अथवा क्षतिपूर्ति राशि की मांग संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जांच पश्चात् सही पाये जाने पर शिकायत निवारण प्राधिकरण संबंधित कलेक्टर को भू-अर्जन अधिनियम/राज्य शासन के अन्य निर्देशों (जो लागू हों) के अधीन क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने हेतु आदेश दे सकेंगे। ऐसे आदेश प्राप्त होने पर संबंधित कलेक्टर, भू-अर्जन अधिनियम/राज्य शासन के अन्य निर्देशों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करेंगे, जिसका भुगतान यथास्थिति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अथवा ठेकेदार के द्वारा संबंधित अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. एफ 1(बी) 101-2013-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2010 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+5400/- में उप पुलिस, अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में अंकित कार्यालय में नियुक्त करता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	श्री निहित उपाध्याय, द्वारा श्री बृजमोहन उपाध्याय, इंदिरा गांधी वार्ड, वार्ड नं. 10, म.नं. 433, जैन धर्मशाला के पास जिला-हरदा 461331 (म.प्र.).	कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर), इन्दौर, रेंज इन्दौर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	2	श्री दीपक नायक, एच/ओ. डॉ. मानवटकर 757, स्नेह नगर जिला-जबलपुर 482002 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-होशंगाबाद.
3	3	श्री दीशेष अग्रवाल, 34, अग्रवाल मोहल्ला इशागढ़ जिला-अशोकनगर 473335 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-शिवपुरी.
4	4	श्री अमित कुमार मिश्रा, श्री गणेश गैस एजेन्सी के पास, नई बस्ती, पिछोर, जिला-शिवपुरी 473995 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-गुना.
5	5	कुमारी कलावती ब्यारे, म. नं. 92, वार्ड नं. 32, गली नं. 6, लूशन का बगीचा, केंट रोड, जिला-गुना 473001 (म.प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-मुरैना.
6	6	श्री सुजीत सिंह भदौरिया, 183, सिंधी कालोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर 474001 (म.प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-श्योपुर.
7	7	कुमारी ज्योति उमठ, 66, हीरा मेंशन अपार्टमेन्ट, प्रिन्सेस गर्ल्स, होस्टल, इन्द्रपुरी, भंवरकुआ, जिला-इन्दौर 452001 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-+मंदसौर.
8	9	श्रीमती भावना मरावी, (श्रीवास) परिक्षेत्र अधिकारी आवास परिक्षेत्र परिसर कान्हीवाड़ा चौक, बरघाट जिला-सिवनी 480668 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-सिवनी.
9	10	कुमारी मोनिका तिवारी, 4549/3-ए शिवनगर, उदय निवास के पिछे, आधारताल, जिला-जबलपुर 482004 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-सागर.
10	11	श्री हेमन्त चौहान, स्टेट बैंक के पीछे वार्ड नं. 20, अमोली तह. +पोस्ट लालबर्वा, जिला-बालाघाट 481441 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-मण्डला.
11	12	श्री प्रशांत सिंह सुमन, नायब तहसीलदार, तहसील बड़नगर, जिला-उज्जैन 456771 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-शाजापुर.
12	13	कुमारी श्रद्धा सोनकर, 560, जय नारायण का बाड़ा धमापुर चौक, जिला-जबलपुर 482001 (म.प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-डिण्डौरी.
13	14	कुमारी ऋतु केवरे, गेण्डे वाली सड़क, बकरा मंडी के पास, लश्कर जिल-ग्वालियर 474001 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-भिण्ड.
14	15	श्री शशिकांत सरयाम, मु.+पोस्ट बिजोरी, तहसील तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा 480559.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-बालाघाट.
15	16	श्रीमती प्रीति बाला सस्ते, एल.आई.जी. 49, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला-बड़वानी 451551 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-आगर
16	17	श्री नरेन्द्र सोलंकी, आई 2/10, विजयाराजे कालोनी विक्रम विश्वविद्यालय परिसर, जिला-उज्जैन 456001 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-रतलाम.
17	18	श्री सुमित केरकेट्टा, म.नं. 15, अ/2 बंगला नं. 5, नर्मदा रोड, जिला-जबलपुर 482001 (म. प्र.).	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-शहडोल.

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 4 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में "92वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा, अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिए वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2014

सूचना

क्र. एफ. 3-245-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-245-2012-बत्तीस, दिनांक 4 जून 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित मुरैना विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम भौडोरी	1204, 1209 1210, 1205	7.062	कृषि	आवासीय
योग . .			7.062		

2. उपरोक्त उपांतरण मुरैना विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ. 3-19-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-19-2013-बत्तीस, दिनांक 10 अप्रैल 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम विरियाखेड़ी	50/1/2	0.200	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (प्रशिक्षण)
योग . .			0.200		

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. 1903-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित

किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डिण्डौरी	डिण्डौरी	1. श्रीमती धन्यकुमारी वैश्य सदस्य 2. श्रीमती श्रुति गुप्ता सदस्य.

No. 1903-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dindori	Dindori	1. Smt. Dhanyakumari Vaishy Member 2. Smt. Shruti Gupta Member.

क्र. 1903-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :—

अनुसूची

क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डिण्डौरी	डिण्डौरी	1. श्री नागेन्द्र कुमार चौरसिया अध्यक्ष 2. श्री महेन्द्र झारिया सदस्य 3. श्रीमती शिखा राय सदस्य 4. श्रीमती निर्मला रैकवार सदस्य 5. कु. दीपा बर्मन सदस्य.

No. 1903-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified

in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dindori	Dindori	1. Shri Nagendra Kumar Chourasia Chair person 2. Shri Mahendra Jhariya Member 3. Smt. Shikha Rai Member 4. Smt. Nirmala Raikwar Member 5. Ku. Deepa Burman Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. सामान्य-1-2014-4 क्र. एफ 59-1-04.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2014 के लिए निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

अ. क्र.	त्यौहार का नाम	दिनांक	वार	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रंग पंचमी	21 मार्च 2014	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला
2	दशहरे का दूसरा दिन	4 अक्टूबर 2014	शनिवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	24 अक्टूबर 2014	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला.

कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. क्यू.-ए.पी.डी.-2014-71.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक क्यू.-ए.पी.डी.-2013-9952, दिनांक 4 जून 2013 द्वारा श्री जगदीश मेना, निवासी ग्राम मोरोदा, तहसील गंजबासौदा को पूर्व विधायक श्री हरिसिंह रघुवंशी, विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा के प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति गंजबासौदा में नाम-निर्दिष्ट

किया गया था को एतद्वारा विलोपित करता हूँ तथा कृषि उपज मण्डी समिति गंजबासौदा में विधायक प्रतिनिधि गंजबासौदा में निम्नानुसार नाम-निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	मण्डी समिति का नाम जिसके लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया	प्रतिनिधि सदस्य का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जवाहर सिंह पुत्र स्व. श्री हिम्मत सिंह रघुवंशी, कृषक ग्राम मेवली, पो. ककरावादा, तह. गंजबासौदा.	मा. श्री निशंक कुमार जैन, विधायक, विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा, जिला विदिशा.	1972 की धारा 11(1)

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. 805-एस.सी.दो-2014.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 में राजगढ़ जिले के लिए पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	दिनांक	दिन (वार)	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	12 मार्च 2014	बुधवार	उर्स बाबा बदखशानी
2	21 मार्च 2014	शुक्रवार	रंगपंचमी
3	24 अक्टूबर 2014	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन/बलि पूजा अन्नकूट.

(कलेक्टर द्वारा स्वीकृत).

आनंद शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक 211 द्वितीय तल मोती तबेला, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. 36-मण्डी निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अनुसार मण्डी समिति के गठन के संदर्भ में धारा 11(1) की उपधारा 'घ' सांसद, प्रतिनिधि को निम्न तालिका में उनके समक्ष दर्शित मण्डी समिति के सदस्य हेतु नाम-निर्दिष्ट किया जाता है, नाम-निर्दिष्ट किये गये इन सदस्यों को मण्डी समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए यथासमय आहूत किया जावे:—

अ. क्र.	प्रतिनिधि मनोनीतकर्ता	प्रतिनिधि का नाम व पता	मण्डी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद	श्री सत्यनारायण आजाद, आजाद चौक, हतोद, जिला इन्दौर	इन्दौर

क्र. 38-मण्डी निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अनुसार मण्डी समिति के गठन के संदर्भ में धारा 11(1) की उपधारा “ड” “च” “ज” “झ” एवं “ञ” सहकारी विपणन सोसायटी, कृषि विभाग, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला भूमि विकास बैंक तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधियों को निम्न तालिका में उनके समक्ष दर्शित मण्डी समिति के सदस्य हेतु नाम-निर्दिष्ट किया जाता है, नाम-निर्दिष्ट किये गये इन सदस्यों को मण्डी समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए यथासमय आहूत किया जावे:—

क्र. (1)	प्रतिनिधि मनोनीतकर्ता (2)	प्रतिनिधि का नाम (3)	मण्डी का नाम (4)
1	सांवेर विपणन सहकारी संस्था मर्या., सांवेर	श्री नगजीराम पिता घासीराम जी, ग्राम सुराखेडी, पोस्ट गुरान, तह. सांवेर, जिला इन्दौर.	सांवेर
2	आदर्श सहकारी विपणन समिति मर्या., देपालपुर.	श्री इन्दरसिंह भेरूसिंह राठौर, ग्राम पालडी, तह. देपालपुर, जिला इन्दौर.	गौतमपुरा
3	कृषि विभाग, इन्दौर	श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड, इन्दौर.	इन्दौर
4	कृषि विभाग, इन्दौर	श्री राजेश धारे, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड, महुँ.	अम्बेडकर नगर (महुँ)
5	कृषि विभाग, इन्दौर	श्री मोहम्मद रफीक खान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड सांवेर.	सांवेर
6	कृषि विभाग, इन्दौर	श्री राजेन्द्रसिंह तोमर, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड, देपालपुर.	गौतमपुरा
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. इन्दौर.	श्री कैलाश पाटीदार, अध्यक्ष, ग्राम व पोस्ट तिल्लोर खुर्द, तह. व जिला इन्दौर.	इन्दौर
8	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. इन्दौर.	श्री अशोक सामानी, संचालक, ग्राम-पोस्ट भगोरा, तह. व जिला इन्दौर.	अम्बेडकर नगर (महुँ)
9	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., इन्दौर.	श्री उमानारायणसिंह पटेल, संचालक, ग्राम पाडल्या, पोस्ट छडोदा, (गौतमपुरा) तह. देपालपुर, जिला इन्दौर.	गौतमपुरा
10	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. इन्दौर.	श्री विष्णुप्रसाद शुक्ला, संचालक, दुर्गा निवास, बाणगंगा मेन रोड, इन्दौर.	सांवेर
11	जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक मर्या. इन्दौर (भूमि विकास बैंक)	श्री कंचनसिंह चौहान, अध्यक्ष	इन्दौर
12	जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक मर्या., इन्दौर (भूमि विकास बैंक).	श्री कंचनसिंह चौहान, अध्यक्ष	अम्बेडकर नगर (महुँ)
13	जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक मर्या., इन्दौर (भूमि विकास बैंक).	श्री सुरेशसिंह पंवार, संचालक	सांवेर

(1)	(2)	(3)	(4)
14	जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक मर्या., इन्दौर (भूमि विकास बैंक).	श्री रामस्वरूप पटेल, संचालक	गौतमपुरा
15	अध्यक्ष, जिला पंचायत, इन्दौर	श्री रामकरण भाभर, सदस्य जिला पंचायत, इन्दौर	अम्बेडकर नगर (महू)
16	अध्यक्ष, जिला पंचायत, इन्दौर	श्री भगवान परमार, सदस्य जिला पंचायत, इन्दौर	सांवैर
17	अध्यक्ष, जिला पंचायत, इन्दौर	श्री ओमप्रकाश परसावदिया, अध्यक्ष जिला पंचायत, इन्दौर	इन्दौर
18	अध्यक्ष, जिला पंचायत, इन्दौर	श्री मोहनसिंह कछावा, सदस्य जिला पंचायत, इन्दौर	गौतमपुरा.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 31 जनवरी 2014

प्ररूप-आठ-ग

[नियम 22 का खण्ड (ग) देखिये]

क्र. 1151-स्था.निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश पंचायत (अध्यक्ष) निर्वाचन, नियम, 1995 के नियम 22 के खण्ड (क) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 33 द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, शोभित जैन, सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला बड़वानी एतद्द्वारा जिला पंचायत, बड़वानी के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रकाशित करता हूँ :—

अनुक्रमांक (1)	नाम एवं पिता / पति का नाम और पता (2)	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)
1	श्री अंतरसिंह पटेल पिता देवीसिंह पटेल, ग्राम बांदरकच्छ, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, बड़वानी

स्थान : बड़वानी

दिनांक : 24 जनवरी 2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
(पंचा.) विभाग एवं कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 जनवरी 2014

क्र. क-391-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बण्डा	कंदारी	36	0.584	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-392-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बण्डा	गनयारी	74/20	0.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-393-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	शाहगढ़	नवलऊ	43	0.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. क-571-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बण्डा	रीछई सागर	72/20	0.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-572-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बण्डा	पनारी	83/16	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली जिला सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली जिला सागर (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

रा. मा.क्र. 30-अ-82 वर्ष 2013-14-पत्र क्रमांक-58-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में.)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	सडूमर नं. बं. 424 प.ह.नं. 8	0.370	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर, संभाग क्र. 1, करेली.	सडूमर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 (भू-अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेशपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 फरवरी 2014

पृ. क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	नागदहार प.ह.नं. 85 रा.नि.मं. लखनादौन.	0.78	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	सिहोरा से नवलगांव, नागदहार, पुरवा मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	पुरवामाल प.ह.नं. 84 रा.नि.मं. लखनादौन.	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	सिहोरा से नवलगांव, नागदहार, पुरवा मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	नवलगांव प.ह.नं. 85 रा.नि.मं. लखनादौन.	1.73	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	सिहोरा से नवलगांव, नागदहार, पुरवा मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	बीबी प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. लखनादौन.	0.45	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	जोवा, आदेगांव से छपारा मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	मलारा प.ह.नं. 27/33 रा.नि.मं. केवलारी.	0.07	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी.	किलो मीटर 3/10 में वैगंगा पर बन रहे सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	सिहोरा प.ह.नं. 86 रा.नि.मं. लखनादौन.	0.34	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	सिहोरा से नवलगांव, नागदहार, पुरवा मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय, लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	बाबली प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. लखनादौन.	0.02	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	कहानी-धूमा मार्ग के विचलन कार्य का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय, लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1171-जि.भू.अ.-2014-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	नवलगांव प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. लखनादौन.	0.21	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 1, सिवनी.	जोवा, आदेगांव से छपारा मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय, लखनादौन, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2014

प्र. क्र. 20-अ-82-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	गुना	1.684	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़.	देवपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 21-अ-82-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में नीचे दी गई दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	देवपुर	2.029	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़.	देवपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

नरसिंहपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

अनुसूची

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 590/591-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—गाडरवारा
- (ग) ग्राम—बांसखेड़ा, नं. बं. 74
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.194 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
201/1, 201/2	0.105
205/1	0.034
200/1	0.055
योग : 0.194	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांसखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नरसिंहपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2013-14 पत्र क्र. 60-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—गाडरवारा
- (ग) ग्राम—बटेसरा, प.ह.नं. 81
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.031 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31/1	0.031
योग : 0.031	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन— बटेसरा माईनर निर्माण होने के कारण.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्र. 84 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—पहाडी
- (ग) ग्राम—देवरी हटाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
379/1	0.12
379/2	0.08
	<u>कुल : 0.20</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—देवरी हटाई जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. 20 भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—खलबुर्जुग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.860 वर्गमीटर

खसरा नं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
184/1/1	13.860 वर्गमीटर(मकान)
	<u>कुल योग : 13.860 वर्गमीटर</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में मकान डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यालय यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा., इन्दिरा सागर परियोजना संभाग 2, धरमपुरी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 7 फरवरी 2014

प्र. क्र. 42-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—बलरामपुर जाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.379 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/2	0.028
21/3	0.096
44/1	0.085
45	0.175
67/1	0.057
68	0.092
71	0.040
79	0.091

(1)	(2)	(1)	(2)
80	0.134	275/4	0.035
115/2	0.033	277/1	0.114
70	0.060	81/2	0.004
82	0.086	277/2/3	0.021
84	0.032	247/2	0.065
109	0.057	योग : 4.379	
83	0.139	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़	
89	0.026	मध्यम सिंचाई परियोजना की बलरामपुर नहर निर्माण हेतु.	
91	0.150	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के	
94	0.040	कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय	
98	0.015	एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी	
102	0.053	संभाग, गंजबासोदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
103	0.118	प्र. क्र. 43-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
110	0.065		
112	0.015		
113	0.032		
114	0.026		
115/1	0.004		
115/3	0.033		
115/4	0.033		
116	0.016		
212	0.123		
213	0.139	अनुसूची	
225	0.139	(1) भूमि का विवरण—	
227/1	0.107	(क) जिला—विदिशा	
227/2	0.096	(ख) तहसील—नटेरन	
227/4	0.097	(ग) ग्राम—जोगी किरींदा	
228/1क	0.107	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.325 हेक्टेयर	
228/1ख	0.054		
242/1	0.017	सर्वे नं.	रकबा
265/4	0.139		(हेक्टेयर में)
275/1	0.188	(1)	(2)
242/2	0.170	151	0.210
243	0.118	253	0.016
244/2	0.089	220	0.110
244/1	0.107	237	0.030
246	0.025	240	0.042
251/2	0.073	244	0.050
252	0.058	243	0.087
253/2/2	0.037	249	0.144
254/1	0.032	251	0.075
265/3	0.215	254	0.080
273	0.067	280	0.26
275/2	0.056	265	0.005
275/3	0.056		

(1)	(2)
203	0.055
200	0.030
196	0.300
174	0.047
176	0.007
118/1	0.078
115	0.005
311	0.077
313	0.140
393	0.027
391	0.020
116	0.009
155	0.130
218	0.076
248	0.022
239	0.097
247	0.010
242	0.100
219	0.198
250	0.085
252	0.193
282	0.009
274	0.113
204	0.082
169	0.752
170	0.054
173	0.067
175	0.022
177	0.13
117	0.043
105	0.065
314	0.047
317	0.040
392	0.045
178	0.040
180	0.007

योग : 4.325

प्र. क्र. 44-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—निचरोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.240 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2	0.067
13/1/1	0.125
13/1/2	0.064
13/2	0.025
14/2	0.017
17	0.040
18	0.027
19/1	0.170
29/1/1	0.071
28/2/1	0.012
29/1/2	0.053
29/1/3मि	0.007
29/2	0.045
29/3	0.080
223/2	0.150
31/1	0.093
31/2	0.013
46	0.055
47/1	0.107
47/2	0.039
47/3	0.017
50/3	0.150
52	0.030
53/2	0.007
57/2	0.030
54/1	0.030
54/2	0.025
55	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बलरामपुर नहर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)
210	0.021
212	0.252
214	0.236
216/2	0.166
217	0.118
218/2	0.048
219	0.236
220	0.059
223/3	0.161
71	0.065
166	0.005
56	0.010
211	0.021
223/2	0.150
224	0.018
योग : 3.240	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की बलरामपुर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 45-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—नेवली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.292 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.005
13	0.117
16	0.045

(1)	(2)
23	0.075
24	0.050
योग : 0.292	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की बलरामपुर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—फूफेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.737 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97	0.222
96/1	0.011
96/3	0.080
105	0.107
96/4	0.042
96/5	0.064
104/3	0.214
104/1/मि 2	0.150
104/1/मि 1	0.026
104/1/मि 3	0.026
104/2	0.107
294/1	0.161
294/2	0.214
295/1/2	0.083
295/2/2	0.068

(1)	(2)
295/3	0.090
295/4	0.072
योग : 1.737	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की बलरामपुर नहर के निर्माण हेतु,	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2014

प्र. क्र. 3-अ-82- 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—मोहनगढ़
 (ग) नगर/ग्राम—अमरपुर भाटा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.912 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.200
2/2	0.160
3/2	0.088
3/3	0.200

(1)	(2)
18/2क	0.224
18/2/2	0.208
32/30	0.096
35/1क	0.360
35/1ख	0.152
35/1ग	0.224
योग : 1.912	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	

प्र. क्र. 4-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—जतारा
 (ग) ग्राम—दिगौड़ा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.176 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
770/7	0.020
770/8	0.050
775	0.050
776	0.060
778/2	0.180
779	0.040
780	0.020
809	0.075
810	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
811	0.150	2020	0.006
813	0.025	2026	0.020
829	0.025	1939/2/2	0.238
830	0.075	1945	0.196
831	0.035	1946	0.084
898	0.080	2017	0.154
899	0.030	2029/1	0.140
900	0.100	2028/1, 2028/3	0.320
902	0.020	2030	0.063
903	0.200	2031	0.392
904	0.130	2032	0.008
921/1	0.350	2047	0.270
921/2/2	0.140	2053	0.008
1518	0.536	2059	0.010
1519	0.028	2061	0.020
1520	0.060	2062	0.050
1521	0.088	2063	0.010
1522	0.088	2064	0.016
1525	0.280	2065	0.005
1533	0.176	2066	0.045
1535	0.012	2069	0.008
1536	0.012	2070	0.070
1538	0.160	2071	0.006
1539	0.224	2072	0.105
1542	0.120	2073	0.020
1568	0.344	2074/1, 2074/2	0.030
1571	0.016	2296	0.015
1634	0.004	2297	0.004
1635	0.104	2319	0.060
1637	0.032	2320	0.008
1638	0.040	2322	0.070
1639	0.004	2335	0.090
1640	0.024	2336	0.005
1643	0.012	2337	0.005
1646	0.104	2338	0.004
1647	0.120	2341	0.027
1648	0.004	2342/1, 2342/2	0.055
1652	0.020	2344	0.005
1654	0.020	2348	0.068
1704	0.048	2349	0.072
1705	0.088	2365	0.170
1706	0.068	2367	0.200
1707	0.024	2370	0.008
2018	0.196	2372	0.020
2019	0.063	2373	0.060

(1)	(2)
2374	0.004
2397	0.010
2398	0.020
2399	0.070
2401	0.070
2402	0.005
2416	0.008
2417	0.100
2418	0.007
2421	0.070
2669	0.032
2670	0.080
2671/1, 2671/2	0.016
2673/1, 2673/2	0.020
2674	0.032
2675	0.060
2676	0.024
2678	0.080
2679	0.008
2681/1, 2681/2	0.090
2717/1, 2717/2	0.160
2734	0.070
2718/1, 2718/2	0.320
2739	0.148
2741	0.180
2745	0.200
3023	0.308
3023/3437	0.020
3025	0.312
3034	0.016
3035	0.016
3045	0.192
3046	0.052
3047	0.080
3062	0.032

योग : 11.176

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—मोहनगढ़
(ग) नगर/ग्राम—मझगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.705 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
289	0.010
290	0.020
291	0.020
292	0.048
301	0.018
303	0.008
304	0.009
305	0.040
306	0.097
370	0.005
371	0.025
373	0.007
374	0.002
375	0.100
389	0.040
390	0.035
391	0.045
392	0.010
393	0.003
394	0.085
710	0.020
712	0.268
779/2/ख/2	0.192
779/1	0.125
779/2ख/1	0.067
791/1ख/1	0.068
791/1ख/2	0.231
791/2/1	0.316
792/2	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(1)	(2)
797	0.048
798/2	0.245
816	0.076
817	0.043
818	0.043
821	0.065
831	0.002
832	0.009
1374/292	0.048
1377/306	0.140
योग : 2.705	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—लिधौरा
- (ग) ग्राम—बम्हौरीखास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.538 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2340/1	0.128
2340/2	0.086
2337	0.013
1909/2	0.045
1905	0.064
1904	0.006
1900	0.013
1901/2456	0.006
1901	0.006

(1)	(2)
1902	0.131
1870	0.045
1872	0.058
1873	0.096
1874	0.022
1841/2497	0.016
1841/2498	0.013
1841/2503/2	0.112
1841	0.109
1841/2500	0.010
1841/2502	0.013
1841/2504	0.088
1836/2437	0.035
1841/2505	0.026
1836	0.044
2368/2527	0.211
2368/2528	0.026
2369/2529	0.114
2368/2530	0.220
2531	0.132
2368/2	0.220
2368/10	0.220
2371/2क	0.150
2371	0.060
योग : 2.538	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—लिधौरा

(ग) ग्राम—वीरऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.541 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—विहार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.433 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
231	0.171	82	0.015
232	0.030	85	0.032
235	0.378	86	0.070
248	0.003	89	0.066
260	0.220	91	0.004
266	0.211	97	0.072
267	0.079	98	0.104
269	0.130	100	0.064
286	0.220	101	0.085
287	0.162	102	0.067
379	0.060	103	0.016
380	0.060	106	0.010
384	0.286	107	0.080
385	0.004	108	0.095
454	0.080	112	0.025
460	0.033	208	0.005
461	0.136	209	0.016
462	0.015	210	0.016
463	0.005	218	0.013
464	0.008	219	0.064
467	0.123	220	0.012
468	0.101	221	0.070
460/1860	0.026	222	0.012
योग : 2.541		231	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु.		232	0.070
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		233	0.055
		236	0.016
प्र. क्र. 8-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		237	0.048
		245	0.056
		246	0.104
		248	0.125
		522/2	0.200
		524/1	0.280
		524/2/2	0.136
		524/3/2	0.104
		525/3	0.136

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

योग : 2.433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण.	(1)	(2)
	96	0.173
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	97	0.028
	98	0.076
	352/1	0.010
	353/1	0.086
	354/1	0.192
प्र. क्र. 9-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	515	0.009
	518/2	0.156
	520	0.072
	521	0.013
	522	0.096
	523	0.061
	524/2	0.324
अनुसूची	965	0.096
(1) भूमि का वर्णन—	966	0.295
(क) जिला—टीकमगढ़	968	0.010
(ख) तहसील—जतारा	969	0.048
(ग) ग्राम—खरोई	982	0.090
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.187 हेक्टेयर.	983	0.010
	1002	0.030
खसरा नं.	1003	0.276
	1004	0.336
(1)	1018	0.264
17	1019	0.096
20	1159	0.048
21	1160	0.040
33	1161	0.038
37	1162	0.005
38	1163	0.097
43	1164	0.210
44/1, 44/2	99	0.020
45	100	0.201
46	108	0.010
56	115	0.009
61	116	0.125
62	117	0.288
67	118	0.005
68	119	0.015
69/1, 69/2	308	0.412
70	311	0.173
71	313	0.067
72	314	0.043
75	318	0.173
76	322	0.010
95	1165	0.393

(1)	(2)
1168	0.012
1139	0.173
1142	0.125
1143	0.153
1144	0.020
1146	0.010
1210	0.125
1210/1234	0.220
1212	0.006
1213	0.192
1214	0.153
1220	0.096

योग : 8.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) ग्राम—बैदरु

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.208 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
491	0.120
493/1	0.088

योग : 0.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) ग्राम—नादिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.648 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
570	0.024
571	0.002
572	0.060
592 जुज	0.060
593 जुज	0.066
598	0.047
599	0.025
620/1 जुज	0.042
623	0.033
626	0.063
627	0.078
630	0.030
707/1 जुज	0.036
708	0.090
709	0.048
710	0.048
711	0.072
715	0.120
719/1	0.150
720 जुज	0.036
720 जुज	0.090
721	0.002
710/963	0.009
711/965	0.024
711/966	0.024
902/12क	0.360

योग : 1.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—मोहनगढ़
(ग) ग्राम—पचगईयां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.460 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
17/2/2	0.100
77/1	0.220
77/2	0.150
80/1क	0.220
80/1ख	0.210
80/2	0.070
84/1	0.330
76	0.160
योग : 1.460	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—बल्देवगढ़

- (ग) नगर/ग्राम—भिलौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—1.076 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
184	0.080
1086	0.052
1082	0.020
1080	0.076
1074	0.096
1075	0.040
964	0.036
1068	0.160
1068	0.076
1038	0.440
योग : 1.076	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राजनगर तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—बल्देवगढ़
(ग) नगर/ग्राम—भितरवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—0.945 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
452	0.040
452 अ	0.120
446	0.015
447 अ	0.062

(1)	(2)	(1)	(2)
437	0.005	1281	0.015
435	0.050	1276	0.039
434	0.070	1275	0.036
433	0.036	1270	0.080
356	0.070	1258	0.110
358	0.060	1254 द	0.136
360	0.152	1255	0.018
362	0.005	1254 ब	0.085
41/1	0.200	1254/1	0.110
403	0.060	1162	0.080
योग : 0.945		1157	0.072
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राजनगर तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.		1158	0.041
		1159	0.019
		1155	0.084
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलदेवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		1153	0.033
		736	0.080
		740	0.011
		741/2	0.077
		733	0.072
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		732	0.012
		731	0.033
		717	0.037
		725	0.016
		740	0.036
		720	0.078
		722	0.012
		680	0.022
(1) भूमि का वर्णन—		681	0.022
(क) जिला—टीकमगढ़		679	0.019
(ख) तहसील—बलदेवगढ़		677	0.010
(ग) नगर/ग्राम—बनयानी		676	0.020
(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—2.629 हेक्टेयर.		678	0.014
खसरा नं.	अर्जित रकबा	256	0.074
	(हे. में)	257	0.014
(1)	(2)	258	0.036
1359	0.075	259	0.076
1283	0.037	261	0.030
1280	0.120	262	0.083
1277	0.048		

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—भैरा	
263	0.020	(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—28.266 हेक्टेयर.	
264	0.021		
266	0.012	खसरा नं.	अर्जित रकबा
268	0.014		(हे. में)
269	0.008	(1)	(2)
272	0.076	655	0.133
277	0.020	657	0.135
285	0.010	657 अ	0.077
314	0.016	659 अ	0.761
286	0.010	774	0.275
295	0.040	662/3 स	1.300
287	0.010	665/11	0.232
294	0.032	667/1/1	1.091
301	0.048	662	1.307
363	0.010	667/1/2	1.079
302/1	0.040	659	0.061
362	0.050	663/1	0.180
274	0.024	666	0.348
1410	0.014	667/1/3	1.079
1411	0.020	667/2	3.237
1415	0.012	523/776	0.158
	योग : 2.629	523/778	0.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राजनगर तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.		523/1	0.070
		523/713	0.053
		523/712	0.053
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		523/710	0.129
		523/709	0.125
		523/711	0.057
		654	0.482
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		658 अ	0.243
		660	0.870
		662/1 अ	1.234
		665/10	0.200
		665/14	0.312
		663/2	0.450
		665/12	0.648
		665/13	0.260
		664/16	0.320
		664/3	0.270

(1)	(2)
658	0.094
663/3	0.040
662/2ब	1.546
648/726	0.466
648/727	0.069
642	0.140
642/1	0.200
645	0.080
646/1	1.404
646/2	0.757
646	0.150
647	0.100
646/734	0.543
649	0.615
648	2.270
648 अ	0.308
649/732	0.906
649/733	0.061
650	0.081
651	0.049
652	0.053
646/735	0.120
653	0.466
524	0.466
—	—
—	—

योग : 28.266

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खौंडेरा—2 तालाब के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बलदेवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—बलदेवगढ़
(ग) नगर/ग्राम—एरौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—0.722 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर—रकवा

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
938	0.183
935	0.094
930	0.121
731	0.073
730	0.081
728	0.130
771	0.040
योग : 0.722	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खौंडेरा—2 तालाब के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बलदेवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—बल्देवगढ़
(ग) नगर/ग्राम—गेंदनताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—1.478 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर—रकवा

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
56	0.664
57	0.725
58	0.089

योग : 1.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खौडेंरा—2 तालाब के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—बल्देवगढ़

(ग) नगर/ग्राम—खौडेंरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—1.670 हेक्टेयर. सर्वे नम्बर—रकवा

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
182	0.081
183	0.040
187	0.050
334	0.048
336	0.081
330	0.060
204	0.162
206	0.160
248	0.034
221	0.200
249	0.030
251	0.162
263	0.164
261	0.081
329	0.081
678/13	0.102
97	0.030
685/2/2	0.052
685/2/4	0.052
—	—
—	—

योग : 1.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खौडेंरा—2 तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्र. 841-भू-अर्जन-13-14-रा.प्र.क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बोरघाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—45.65 वर्ग मीटर.

सर्वे नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)
19	45.65
योग . .	45.65

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना मुख्य बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से ग्राम—बोरघाटा की आबादी भूमि का कुल रकबा 45.65 वर्ग मीटर है.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 15-अ-82-12-13-922-संशोधन-
क्र 5855-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 15-अ-82-2012-13.—भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक 5855-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 15-अ-82-2012-13, दिनांक 28 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2014 को हुआ है के प्रथम पैरा की अनुसूची को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे :—

अधिसूचना दिनांक

10 जनवरी 2014

में प्रकाशित पैरा

(1)

अनुसूची

संशोधित पैरा

(2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—ब्यौहारी
(ग) ग्राम—बनासी, पटवारी
हल्का टेटका नम्बर 22.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—
11.774 हेक्टेयर.

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—ब्यौहारी
(ग) ग्राम—बनासी, पटवारी
हल्का बनासी नंबर 22.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—
11.774 हेक्टेयर.

शेष प्रकाशन यथावत् माना जावे.

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 16-अ-82-12-13-921-संशोधन-
क्र 5856-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 16-अ-82-2012-13.—भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक 5856-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 16-अ-82-2012-13, दिनांक 28 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2014 को हुआ है के प्रथम पैरा की अनुसूची को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे :—

अधिसूचना दिनांक

10 जनवरी 2014

में प्रकाशित पैरा

(1)

अनुसूची

संशोधित पैरा

(2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—रेउसा पटवारी
हल्का टेटका नम्बर 03.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—
3.256 हेक्टेयर.

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—रेउसा पटवारी
हल्का रेउसा नम्बर 03.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—
3.256 हेक्टेयर.

शेष प्रकाशन यथावत् माना जावे.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-प्र.क्र. 17-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—कोयलहा, पटवारी हल्का लखवरिया नम्बर 120
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.382 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93	0.608
96	2.023
94/1	0.607
94/2	0.607
94/3	0.607
94/4	0.607
95	3.905
97/2	2.023
98	2.023
105/2क	2.023
99	0.607
100/1	0.809
104/2	0.809
100/2	0.405
101	0.757
102/2	0.801
105/2ख	1.011
107/2	1.103
107/3	0.571
114	1.166
115	0.012
118	0.141
119	2.157

कुल योग : 25.382

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम कोयलहा की रकबा 25.382 हे. निजी भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-प्र.क्र. 18-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—धनौरा, पटवारी हल्का धनौरा नम्बर 119
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.377 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/2	0.202
16/3	0.052
17	2.700
18/2	0.405
18/3	0.151
18/4	0.151
18/5/1	0.081
18/6	0.061
18/5/2	0.061
18/7	0.202
65/2	0.109
65/3	0.202

कुल योग : 4.377

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम धनौरा की रकबा 4.377 हे. निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-प्र.क्र. 19-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—बण्डीखुर्द, पटवारी हल्का बण्डीखुर्द नम्बर 130
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.306 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219/1	0.010
253	0.021
219/2	0.010
240/1	0.030
240/2	0.030
254	0.051
266/1	0.109
266/2	0.010
277/2	0.021
275	0.080
276/1	0.051
276/2	0.051
287	0.081
283	0.109
303	0.021
305/2	0.041
307	0.041
308	0.141
322	0.089
309	0.177
310	0.070
311/क	0.031
311/ख	0.031

कुल योग : 1.306

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम बण्डीखुर्द की रकबा 1.306 हे. निजी भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-प्र.क्र. 20-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—बैगिन पटवारी हल्का बण्डीखुर्द नम्बर 130
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.067 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
73/1/क	0.021
73/1/ख	0.021
82/1/ख	0.030
73/2	0.021
74/1	0.041
74/2	0.010
76	0.031
78	0.070
87	0.061
95	0.051
79/1	0.070
80/1	0.081
81	0.041
90	0.051
96	0.051
82/2/ख	0.030
91/2	0.030
83/2	0.051
88/2	0.071
101	0.051
103	0.081
104/2	0.071
105/2	0.031

कुल योग : 1.067

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम बैगिन की रकबा 1.067 हे. निजी भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. 15-अ-82-2012-13-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) नगर/ग्राम—मोहनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.566 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक लगभग क्षेत्रफल
रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

9/1/क/1	0.027
9/1/ख/1	0.011
9/1/ख/2	0.015
10/1/2	0.071
9/3/क/1	0.023
9/3/ख/1	0.031
9/6/1 ख	0.127
9/5/क/1	0.093
34/1	0.043
34/2	0.046
34/3	0.031

(1)	(2)
35/1	0.072
36/1	0.052
36/2	0.005
40/4	0.066
37/1ख	0.143
40/1ख	0.005
40/1क	0.028
40/2	0.078
86/1	0.014
82/1/ख/6	0.074
82/2/1	0.031
82/2/2	0.022
82/1/ख/3	0.030
82/1/ख/2/3	0.018
82/1/ख/7/1	0.011
82/1/ख/2/1	0.018
66	0.011
82/1/ख/16	0.011
82/1/ख/1क	0.040
65/1	0.017
65/2	0.034
65/3	0.043
68/1	0.049
56/5	0.007
56/6	0.030
55/1/ख/3	0.005
55/1/ख/2	0.008
55/1/ख/1	0.033
55/1/क/2	0.017
55/1/क/1	0.040
01	0.036

कुल योग . . 1.566

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व), शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. D-7273-दो-14-1-13.— मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित अनुवादकों/एक्जामिनर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई स्थापना पर की जाती है।

क्र.	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पर पदस्थापना	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अभिषेक पटेल, अनुवादक, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
2.	श्री प्रदीप रॉय, अनुवादक, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
3.	श्री प्रदीप गांगुली, एक्जामिनर, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. D-1222-दो-2-20-2013.—श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. राव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर

कार्यरत रहते।

क्र. D-1224-दो-2-21-2013.—श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 13 से 22 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11, 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश पण्डया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-579-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 20 से 28 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-582-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2013 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-586-दो-3-34-2006.—श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 16 से 18 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-588-दो-3-420-80 भाग-दस.—श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, पूर्व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 3 जनवरी 2014 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 18 फरवरी 2012 से 3 जनवरी 2014 तक 22 माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार 26 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A-592-दो-3-420-80 भाग-दस.—श्री उल्हास बापट, सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 182 दिवस (एक सौ बयासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

- 1 श्री उल्हास बापट, सेवानिवृत्त : 3-10-1981
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2013
3. नियुक्ति दिनांक 3 अक्टूबर 1981 : 5 वर्ष 5 माह
से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10 मार्च 1987 से : 26 वर्ष 9 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : 5×15=75 दिन
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 26=13×15=195
अवधि हेतु समर्पण दिन.
अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)
- टीप :—खण्ड माह की अवधि यदि : 1×7=7 दिन
एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.
7. कुल अर्जित अवकाश : 277 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 95 दिन
लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 182 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2013 को शेष अर्जित अवकाश 191 दिवस)

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. A-594-दो-3-420-80 भाग-दस.—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ति (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस (एक सौ बहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त : 30-11-1981
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2013
3. नियुक्ति दिनांक 30 नवम्बर 1981 : 5 वर्ष 3 माह से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 26 वर्ष 9 माह
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). : $5 \times 15 = 75$ दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से) : $26 = 13 \times 15 = 195$ दिन.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 105 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 172 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. A-599-दो-2-39-2011.—श्री आर. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2013 तक पांच दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 15 नवम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. A-655-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. A-674-दो-2-14-2013.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2013 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-668-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1310-दो-2-36-2008.—श्री राधाकृष्ण गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 23 से 29 दिसम्बर 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्ण गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राधाकृष्ण गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1312-दो-2-48-2013.—श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1314-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. डी-7863-तीन-10-42-75 (देवास, बागली-कन्नौद).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-870-तीन-10-42-75(देवास, बागली-कन्नौद) दिनांक 03 अप्रैल 2012 जहां तक कि उसका संबंध श्री अनिल कुमार भाटिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली की श्रृंखला न्यायालय, कन्नौद से है, को एतद्वारा आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है।

No.D-7863-III-10-42-75 (Dewas, Bagli-Kannod).—High Court Notification No. B-870-III-10-42-75 (Dewas, Bagli-Kannod), Dated 3rd April 2012, so far as it relates to holding of Link Court of Shri Anil Kumar Bhatiya, Additional District & Sessions Judge, Bhagli to Kannod is hereby stands cancelled, till further order.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. D-72-दो-2-57-2009.—श्री फसाहत हुसैन काजी, रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 नवम्बर 2013 से 5 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पच्चीस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. C-524-दो-2-53-2011.—श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 7 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2014 के एवं पश्चात् में 8 एवं 9 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. A-590-दो-2-53-2011.—श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से

24 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 16 फरवरी 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, (सैट) जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. 7-स्था.सैट-2014.—श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निज सचिव के पद पर कार्य करते रहते। चूंकि अवकाश पर गये हैं। अतः अवधि दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 को मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार,
देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा).

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. 286-126-भू-अर्जन-एमपीआरडीसी-014.—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अन्तर्गत निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिये खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :—

अनुसूची

“खण्ड-अ”

D

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग, एस.एच.-31	124.150	धार, रतलाम

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	धार	लेबड़	6, 7/4, 7/2, 7/1, 10, 207, 208, 210/1, 210/2/1, 210/2/2, 220, 224/1/2, 224/1/3, 224/1/4, 224/2, 224/2, 224/4, 241, 239, 240, 238, 237/1, 237/2, 236, 267, 271, 266, 270/3, 269, 265, 264, 263, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 242, 243, 260, 259/1, 259/1/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 258, 255, 256/2, 256/1, 253/3, 257, 253/1, 252, 251/2, 250, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 245/1, 245/2d, 245/2[k, 245/2x, 244, 272, 268	6, 7/4, 7/2, 7/1, 11, 10, 207, 208, 210/1, 210/2/1, 210/2/2, 220, 224/1/2, 224/1/3, 224/1/4, 224/2, 224/2, 224/4, 235/4, 235/3, 241, 239, 240, 238, 237/1, 237/2, 236, 271, 266, 270/3, 269, 264, 263, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 260, 259/1, 259/1/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 258, 255, 256/2, 256/1, 253/3, 253/1, 251/2, 250, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 245/1, 245/2d, 245/2ख, 245/2x, 244, 272, 268

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	धार	कलसाझाखुर्द	36, 22, 37, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 33, 34, 64, 65, 66, 67, 62, 68, 73, 74, 32, 20, 18, 17, 2, 1, 71, 63	36, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 62, 68, 73, 74, 69, 32, 20, 18, 17, 2, 1, 71, 63
धार	धार	बगगुड	57/1, 59, 56, 57/2, 52, 47, 48, 46, 40, 45/1, 45/2, 44/1, 44/1/1, 44/2, 42, 43, 139, 138, 139/1, 137/2, 305/1, 303, 302/1, 301, 302/2, 302/3, 319, 318, 316/2, 316/1, 315, 314, 309/1, 132, 61, 62, 65, 67, 76, 75, 77, 70/1, 70/2, 70/3, 78/1/2, 78/1/1, 79	57/1, 59, 56, 57/2, 52, 47, 48, 46, 40, 45/1, 45/2, 44/1, 44/1/1, 44/2, 42, 43, 139, 138, 139/1, 137/2, 305/1, 304, 305/2, 303, 302/1, 301, 302/2, 302/3, 319, 318, 316/2, 316/1, 315, 314, 309/1, 132, 131/1, 132/2, 61, 62, 65, 67, 76, 75, 77, 70/1, 70/2, 70/3, 78/1/2, 78/1/1, 79, 80
धार	धार	माचकदा	264, 266, 267, 265, 268, 269, 270, 272, 271/2, 274, 275, 273, 258, 257/2, 260, 264, 263, 262	264, 266, 267, 265, 268, 269, 270, 271/1, 272, 271/2, 275, 273, 258, 257/2, 260, 261, 264, 263, 262
धार	धार	हरसौरा	218, 209, 217, 216, 214, 213, 210, 246, 247, 248, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 255/1, 258/2, 257/1, 258/3, 163, 269, 270, 271/1, 273, 153/2/1क, 153/2/1, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164/2, 164/1, 165, 174/1, 174/2, 175, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 207, 202, 208, 201/3, 268, 1, 2, 3	218, 217, 216, 214, 213, 210, 211, 246, 247, 248, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 255/1, 258/2, 257/1, 258/3, 163, 269, 270, 271/1, 273, 153/2/1क, 153/2/1, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164/2, 164/1, 165, 169, 172, 174/1, 174/2, 175, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 207, 203, 202, 268, 271/2, 1, 2, 3
धार	धार	सादलपुर	155, 156, 157/2/1, 158, 159, 160, 161, 162, 214, 217, 218, 219, 223, 164, 224, 225, 226, 222/2/2 क, 238, 150/3, 151/1/क, 151/1/ख, 152, 153/1/क, 154, 138, 137, 124, 112, 110, 111, 100, 101, 92, 84, 162/1/1	155, 156, 157/2/1, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 214, 217, 218, 219, 223, 164, 224, 225, 226, 222/2/2 क, 238, 150/3, 151/1/क, 151/1/ख, 152, 153/1/क, 154, 138, 137, 124, 112, 110, 111, 100, 101, 92, 84, 162/1/1
धार	धार	जुहावदा	123, 124, 125, 170, 136, 138, 139, 141, 178	123, 136, 138, 139, 141, 178
धार	धार	संगेसरा	(26/1), (26/2), 25/1, 28, 80, 81, 82, 49, 78/2, 78/1, 29, 75, 74, 73, 27, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 87/2, 87/1, 86/1, 86/2, 84/1/1, 83/1, 94, 95	(26/1), (26/2), 25/1, 28, 49, 45, 77, 29, 78, 75, 74, 73, 30, 27, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 87/2, 87/1, 86/1, 86/2, 84/1/1, 83/1, 94, 95
धार	धार	चौकी	40, 37/4, 37/3, 37/2, 37/1/2, 37/1/1, 21, 20, 22/2, 23, 24, 22/1, 18, 19, 7, 16/2, 16/1, 15, 13, 12, 25, 27	40, 37/4, 37/3, 37/2, 37/1/1, 21, 22/2, 23, 24, 22/1, 18, 19, 7, 16/2, 16/1, 15, 13, 12, 25, 27
धार	धार	मुसावदा	77, 54, 50, 49, 48, 45, 44, 43/1, 41, 39/2, 38, 40/1, 165, 166, 167, 160/2, 160/3, 161, 162, 164, 165, 169/1, 169/2, 186, 187, 189, 41, 17/2, 19, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 21, 22, 23/3, 23/2, 23/1, 25/2, 25/9, 25/8, 25/7, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33	77, 54, 50, 49, 48, 45, 44, 43/1, 41, 39/2, 38, 40/1, 165, 166, 167, 160/2, 160/3, 161, 162, 164, 165, 169/1, 169/2, 186, 187, 189, 41, 17/2, 19, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 21, 22, 23/3, 23/2, 23/1, 25/2, 25/9, 25/8, 25/7, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	धार	खैरोद	48, 49, 50/2, 50/4, 51, 54, 79, 80, 81, 82, 87/2, 86, 87, 97, 96, 100, 112, 98, 126, 391, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 182, 186, 187, 184, 188, 189, 26, 27, 28, 41, 40/1, 40/2, 42, 46, 24, 25, 111, 126	48, 49, 50/2, 50/4, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 82, 87/2, 86, 87, 97, 96, 100, 112, 98, 126, 391, 390, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 182, 186, 187, 184, 188, 189, 26, 27, 28, 41, 40/1, 40/2, 42, 46, 24, 25, 111, 126
धार	बदनावर	मनासा	3, 4, 10, 12, 13, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 77, 75, 73, 76, 79, 80, 81/1/4, 81/1/1, 82, 83, 60/1, 84, 411/1/1, 411/1/2, 411/2, 410, 409, 408, 406/1, 407/1, 350, 356, 120, 117, 85, 94, 89, 88, 87	2/1/2, 3, 4, 10, 8, 11, 12, 15, 13, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 49/3+50+49/2, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 77, 75, 73, 74, 76, 79, 80, 81/1/4, 81/1/1, 82, 83, 60/1, 411/1/1, 411/1/2, 411/2, 412, 410, 409, 408, 406/1, 407/1, 350, 356, 120, 118, 117, 111, 112, 117, 116, 85, 94, 89, 88
धार	बदनावर	रंगाराखेडी	255/1, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 273, 274/2/2, 272/1, 271, 270, 280, 269, 268/2, 267, 264, 265/2, 293/2, 263/1	255/1, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 273, 274/2/2, 272/1, 269, 268/2, 267, 264, 265/2, 265/1/2, 293/2, 263/1
धार	बदनावर	माकनी	5/1/2, 5/1/3, 6/1, 6/2, 17, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 57, 61/1, 63, 61/2, 58/2, 42, 38, 37, 36, 245, 244, 243, 242, 228, 227/3, 226/1, 226/2, 226/3, 215/1, 213, 214, 212, 210, 209, 208, 205, 206/1, 207, 77, 76, 65, 69, 68, 66, 67, 64	5/1/2, 5/1/3, 6/1, 6/2, 5/1/6, 17, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 57, 56, 61/1, 63, 61/2, 58/2, 42, 41, 38, 39, 37, 36, 245, 244, 243, 242, 228, 227/3, 226/1, 226/2, 226/3, 215/1, 213, 214, 212, 210, 209, 208, 205, 206/1, 207, 77, 76, 65, 69, 68, 66, 67, 70, 64
धार	बदनावर	नागदा	47, 54, 55, 61/2, 64, 339/1, 339/1/2, 49, 68, 342/1, 342/2, 341, 368, 339, 43, 340	47, 54, 55, 61/2, 64, 339/1, 339/1/2, 49, 68, 342/1, 342/2, 341, 368, 339
धार	बदनावर	सनोली	449, 448, 442/2/2, 442/1/2, 442/1, 442/2, 440, 439, 437, 435, 434/1, 433, 431, 432, 370, 422, 430, (424+425), 380/2, 423, 407/1, 407/2/1, 407/2/2/1, 407/2/2/2, 455/1/1, 428, 455/2/2, 459	449, 448, 442/2/2, 442/1/2, 442/1, 442/2, 440, 439, 438, 437, 435, 434/1, 433, 434/2, 445, 432, 370, 436/1, (424+425), 380/2, 423, 407/1, 407/2/1, 407/2/2/1, 407/2/2/2, 455/1/1, 428, 455/2/2, 459
धार	बदनावर	खजुरीया	32, 40, 39/2/1, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46/1, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 53/1, 53/2, 52/3, 230, 69/5, 69/4, 69/3, 60/5, 60/4, 60/3, 60/2, 60/1, 59/2, 59/1, 61/2, 58, 20, 21, 26/3, 26/4, 29, 30, 33	32, 40, 39/2/1, 37, 38, 45, 46/1, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 53/1, 53/2, 230, 69/5, 70, 69/4, 69/3, 60/5, 60/4, 60/3, 60/2, 60/1, 59/2, 59/1, 61/2, 58, 20, 21, 26/3, 26/4, 29, 30, 33
धार	बदनावर	खंडीगारा	28/1, 274, 71/1, 57, 75, 69, 70, 308/78, 84, 85, 86, 97/1, 97/2, 99/1, 99/2, 149, 148, 167/1, 19/1d, 20, 26/1d, 28/2, 29, 30/2, 51, 55/1, 52, 55/2, 56/3, 58/1, 72, 284, 288, 286, 287, 161, 167/2, 167/3, 167/4, 159, 27, 26, 18, 7/1, 6, 2/2, 2/1, 302/1, 302/2	28/1, 274, 71/1, 75, 69, 70, 308/78, 84, 85, 86, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 149, 148, 167/1, 19/1d, 20, 26/1d, 28/2, 29, 30/2, 51, 55/1, 52, 55/2, 56/3, 58/1, 72, 284, 288, 286, 287, 161, 160, 167/2, 167/3, 167/4, 159, 27, 26, 18, 7/1, 6, 2/2, 2/1, 302/1, 302/2, 54, 89/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	बदनावर	कानवन	337, 339, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 311, 290, 289, 275, 273, 272, 271, 25, 24, 23, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 1	337, 339, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 311, 290, 289, 275, 273, 272, 271, 25, 24, 23, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 1
धार	बदनावर	छोकला	4, 5, 6, 8, 10, 26, 28, 29, 30, 32, 45, 51, 330, 331, 328, 332, 336, 339, 337, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 409, 406, 405, 403, 398, 396, 389, 388, 379, 376, 356, 387, 316, 318, 317, 101, 120, 107, 108, 106, 96, 95, 94, 93, 63, 59, 58, 57, 104	4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 32, 45, 41, (49+50), 51, 331, 328, 332, 336, 339, 337, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 409, 407, 406, 410, 405, 403, 398, 396, 389, 388, 379, 376, 356, 387, 316, 318, 315, 313, 317, 101, 120, 107, 110, 108, 106, 105, 96, 95, 94, 93, 61, 63, 59, 58, 57, 104, 103
धार	बदनावर	बोराली	288/1, 289/2, 290/2, 290/3, 308, 320/449, 320+322, 323, 325/2, 326, 327, 324, 328, 329, 330, 392, 393/1, 393/2, 391, 394/2, 396, 399, 400, 401, 402, 403/1, 109, 110, 111, 112, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 185, 186, 319, 234/1, 233, 232, 235, 230, 239, 234/2, 238, 258/1/2, 258/1/1, 257/1/3, 257/1/1/2, 257/1/2/2, 258/2/2, 258/2/1, 287, 286284, 285, 271, 283/1/4, 283/1/3, 283/1/2, 283/1/1, 283/2, 281	288/1, 289/2, 290/1, 290/2, 308, 320/449, 320+322, 323, 327, 324, 328, 329, 330, 392, 393/1, 393/2, 391, 394/2, 396, 399, 400, 401, 402, 403/1, 109, 110, 111, 112, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 185, 186, 319, 234/1, 233, 232, 230, 239, 234/2, 238, 239, 258/1/2, 257/2/2, 258/1/1, 257/1/3, 257/2/1, 257/1/1/2, 257/1/2/2, 258/2/2, 258/2/1, 286284, 285, 271, 283/1/4, 283/1/3, 283/1/2, 283/1/1, 283/2, 281
धार	बदनावर	घटगारा	382, 383, 384, 388/2, 411, 4+5, 399, 402, 403, 404, 405, 437, 506, 507, 508, 510, 511, 519, 528, 524, 546, 482, 483, 588, 591/1, 591/2, 592, 593, 594, 143, 145, 146, 147, 153, 162/2+163, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/2, 167/2, 168, 169, 149, 150, 148, 252, 255, 253, 518, 283, 254, 288, 287, 286, 302, 303, 329, 328, 354, 355/33, 355/2/2, 357, 355/1, 355/2/1, 358, 380, 381	382, 384, 388/2, 411, 4+5, 399, 402, 400/1, 400/2, 403, 404, 405, 406, 437, 506, 507, 508, 510, 511, 519, 528, 524, 546, 482, 483, 588, 591/1, 591/2, 592, 593, 143, 145, 146, 147, 153, 152, 154, 162/2+163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/2, 167/2, 168, 169, 149, 150, 148, 252, 255, 253, 283, 254, 288, 287, 286, 302, 303, 329, 328, 354, 355/33, 355/2/2, 357, 355/1, 355/2/1, 358, 380, 381
धार	बदनावर	पिटगारा	261, 264, 263, 262, 258, 259, 250, 251, 249, 248, 247, 245, 242, 240, 239, 228, 241, 227, 223, 215, 214, 211, 172, 212, 213, 171, 170, 132, 87, 587, 618, 607, 606, 604, 613, 605, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 591, 587, 589, 590, 83, 81, 77, 76, 72, 75/2, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 703/58, 37, 36, 34, 33, 260	264, 263, 262, 258, 257, 250, 251, 249, 246, 245, 244, 242, 240, 239, 228, 227, 226, 225, 223, 224, 222, 215, 214, 211, 172, 212, -, 171, 170, 132, 133, 88, 90, 586, 618, 607, 606, 613, 605, 602, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 591, 587, 590, 83, 81, 77, 76, 72, 75/2, 70, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 703/58, 37, 36, 34, 33, 32

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	बदनावर	खेड़ा	832, 836, 838/1, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 855, 1169, 1268, 1391, 1388, 1389, 1378, 1375, 1377, 2181, 2188, 2190, 2193, 2192, 2191, 2215, 2216, 2214, 2210, 2217, 2212, 2216, 2218, 2220, 2222, 2219, 2207, 139, 2224, 2223, 2227, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2040, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2090, 2116, 2115, 2117, 2118, 2275, 2274, 1366, 1390, 1404, 1405, 1406, 1131, 1138, 1172, 1159, 1198, 1162, 1161, 1160, 1159, 897, 859, 857, 1166, 855	832, 836, 838/1, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 855, 1169, 1268, 1391, 1388, 1389, 1375, 1377, 2181, 2188, 2190, 2193, 2215, 2216, 2214, 2210, 2217, 2212, 2220, 2222, 2207, 139, 2224, 2223, 2227, 2235, 2236, 2240, 2040, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2090, 2116, 2115, 2117, 2118, 2275, 2274, 1366, 1390, 1404, 1405, 1406, 1131, 1138, 1172, 1159, 1198, 1162, 1161, 1160, 1159, 897, 859, 1376, 855
धार	बदनावर	मुलथान	2559, 2557, 2558, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2495, 2494, 2493, 2491, 2461, 2447, 2446, 2445, 2428, 2425, 2424, 2423/1, 2084, 2086, 2099, 1970, 1977, 1976/2/1, 1976/2/2, 1953, 1954, 2823, 1958, 1949, 1960, 1961, 1963, 92, 2665, 69, 2665, 2661/2, 2661/1, 2660, 2642, 2641, 65, 2638, 2600, 2599, 2598, 2596/2, 1597, 2586, 2585, 2584, 2581, 3080/6566, 2575, 2576, 74, 72, 73, 2835, 2836, 2837, 2839, 2894, 2893, 2892, 2885, 2884, 2883, 96, 97, 99, 2923, 2958, 2959, 2928, 2986, 2906, 2968, 2899, 2898, 1946	2559, 2557, 2558, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2495, 2494, 2493, 2499, 2490, 2491, 2447, 2448, 2446, 2445, 2428, 2425, 2424, 2423/1, 2084, 2086, 1991, 2099, 1970, 1964, 1977, 1976/2/1, 1976/2/2, 1978, 1951, 1953, 1954, 2823, 1958, 1949, 1960, 1961, 1963, 92, 2665, 69, 2665, 2661/2, 2661/1, 2660, 2642, 2641, 65, 2638, 2600, 2599, 2598, 2596/2, 1597, 2586, 2585, 2584, 2581, 3080/6566, 2575, 2576, 74, 72, 73, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2894, 2893, 2892, 2885, 2886, 2884, 2883, 96, 97, 99, 2923, 2924, 2958, 2959, 2928, 2986, 2906, 2968, 2901, 2899, 2898, 1946
धार	बदनावर	रीठोडा	22, 21, 18, 24, 25, 17, 16, 14, 13, 11, (5/1)+9, 10, (5/2), 4, 28, 29, 33, 34, 58, 59, (62/1), (62/2), 63, 76, 140, 77, 141, 142, 155	22, 21, 18, 17, 16, 14, 13, 11, (5/1)+9, 10, (5/2), 4, 28, 29, 33, 34, 58, 59, 61, (62/1), (62/2), 63, 76, 140, 77, 142, 155
रतलाम	रतलाम	सुजलाना	29, 30/3, 30/2, 35/9, 35, 135, 140, 114, 112, 111/1, 111/2, 149, 142/1, 142/2, 142/5, 141, 151, 165/1, 165/2, 167, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252, 253, 255/7, 257, 266, 267, 265/2, 268, 269/1	29, 30/2, 35/9, 35, 135, 140, 114, 112, 111/1, 111/2, 149, 142/1, 142/2, 142/5, 151, 165/1, 165/2, 167, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252, 253, 255/7, 255/6, 255/5, 257, 258, 259, 266, 265/2, 268, 269/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	सिमलावदा	63, 64, 65, 67/1, 67/2, 74, 68, 89/1, 89/2, 69/2, 69/1, 91, 102, 110/2/1, 110/2/2, 110/2/3, 110/1, 111, 112, 114/1, 113, 121, 358/1, 359, 358/3, 345, 344, 341/4, 341/3, 339/21, 339/1/1, 339/6, 338, 337, 336, 339/2, 339/3, 272/1, 272/2, 472/2, 472/1, 335, 470/3, 470/24, 470/25, 470/26, 470/27, 360, 455, 390/1, 390/2, 390/3, 399, 388, 397, 362/6, 362/2, 697/1, 390, 727, 728, 739/7, 740, 741, 742, 743/1, 386, 743, 746, 747, 749/8, 749/7, 479/2/2, 749/2/1, 748, 749/1/3/1, 749/1/3/2, 90	63, 64, 65, 67/1, 67/2, 74, 68, 89/2, 69/2, 69/1, 88, 91, 102, 110/2/1, 110/2/2, 110/2/3, 110/1, 111, 112, 114/1, 113, 121, 358/1, 359, 358/3, 346/4, 345, 344, 341/3, 341/2, 339/21, 339/1/1, 339/6, 337, 336, 339/2, 339/3, 272/1, 272/2, 472/2, 472/1, 470/3, 470/24, 470/25, 470/26, 470/27, 469, 455, 390/1, 390/2, 390/3, 399, 388, 397, 396/1, 362/6, 362/2, 697/1, 390, 727, 728, 739/7, 740, 741, 742, 743/1386, 743, 746, 747, 749/8, 749/7, 479/2/2, 749/2/1, 748, 749/1/3/1, 749/1/3/2
रतलाम	रतलाम	रत्तागढ़खेड़ा	476/5, 776/4, 476/2, 477, 478, 479, 481/3/2/1, 481/2, 491/2/4, 491/2/1, 492, 493/2/1, 493/2/3, 475, 473/2, 474, 466/2, 466/3, 464/1, 463/3, 461/1, 463/2/2, 495/1/1, 495/1/3, 495/1/4, 495/1/2, 495/2/1/3, 495/2/1/5, 495/2/1/4, 495/2/1/2, 495/2/2, 495/2/1/1, 495/5	476/5, 776/4, 476/2, 477, 481/1, 478, 479, 481/3/2/1, 481/2, 490, 491/2/5, 491/2/1, 492, 493/2/2, 493/2/1, 493/2/3, 473/2, 474, 472, 466/2, 466/3, 464/1, 461/1, 464/1, 464/2, 463/2/2, 495/1/1, 495/1/3, 495/1/4, 495/1/2, 495/2/1/3, 495/2/1/5, 495/2/1/4, 495/2/1/2, 495/2/2, 495/2/1/1, 495/5
रतलाम	रतलाम	लोचीतारा	1, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 15/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, 18, 77, 85/1, 85/4, 85/5, 85/6, 78, 80/1, 80/2, 85, 87, 98/1, 98/2, 99, 101, 102/1/1, 102/1/2, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 104, 103, 128	1, 11/1, 11/2, 9, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 15/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, 18, 77, 85/1, 85/4, 85/5, 85/9, 85/10, 85/6, 78, 80/1, 80/2, 85, 87, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102/1/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 104, 103, 128
रतलाम	रतलाम	सरवड	202, 388, 387, 386, 389, 385, 382, 384, 343, 344, 342, 340, 339, 337, 352, 353, 329, 328, 327, 326, 266, 324, 323, 321, 261/1, 288, 287, 285, 284, 283, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 252/1, 252/2, 253, 254, 231, 230/7, 230/6, 230/5, 230/1, 229, , 228/13, 228/12, , 228/6, 228/5, 228/3, 228/4, 227/2, 224/1, 224/3, 222/2, 222/1, 221/1, 217/2, 220, 217/1, 221/2, 223/1, 29/2, 218, 34, 30, 29/1, 28/2, 31, 26, 27/1, 27/2, 24/1, 22, 16, 15, 14, 281/5, 267, 266, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 265/1, 265/2, 258/17, 258/16, 258/15, 258/13, 23/3, 218, 257	202, 388, 387, 386, 389, 391, 385, 382, 384, 343, 344, 342, 340, 339, 337, 352, 353, 329, 328, 327, 326, 266, 324, 323, 321, 261/1, 288, 287, 285, 284, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 252/1, 252/2, 253, 254, 231, 230/7, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 228/13, 228/12, 228/6, 228/5, 228/3, 228/4, 227/2, 224/1, 224/3, 222/2, 222/1, 221/1, 217/2, 220, 217/1, 221/2, 223/1, 29/2, 218, 35, 34, 30, 29/1, 28/2, 31, 26, 27/1, 27/2, 24/1, 22, 16, 15, 14, 281, 281/5, 267, 266, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 258/17, 258/16, 258/15, 258/13, 23/3, 218, 257

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	जमुनिया	42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45/1/1, 45/1/2, 45/2/1, 45/2/2, 48, 61/2, 61/1, 62, 63/2, 63/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 414/1, 414/2, 413/1, 413/2, 475/615, 412, 513/1, 513/2, 513/609, 514/1/1, 514/1/2, 514/2, 537, 556/1, 556/2, 557, 558/1, 558/2, 510, 511/1, 511/2, 492/1, 492/2, 475, 477/3/1, 477/3/2, 474, 472/1, 472/2, 473, 450, 489, 449/1, 449/2/1, 449/2/2, 449/3, 455, 447/1, 447/2, 446/1, 446/2, 445/1, 445/2, 444, 423/1, 423/2, 416, 422/1/1, 422/1/2, 422/2/1, 422/2/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2	42/1, 42/2, 42/3, 43, 42/4, 44, 45/1/1, 45/1/2, 45/2/1, 45/2/2, 48, 60, 61/2, 61/1, 415, 416, 62, 65, 64, 63/2, 63/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 414/1, 414/2, 413/1, 413/2, 412, 513/1, 513/2, 514/1/1, 514/1/2, 514/2, 537, 556/1, 556/2, 559/1, 559/2, 559/3, 557, 558/1, 558/2, 510, 511/1, 511/2, 493, 492/1, 492/2, 490, 475, 476, 477/3/1, 477/3/2, 474, 472/1, 472/2, 473, 449/1, 449/2/1, 449/2/2, 449/3, 448/1, 448/2, 455, 447/1, 447/2, 446/1, 446/2, 445/1, 445/2, 444, 423/1, 423/2, 416, 422/1/1, 422/1/2, 422/2/1, 422/2/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 424
रतलाम	रतलाम	रेण	29/1, 29/2, 29/3, 32, 31, 33/1, 34, 35, 39/2, 40/528, 40/529, 41/2, 42, 40, 73, 74, 73/1, 73/2, 71/2, 71/1, 70, 69, 63, 66, 65, 62/1, 62/3, 63/1, 63/2, 62/2, 61, 24, 27/6, 92, 91/2, 84, 83/1, 83/2, 79, 78, 76, 476/2, 476/1, 477/1, 483/1, 483/2, 485, 486/2, 495/2, 525, 525/2	29/1, 29/2, 29/3, 32, 31, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 39/2, 40/528, 40/529, 41/2, 42, 40, 73, 74, 73/1, 73/2, 71/2, 71/1, 70, 69, 63, 66, 67/2, 65, 63/1, 63/2, 62/2, 61, 24, 26, 27/5, 27/6, 92, 91/2, 91/1, 84, 83/1, 83/2, 80, 79, 78, 77, 76, 476/2, 476/1, 477/1, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 495/2, 525, 525/2
रतलाम	रतलाम	महु	52/1, 53, 179/2/1, 179/2/2, 179/3, 177/1, 177/2, 177/3, 176, 175/1, 174/3, 174/4, 167, 174/2, 174/1, 169/1, 169/3, 169/4, 169/2, 168, 209, 208, 207, 206/2, 180, 179/4, 181/1, 181/3, 181/4, 193/1, 193/2, 192, 195/2, 194, 196/1, 196/2, 200, 203/2, 203/1, 204	52/1, 53, 179/2/1, 179/2/2, 179/3, 177/1, 177/2, 177/3, 176, 175/1, 149/1/2, 174/3, 174/4, 173, 167, 174/2, 174/1, 169/1, 169/3, 169/4, 169/2, 168, 209, 208, 207, 206/2, 181/1, 181/3, 193/1, 183/1, 193/2, 192, 195/2, 194, 196/1, 196/2, 200, 203/2, 203/1, 204
रतलाम	रतलाम	बिलपांक	51, 52, 53/4, 53/1, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/3, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 62, 63, 66, 67, 68/1, 70/1, 71, 72, 73, 79, 80, 81/1, 94/1, 94/2, 126, 50, 43/2, 39/2, 39/4, 39/1, 43/2, 43/1, 48, 49, 46, 47, 45, 163/1, 150, 130, 129, 128/1, 128/2, 127/3, 127/1, 127/2, 100/1, 101/1, 89, 98/1, 96, 95, 40	51, 52, 53/4, 53/1, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58/6, 59, 57/1, 57/2, 62, 64, 65, 66, 67, 68/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/5, 71, 70/6, 72, 73, 74, 78/4, 79, 80, 81/1, 94/1, 94/2, 92, 39/2, 39/4, 39/1, 43/1, 48, 49, 46, 47, 45, 163/1, 150, 130, 129, 128/1, 128/2, 127/3, 127/1, 127/2, 100/1, 101/1, 100/4, 89, 98/1, 9640
रतलाम	रतलाम	चिकलिया	1, 3/1, 82, 83, 101, 100, 95, 87, 90, 86/6, 85, 86/2, 86/1, 93	1, 3/12, 3/1, 3/4, 82, 83, 101, 100, 84, 94, 95, 87, 90, 86/5, 86/6, 86/2, 86/1, 93

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	धराङ	230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 232/2, 233, 234/1, 234/5, 234/4, 234/3, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 237/1/1, 237/1/2, 237/1/3, 529/1, 531/3, 531/1, 531/2, 237/1/4, 238, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1/1, 226/1/2, 226/2/1, 226/2/2, 198/3, 198/2, 198/6, 198/3, 198/4, 198/5, 198/1, 197/1, 197/2, 227, 187/1, 187/2, 187/3, 182/2, 186, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 847/2, 847/4, 847/5, 843, 844, 536, 537/2, 537/3, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 564, 565, 567, 568/1 पै, 568/1 पै, 568 पै, 568 पै, 568 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/4, 593/2020/2, 593/2020/3, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 604/2, 606/1, 606/5, 606/3, 606/2, 612/2, 613/3, 613/4, 641/1, 646, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 645/1, 647/1, 645/2, 647/4, 647/3, 647/2, 655/1, 655/2, 657, 658/1, 658/2, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 663/4, 663/1, 663/2, 663/3, 675, 679, 680/3, 680/2, 680/1, 600/2, 682/2, 682/3, 682/1, 712, 713, 716, 717, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/3, 718/2, 718/5, 720, 719, 722, 726, 725/1, 725/2, 735, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738, 739/1 से 5 तक, 740/5 मेसे, 740 मेसे, 740 मेसे, 740/4 मेसे, 740 मेसे, 741/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 742/1, 742/2, 742/3, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 744/1/1, 744/1/2, 744/3, 744/2, 743, 744/4, 744/5, 676	230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 232/2, 232/1, 233, 234/1, 234/5, 234/4, 234/3, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 237/1/1, 237/1/2, 237/1/3, 529/1, 531/3, 531/1, 531/2, 237/1/4, 238, 529/1, 528/3, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1/1, 226/1/2, 226/2/2, 198/3, 198/2, 198/6, 198/3, 198/4, 198/5, 199/2, 199/1, 198/1, 200/1, 197/1, 197/2, 227, 187/1, 187/2, 187/3, 182/5, 182/2, 186, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 847/2, 847/3, 847/4, 847/5, 843, 844, 845, 536, 537/2, 537/3, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568/1 पै, 568/1 पै, 568 पै, 568 पै, 568 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/2020/1, 593/2020/2, 593/2020/3, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 604/2, 606/1, 606/5, 606/3, 606/2, 607/1, 612/2, 613/3, 613/4, 641/1, 646, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 645/1, -, 645/2, 647/4, 647/3, 647/2, 655/1, 655/2, 655/3, 654, 657, 658/1, 658/2, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 663/4, 663/1, 663/2, 663/3, 675, 679, 680/3, 680/2, 680/1, 600/2, 682/2, 682/3, 682/1, 712, 713, 716, 717, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/3, 718/2, 718/5, 720, 719, 722, 726, 725/1, 725/2, 735, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738, 739/1 से 5 तक, 740/5 मेसे, 740 मेसे, 740 मेसे, 740/4 मेसे, 740 मेसे, 741/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 742/1, 742/2, 742/3, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 746, 744/1/1, 744/1/2, 744/3, 744/2, 743, 744/4, 744/5, 676

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	मंगरोल	759/1, 759/2, 759/3, 754, 749, 747, 746, 793/1, 793/2, 793/3, 794, 795, 799, 791/1, 791/2, 779, 780, 790/1, 790/2, 792, 789, 787, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 774, 761/1, 761/6, 761/7, 761/8, 762, 768, 761/2, 761/4, 761/5, 761/3	758/1, 758/2, 758/3, 759/1, 759/2, 759/3, 754, 749, 747, 746, 793/1, 793/2, 793/3, 794, 795, 799, 791/1, 791/2, 779, 780, 790/1, 790/2, 792, 789, 787, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 774, 761/1, 761/6, 761/7, 761/8, 762, 768, 761/2, 761/4, 761/5, 761/3
रतलाम	रतलाम	खाराखेड़ी	4/1, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 6/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 35, 35/7, 35/5, 107/1, 107/2, 108, 175, 176/2, 176/4, 176/1, 174/2, 171, 158/1, 158/2, 157/2, 157/1, 149, 177, 178, 179, 177, 261/1, 267/1, 267/2, 267/3, 261/4, 260/2, 264/2, 264/1, 260/3, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 244, 180/4, 180/3, 180/2, 180/1, 191/4, 173, 14, 191/3, 191/13, 191/14, 191/8, 191/7, 191/2, 191/6, 191/12, 191/10, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/2, 208/4, 208/7, 211	4/1, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 6/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 35, 35/2, 35/7, 35/5, 35/6, 107/1, 107/2, 108, 175, 176/3, 176/2, 176/4, 176/1, 174/2, 170, 171, 158/1, 158/2, 159, 157/2, 157/1, 156, 149, 177, 261/1, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 261/4, 261/2, 260/2, 264/2, 264/1, 260/3, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 244, 180/4, 180/3, 180/2, 180/1, 191/4, 14, 191/3, 191/13, 191/14, 191/8, 191/7, 191/2, 191/6, 191/12, 191/10, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/2, 208/4, 208/7, 206, 211
रतलाम	रतलाम	सालाखेड़ी	166, 165, 164/2, 164/3, 164/1, 163/2, 163/1, 147, 146, 144/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/9, 143, 145/2, 144/17, 142, 144/15, 144/16, 149, 140, 94/1, 94/4, 94/2, 93, 92, 72/6, 72/5, 72/1, 72/4, 72/3, 72/2, 73/1, 79, 68, 69/1, 68/1, 62, 67, 64/1, 64/4, 64/5, 66/3, 66/4, 64/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/3, 78, 253, 267, 61/2, 61/1, 60, 59, 56, 49/1, 49/4, 49/6, 49/3, 49/5, 28/1, 28/7, 28/6, 28/5, 28/2, 28/3, 28/4, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 23/1, 24/6, 24/1, 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 14/7, 20, 14/2, 14/5, 14/6, 14/1, 15/1, 15/10, 15/11, 15/12, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 12, 11, 5/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/1, 5/1, 4, 3, 2/6, 2/10, 2/8, 2/14, 2/12, 2/15, 2/13, 2/2, 2/1	166, 165, 164/2, 164/3, 164/1, 163/2, 163/1, 163/3, 147, 146, 144/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/9, 144/7, 143, 144/5, 144/6, 145/2, 144/17, 142, 144/10, 144/15, 144/16, 149, 140, 94/1, 94/4, 94/2, 93, 92, 72/6, 72/5, 72/1, 72/4, 72/2, 73/1, 68, 69/1, 68/1, 67, 66/1, 68/2, 64/1, 64/4, 64/5, 66/4, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/3, 78, 253, 267, 61/2, 61/1, 60, 59, 58, 56, 49/2, 49/1, 49/4, 49/6, 49/3, 49/5, 28/1, 28/7, 28/6, 28/5, 28/2, 28/3, 28/4, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 23/1, 24/6, 24/1, 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 14/7, 20, 21, 14/2, 14/5, 14/6, 14/4, 14/1, 15/5, 15/1, 15/10, 15/11, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 12, 11, 5/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/1, 5/1, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/10, 2/8, 2/14, 2/12, 2/15, 2/13, 2/2, 2/1
रतलाम	रतलाम	सनावदा	3, 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 9/2, 9/10, 9/3, 9/9, 9/4/1, 9/4/2, 9/5, 9/8, 9/1/2, 9/1/4, 9/1/3, 10, 80/4, 82/1, 82/2, 82/4, 83/2, 85/1, 85/2/1, 85/2/3, 86, 87, 88, 79, 13, 11, 12, 19/2, 19/3	3, 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 9/2, 9/10, 9/3, 9/9, 9/4/1, 9/4/2, 9/5, 9/8, 9/1/2, 9/1/4, 9/1/3, 9/6, 10, 80/4, 80/3, 82/1, 82/2, 82/4, 83/2, 85/1, 85/2/1, 85/2/3, 86, 87, 88, 39, 40, 79, 13, 11, 12, 19/2, 19/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	भट्टनी	109, 122, 129, 132/2, 132/4, 132/3, 138/1, 137, 147/1, 147/4, 147/3, 147/2, 138/2, 146/1, 146/3, 145/1, 145/2, 146, 187, 143, 142, 139/1, 139/2, 139/3, 131, 130	109, 121, 122, 129, 132/2, 132/4, 132/3, 138/1, 138/3, 137, 147/1, 147/4, 147/3, 147/2, 138/2, 146/1, 146/2, 146/3, 145/1, 145/2, 146, 187, 144, 143, 142, 139/2, 139/3, 140, 131, 130
रतलाम	रतलाम	सुराखेड़ी	12, 21, 23, 25, 34, 27, 28, 38, 55, 52, 45, 44, 43, 42, 22	12, 21, 23, 25, 24, 34, 27, 28, 38, 55, 52, 53, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 22
रतलाम	रतलाम	भाटखेड़ी	17, 18, 19/3, 19/1/3, 20, 12, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 28, 27, 25, 23, 16	17, 18, 19/1/4, 19/2, 19/3, 19/1/3, 20, 12, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 28, 27, 25, 23, 21, 16
रतलाम	रतलाम	घटला	17, 18, 20/3, 20/4, 20/5, 15, 16, 20/6, 20/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 13, 206, 215/2, 215/3, 214/2, 214/3, 214/1, 211/1, 211/2, 213/1, 212, 225, 207, 256/3, 256/2, 254/1, 251/2, 250/2, 243/1, 243/2	17, 18, 20/3, 20/4, 20/5, 15, 16, 20/6, 20/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 13, 206, 215/2, 215/3, 214/2, 214/3, 214/1, 211/1, 211/2, 213/1, 212, 225, 207, 256/3, 256/2, 254/1, 251/2, 250/2, 243/1, 243/2
रतलाम	रतलाम	डोसीगाँव	-	116, 115, 117/1, 118, 119/1, 119/2, 120

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	सेजावता	62, 64/4, 64/7, 64/6, 64/2, 64/3, 64/5, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 77/5, 77/1, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 88, 96, 93, 92, 272, 271, 270, 267, 262, 263, 263/510, 356, 352, 351, 350, 375, 373, 372, 371, 370, 358/3, 358/2, 358/1, 259, 261/4, 261/3, 261/5, 261/2, 261/1, 249, 245, 149, 140/9, 140/1, 140/2, 140/10, 133/1, 132, 131/5, 131/8, 129, 128/6, 125/3, 125/8, 125/10, 125/11, 125/2, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 124, 99/4, 99/5, 98, 108	62, 64/4, 64/7, 64/6, 64/2, 64/3, 64/5, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 77/4, 77/5, 77/1, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 88, 96, 93, 92, 272, 271, 270, 267, 262, 263, 263/510, 356, 352, 351, 350, 375, 373, 372, 371, 370, 358/3, 358/2, 358/1, 259, 261/4, 261/3, 261/5, 261/2, 261/1, 249, 245, 149, 140/9, 140/1, 140/2, 140/10, 133/2, 133/5, 133/1, 132, 131/5, 131, 131/8, 130, 131/9, 129, 128/6, 125/3, 125/8, 125/10, 125/11, 125/2, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 124, 99/4, 99/5, 98, 108, 128/10, 128/12
रतलाम	रतलाम	धौसवास	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12/2, 11/8, 12/10, 12/6, 12/9, 13, 13/616, 29/2, 31, 21, 273/1, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 377, 381, 378, 382, 383, 394, 391, 395, 393, 396, 394/1, 394/2, 394/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 408/5, 407/603, 561, 560/1, 560/2, 568, 573, 574/1, 574/4, 574/5, 580/3, 580/8, 580/6, 582/1, 582/3, 582/2, 582/4, 582/7, 582/8, 582/5, 582/11, 582/10, 582/9, 582/6, 583, 262, 261, 420, 419, 418, 264, 417, 416, 415, 414, 559, 558, 557/2, 522/1, 551/1, 551/2, 550/2, 549, 548/1, 547/2, 546, 584/13, 584/1, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/9, 584/10, 584/14, 267, 73, 74/1, 72/1, 72/2, 72/3, 71, 70, 69, 66/4, 66/3, 66/2, 65/2, 65/4, 65/5, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 35, 34, 37/1, 36, 37/2, 38/2, 38/1, 39, 142, 143, 153, 155, 157, 159, 265, 264, 33, 266, 547/1/1, 547/2, 394/3/1, 394/3/2	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12/2, 11/1, 11/8, 12/5, 12/10, 12/6, 12/9, 12/7, 13, 13/616, 29/2, 30/1, 31, 21, 274/2, 273/1, 273/2, 275/2, 275/3, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 272, 271, 270, 269, 268, 292, 299, 293, 267, 377, 381, 378, 382, 383, 394, 391, 395, 393, 396, 394/1, 394/2, 394/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 408/5, 407/603, 561, 560/1, 560/2, 568, 573, 574/1, 574/4, 574/5, 580/2, 580/3, 579, 580/8, 580/6, 582/1, 582/3, 582/2, 582/4, 582/7, 582/8, 582/5, 582/11, 582/10, 582/9, 582/6, 583, 262, 261, 420, 419, 418, 255, 264, 417, 416, 415, 414, 559, 558, 557/2, 522/1, 551/1, 551/2, 550/2, 523, 549, 548/1, 547/2, 546, 584/13, 584/1, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/9, 584/10, 584/14, 267, 73, 74/1, 72/1, 72/2, 72/3, 71, 70, 69, 66/4, 66/3, 66/2, 65/2, 65/4, 65/5, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 37/2, 38/2, 38/1, 39, 142, 141, 143, 154, 153, 155, 157, 158, 159, 264, 33, 547/1/1, 547/2, 394/3/1, 394/3/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	नामली	143, 137, 145/15, 145/2, 145/3, 145/4, 889, 885, 883, 882, 878, 876, 876/1/2, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203, 872/1	265, 266, 267, 268, 369, 285, 282, 283, 281, 279, 290, 260/1187, 262, 263/1203, 269, 261, 260, 680, 602, 603, 604, 613, 671, 670, 667, 663, 676, 674, 673, 672, 665, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1037, 143, 191, 189/3, 190/1209, 184/1143, 180, 178, 169, 171/1, 163, 162, 194, 195, 190, 184, 183, 182, 176, 165/1208, 173, 174, 376, 373, 371, 377, 366, 367, 368, 369, 284, 286, 287, 288, 289, 293, 292, 278, 264, 137, 145/15, 145/2, 145/3, 145/4, 888, 889, 887, 886, 885, 883, 882, 878, 876, 876/1/2, 876/1/3, 872/1, 873, 849, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203, 872/1, 873, 849, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203, 872/1
रतलाम	रतलाम	मेवासा	273/2, 273/1, 274, 271/1, 276/4, 276/1, 276/3, 277, 258, 257, 256, 280/2, 280/1, 279, 281, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 275, 235, 236, 234, 233, 285, 286, 231, 230, 194, 232, 193, 287, 184, 171, 183, 74, 73, 75, 185, 181, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97/1, 97/2, 98, 97/365, 108, 109, 121, 120, 122, 124/1, 124/2/2, 134, 135/4, 137, 143, 144/1, 147, 149, 150, 151, 311, 152, 153, 154, 159, 180, 179, 178, 177, 176, 172, 124/6, 125/1, 127, 128, 129, 343, 349, 340/1, 340/2, 131, 132, 134	273/2, 273/1, 274, 271/1, 276/4, 276/1, 276/3, 277, 258, 257, 256, 280/2, 280/1, 279, 281, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 275, 235, 236, 234, 233, 285, 286, 231, 230, 194, 232, 193, 287, 184, 171, 183, 74, 73, 75, 185, 181, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97/1, 97/2, 98, 97/365, 108, 109, 121, 120, 122, 124/1, 124/2/2, 134, 135/4, 137, 143, 144/1, 147, 149, 150, 151, 311, 152, 153, 154, 159, 180, 179, 178, 177, 176, 172, 124/6, 125/1, 127, 128, 129, 343, 349, 340/1, 340/2, 131, 132, 134
रतलाम	रतलाम	नयापुरा	87, 88, 80/2, 96, 97/1, 97/2, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 149/2, 151, 150, 155, 154, 153, 152	87, 88, 89, 80/2, 96, 97/1, 97/2, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 149/2, 151, 150, 155, 154, 153

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	रतलाम	भदवासा	1, 2, 3, 4, 41, 6, 9, 8/1, 8/3, 5	1, 2, 3, 41, 6, 9, 8/1, 8/3, 8/4
रतलाम	पिपलौदा	पाडलिया हसन	161/2, 159/2, 158/3, 159/3, 158/1, 158/2, 156, 154, 145, 140, 135/2, 141, 126, 123, 135/3, 119, 118, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 260, 261, 262, 268/4, 268/5, 280, 279, 278, 286/1, 286/2, 286/5, 152/2/4 क, 152/2/4 ख, 157, 312/1, 312/2, 310, 309, 308/2, 308/4, 308/5, 308/1/2, 308/3, 308/1, 306, 308/1/1, 397, 400, 160, 161/1, 163, 164, 165, 166, 125/2, 125/3, 124, 122, 121, 256, 257, 258, 281/1, 281/3, 281/4, 283, 285, 284/420, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 306, 400/1, 400/2, 416, 125/2, 120/1/1, 120/1/2, 120/1/3, 120/1/4/1, 120/1/4/2, 120/1/5, 120/2, 120/3, 120/4	161/2, 159/2, 158/3, 159/3, 158/1, 158/2, 156, 154, 145, 143, 140, 135/2, 132, 141, 131, 126, 123, 135/3, 119, 118, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 260, 263, 261, 262, 268/4, 280, 279, 278, 286/1, 286/2, 301/1, 301/2, 305, 370/1, 370/2, 403, 152/2/4 क, 152/2/4 ख, 157, 268/6, 268/7, 312/1, 312/2, 310, 309, 308/4, 308/5, 308/1/2, 308/3, 308/1, 308/1/1, 397, 400, 160, 161/1, 163, 164, 165, 166, 125/2, 125/1, 125/3, 124, 122, 121, 256, 257, 258, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 283, 285, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 306, 400/1, 400/2, 416, 125/2, 120/1/1, 120/1/2, 120/1/3, 120/1/4/1, 120/1/4/2, 120/1/5, 120/2, 120/3, 120/4
रतलाम	पिपलौदा	अरनिया गुजर	101, 100, 143, 142, 141, 140, 138, 130, 129, 385, 386, 393/1, 393/2, 403, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 398, 404, 406, 405, 127, 128, 124, 123, 122, 121, 119, 116, 113/1, 113/2, 113/3, 111, 109, 111/408, 112, 108/1, 108/2, 107, 105, 103, 102	101, 100, 143, 142, 141, 96, 140, 145, 138, 139, 137, 136, 135, 130, 129, 383, 384, 385, 386, 387, 393/1, 393/2, 403, 401/1, 401/2, 101, 100, 143, 142, 141, 96, 140, 145, 138, 139, 137, 136, 135, 130, 129, 383, 384, 385, 386, 387, 393/1, 393/2, 403, 401/1, 401/2, 402/2, 402/3, 402/4, 398, 406, 405, 127, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 116, 115, 113/1, 113/2, 113/3, 111, 109, 111/408, 112, 108/1, 108/2, 106, 107, 105, 103, 104
रतलाम	पिपलौदा	सोहनगढ़	751, 755, 812/1, 782, 783, 777/1, 777/2, 773, 779, 772/1, 772/2, 785, 788/1883, 789, 790, 784, 756, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1768, 1811 मे.से., 1811 मे.से., 1810, 1807, 1806, 1802, 1803, 1813/1, 1813/3, 1819, 1797, 1796, 1795, 1792, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1786, 1812, 1820, 1821, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2/1, 1844/2/2, 1844/3, 1859, 1860	751, 755, 812/1, 782, 783, 786, 777/1, 777/2, 773, 774, 779, 772/1, 772/2, 785, 788/1883, 788, 789, 792, 790, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1768, 1811 मे.से., 1811 मे.से., 1810, 1807, 1806, 1802, 1803, 1813/1, 1813/3, 1814/1, 1816/2, 1817, 1819, 1818, 1797, 1798, 1796, 1799, 1795, 1792, 1793, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1788, 1786, 1820, 1821, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2/1, 1844/2/2, 1844/3, 1859, 1860

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	पिपलोवा	पाडलिया उमर	164, 165, 166, 167, 176, 177/2, 177/1, 180, 185, 184, 183, 159, 203/1, 204, 206, 207, 222/1/क, 210, 118/2, 151/1/क, 151/1/ख, 119, 153/1/क, 121, 126, 128, 150, 149, 152, 153, 162, 161, 160, 69, 53/2, 53/1, 52, 50, 49, 48, 47, 46	164, 165, 166, 167, 176, 177/2, 177/1, 180, 181, 185, 184, 183, 200, 159, 203/1, 204, 206, 207, 222/1/क, 210, 118/2, 151/1/क, 151/1/ख, 119, 153/1/क, 121, 126, 128, 150, 149, 152, 153, 162, 161, 154, 160, 69, 54, 53/2, 53/1, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46

II)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	जावरा-नयागाँव फोरलेन मार्ग, ए स.एच.-31	127.81	रतलाम, मन्दसौर, नीमच

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	जावरा	लुहारी	209, 219/1/1/1, 219/1/1/2, 219/1/2, 219/1/3, 220, 221/1, 221/2, 224, 115, 228, 229/3, 229/1/1, 229/1/2, 229/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/2, 234, 234/2/2/2, 238/3, 238/2, 235/1, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247/2, 246/2, 246/1, 247/4, 113, 114, 118/2, 124, 125, 128, 129, 129/4, 93, 130, 149/4, 151/2, 153, 152, 153/1, 156/3, 203/1, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 207/2	209, 219/1/1/1, 219/1/1/2, 219/1/2, 219/1/3, 220, 221/1, 222, 221/2, 224, 115, 228, 229/1/1, 229/1/2, 230, 231/1, 233/3, 233/5, 233/2, 234, 234/2/2/2, 238/3, 238/2, 235/1, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247/2, 246/1, 247/4, 114, 118/2, 124, 125, 128, 129, 129/4, 93, 130, 149/4, 151/2, 153, 152, 153/1, 156/3, 203/1, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 207/2
रतलाम	जावरा	कुम्हारी	2, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11/5, 11/1, 11/6, 11/7, 6/2, 6/4, 22, 23/1, 23/4, 23/2, 23/3, 24/1, 28/1, 25/2, 26/3, 29, 30/2, 31, 35/17, 35/18, 50, 30/1, 53, 51, 54, 55, 57, 57/3, 57/15, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21	4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11/5, 11/1, 11/6, 11/7, 6/2, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 28/1, 25/2, 29, 30/2, 31, 35/17, 35/18, 50, 30/1, 53, 51, 54, 55, 57, 57/3, 57/15, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21
रतलाम	जावरा	बन्नाखेड़ा	69, 227, 54, 104, 168, 169, 172, 171, 174, 175, 178, 183, 182, 69/249, 228, 229, 230, 231, 232, 237/1/1, 237/6, 237/7, 241, 244, 226, 222	69, 227, 54, 104, 168, 163/4, 169, 172, 171, 174, 175, 178, 183, 182, 69/249, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 237/1/2, 237/1/1, 237/6, 237/7, 241, 240, 244, 226, 222

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	जावरा	कस्बा जावरा (जावरा)	690, 692, 694, 695, 696, 708, 691, 465/5/2, 465/6/1, 465/6/3, 465/8, 464, 463, 463/4, 463/1, 462, 461, 453, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 451, 449, 447, 219, 220, 216/4, 216/1 ख, 216/3, 216/1 क, 185, 184/1, 178/3, 178/8, 176/1, 178/2, 176/6, 178/1, 176/4, 176/2, 176/8, 176/3, 175/3, 175/4, 84, 78/2, 78/1, 77/1, 77/2, 76/1, 73/3, 73/5, 73/4, 73/2, 72, 71, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 58/6, 58/158/4 589 58/8 58/7 60 61/1/1 61/1/2 61/2 68 69/2 69/1 69/3 69/4 433 443 444/1 444/3 444/2 443/1 445/2 445/3 445/4 455/1 450 458 460 459 460/1218 465/1 465/2 465/3 465/4 465/7 502/4 508 689 122/1 122/2 122/4 122/3 124/6 124/5 124/4 124/7 124/8 124/9 28/2 28/3 28/1 29/1 29/2 30/1 30/2 30/3/1 30/3/2 30/4 30/5 30/6 31 38/1 38/4 38/5 39/1 42 45/1 45/2/1 45/2/2 45/3 46/1 46/2 49/1 49/2 49/3 50	690, 692, 694, 695, 696, 708, 691, 465/5/2, 465/6/1, 465/6/3, 465/8, 464, 463, 463/4, 463/1, 462, 461, 453, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 451, 449, 447, 219, 220, 216/4, 216/1 ख, 216/3, 216/1 क, 185, 184/1, 178/3, 178/8, 176/1, 178/2, 176/6, 178/1, 176/4, 176/2, 176/8, 176/3, 175/3, 175/4, 84, 78/2, 78/1, 77/1, 77/2, 76/1, 73/3, 73/5, 73/4, 73/2, 72, 71, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 58/3, 58/2, 58/658/1 58/4 589 58/5 60 61/1/1 61/1/2 61/2 68 69/2 69/1 69/3 69/4 433 443 444/1 444/3 444/2 443/1 445/2 445/3 445/4 455/1 450 455/2 458 460 459 460/1218 465/1 465/2 465/3 465/4 465/7 502/4 508 689 122/1 122/2 122/4 122/3 124/6 124/5 124/4 124/7 124/8 28/2 28/3 28/1 27 29/1 29/2 30/1 30/2 30/3/1 30/3/2 30/4 30/5 30/6 31 38/1 38/2 द 38/4 38/5 39/1 42 45/1 45/2/1 45/2/2 45/3 46/1 46/2 49/1 49/2 49/3 50
रतलाम	जावरा	अरनियापिथा	157, 150, 149, 148/1, 148/2, 140, 110, 108, 107, 105, 104, 103, 102/1, 102/3, 52, 51, 50/1, 48, 49, 47, 46, 159/2, 159/1, 161, 168/2, 169, 170, 171, 180, 179, 181, 182, 203, 209, 207, 211, 213, 212, 158,	157, 150, 149, 148/1, 148/2, 140, 141, 109, 106, 103, 102/1, 102/3, 52, 51, 50/1, 48, 49, 159/2, 159/1, 161, 168/2, 169, 170, 171, 180, 179, 178, 181, 182, 203, 209, 207, 211, 213, 212
रतलाम	जावरा	बागाखेड़ा	1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 18/1, 18/3, 19, 20, 26/1, 28, 29, 32, 38, 35, 36, 40, 41, 42, 39, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 98, 129, 134, 140, 141, 142, 143, 148, 145, 143	1, 2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9/861, 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 18/1, 18/2, 17, 19, 20, 26/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 38, 35, 40, 41, 42, 39, 37/1, 38/3, 37/2, 38/2, 38/1, 98, 129, 128, 134, 130, 140, 141, 142, 143, 148, 145, 143
रतलाम	जावरा	भैसाना	78, 79, 80, 83, 84, 94, 93, 95, 96, 139, 140/3, 140/1, 158, 154, 153, 152, 151, 150, 160, 162, 163, 164, 165, 165/3, 165/4, 166, 167, 178, 177, 179, 180, 183, 184, 81	78, 79, 80, 83, 85, 84, 94, 93, 95, 96, 139, 140/3, 140/1, 158, 154, 153, 152, 151, 150, 161/2, 160, 169, 162, 163, 164, 165, 165/3, 165/4, 166, 167, 178, 177, 179, 180, 183, 184, 81

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	जावरा	रीछाचांदा	483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 569, 570, 571, 567, 572, 573, 575, 576, 577, 579, 552, 580, 581, 582, 589, 590, 592, 593, 594, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 620, 282, 283, 293, 294, 310, 311, 312, 313, 314, 396, 397, 398, 399, 400, 414, 415, 416, 451, 453, 455, 459, 460, 461, 462, 181	484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 567, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 552, 580, 581, 582, 589, 590, 592, 593, 594, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 620, 282, 283, 293, 294, 310, 313, 314, 396, 397, 398, 395, 402, 399, 400, 401, 403, 414, 404, 412, 413, 416, 411, 417, 418, 450, 451, 453, 455, 459, 460, 461, 462, 181
रतलाम	जावरा	परवलिया	136, 129, 128, 126, 125, 124, 115, 114, 111, 110, 109, 90, 99, 89, 87, 86, 85, 83, 81, 76, 75, 71, 70, 69, 68, 61, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/2/2, 144, 145, 252, 251, 253, 262, 261, 257, 263, 264, 267, 268, 271, 269, 270, 272, 273, 326, 345, 346, 347, 350, 354, 355, 138	136, 129, 128, 126, 124, 115, 114, 111, 110, 108, 109, 90, 91, 87, 86, 84, 83, 81, 76, 75, 71, 70, 69, 68, 61, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/2/2, 144, 145, 252, 251, 253, 257, 263, 264, 267, 271, 269, 270, 272, 273, 326, 345, 347, 348, 350, 354, 355
रतलाम	पिपलोदा	लसूडियानाथी	72, 73/1, 75, 82, 80, 90, 85, 87, 88, 83, 84, 89	72, 73/1, 74, 75, 82, 80, 90, 85, 87, 88, 84, 89
रतलाम	जावरा	ढोढर	47, 48, 57, 58, 59, 69/1743, 59/1743, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 87, 89, 90, 93, 95, 99, 101, 102, 104, 103, 262, 259, 257, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 907, 906, 908, 911, 912, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075, 1397, 1408, 1409, 1410, 1316, 1411, 1412, 1315, 1314, 1413, 1299, 1297, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 110, 109, 108, 107, 104, 105, 45, 44, 46, 43, 49, 40, 39, 37/1, 36, 30, 29, 28, 27, 26	47, 48, 49, 57, 58, 59, 69/1743, 59/1743, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 262, 259, 258, 269, 268, 270, 271, 272, 273, 278, 281, 282, 292, 293, 294, 295, 296, 907, 906, 908, 909, 911, 912, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1397, 1389, 1408, 1409, 1410, 1421, 1420, 1412, 1418, 1413, 1415, 1416, 1299, 1297, 1296, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 110, 109, 108, 107, 105, 45, 44, 43, 49, 40, 39, 37/1, 36, 30, 29, 28, 27, 26

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रतलाम	पिपलोदा	माननखेड़ा	676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 835, 834, 832, 831, 825, 823, 822, 821, 816, 815, 810, 809, 806, 808, 805, 804, 799, 796, 794, 795, 793, 792, 707, 718, 706, 705, 704, 701, 153, 14, 13, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 164, 163, 162, 161, 160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 699, 698696 694 692/1 692/2 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 689 679 678 152 148 105 104 103 72 71 68 69 63 60 55 23 22 21 20 19 18 17 16 15	676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 835, 834, 832, 831, 825, 823, 822, 821, 816, 815, 810, 809, 806, 808, 805, 804, 799, 796, 794, 795, 793, 792, 707, 718, 706, 705, 704, 701, 153, 14, 13, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 164, 163, 162, 161, 160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 699, 698696 694 692/1 692/2 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 689 679 678 152 148 105 104 103 72 71 68 69 63 60 55 23 22 21 20 19 18 17
मन्दसौर	दलोदा	कचनारा	289, 298, 299, 300, 301, 455, 302, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 510, 514, 580, 588, 589, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 611, 612, 613, 614, 615, 987, 988, 1000, 1001, 1027, 1028, 1026, 1029, 1030, 1031, 1063, 1064, 1079, 1080, 1081, 1084, 1083, 1277, 1279, 1280, 1281, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 248/3, 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 265, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 586, 597, 287, 277, 286, 288	289, 298, 299, 300, 301, 455, 302, 487, 489, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 510, 509, 509/1346, 511, 514, 580, 588, 589, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 611, 612, 613, 614, 615, 987, 988, 1000, 1001, 1002, 1027, 1028, 1026, 1030, 1032, 1031, 1063, 1064, 1079, 1080, 1081, 1084, 1083, 1277, 1279, 1280, 1281, 1273, 1285, 1287, 1288, 1289/1290 1291, 248/3, 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 265, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 586, 597, 290, 287, 277
मन्दसौर	(दलोदा)	आक्याउमाहेड़ा	6, 7, 4, 8, 2, 1, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 38, 40, 47, 48, 49, 58, 57, 45, 97, 98, 71, 99, 100, 88, 1188, 1189, 1134, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1268, 1269, 1271, 1309, 1314, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1335, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 52, 53, 54, 55, 193, 191, 183, 179, 178, 171, 176, 170, 169, 166, 164, 149, 147, 146, 145, 144, 102, 35, 103, 137, 130, 131, 132, 132, 134, 119, 166, 169, 168, 105, 1004, 1007, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1380	5, 6, 7, 4, 8, 2, 1, 13, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 21, 38, 39, 40, 47, 46, 48, 49, 58, 65, 57, 98, 71, 1188, 1189, 1134, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1244, 1246, 1247, 1248, 1268, 1269, 1271, 1309, 1314, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1335, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 52, 53, 54, 55, 193, 191, 197, 183, 184, 187, 182, 179, 178, 171, 176, 170, 166, 165, 164, 149, 147, 148, 150, 146, 137, 119, 166, 169, 168, 105, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1360, 1365, 1359, 1358

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	दलोदा	लखमनखेड़ी	160, 162, 163/2, 165/3, 165, 166, 169/1, 169/2, 170, 171, 173, 174, 206, 199, 198, 196, 195/2, 195/1, 194, 191, 315, 456, 457, 458, 459, 460, 471, 472, 475, 478, 507, 505, 504, 508, 521, 522, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 210/2, 209, 208, 228, 242/2, 243, 242/1, 246, 248/1, 248/2, 313, 529, 527, 526, 525, 540, 543, 544, 542, 545, 563, 554, 555, 556, 557	160, 161, 162, 163/2, 165/3, 165, 166, 169/1, 169/2, 170, 171, 173, 174, 206, 199, 198, 196, 195/2, 195/1, 194, 191, 315, 456, 457, 458, 459, 460, 471, 470, 472, 475, 478, 507, 505, 504, 508, 521, 522, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 210/2, 209, 208, 228, 227, 229, 242/2, 242/1, 246, 247, 248/1, 248/2, 313, 529, 527, 526, 525, 540, 543, 544, 542, 545, 546, 563, 552, 551, 554, 555, 556, 557
मन्दसौर	दलोदा	दलोदा	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 551, 20, 22/1, 21/2, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 115, 116, 113, 118, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 241, 243, 244, 281, 264, 265, 263, 266, 267, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 414, 416, 417, 415, 419, 418, 420, 475/1, 475/2/1, 475/2/2475/3, 486, 487, 493, 494, 496, 511, 512, 519, 520, 535, 544, 546, 906, 907, 909/1, 909/2, 905 मि.1 906 मि.2 902, 577, 576, 578, 575, 589, 570, 568/1, 568/2, 566 मि.1 566 मि.2 567, 165/1, 165/2, 165/3, 555, 554, 553, 642 मि.1 642 मि.2 645, 647, 649 मि.1 649 मि.2 651, 652, 117, 709, 708/2, 710, 695, 711, 718, 717, 715, 719, 722, 726, 727, 547, 548, 1142, 1137, 1136, 1135, 1134, 1129, 1127, 1126, 549, 1125, 1124, 721, 21, 732, 731, 1122, 1121, 1119, 1116, 1114, 1113, 946, 947, 1145, 944, 943, 940, 550, 923, 939, 941, 922, 917, 918, 721, 722	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 551, 20, 22/1, 21/2, 21/01, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 115, 116, 113, 118, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 241, 243, 244, 281, 264, 265, 263, 266, 267, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 414, 416, 417, 415, 419, 418, 420, 475/1, 475/2/1, 475/2/2475/3, 486, 487, 493, 494, 496, 511, 512, 519, 520, 535, 544, 546, 906, 907, 909/1, 909/2, 905 मि.1 906 मि.2 902, 577, 576, 578, 575, 589, 570, 568/1, 568/2, 566 मि.1 566 मि.2 567, 165/1, 165/2, 165/3, 555, 554, 553, 642 मि.1 642 मि.2 645 647 649 मि.1 649 मि.2 651, 652, 117, 709, 708/2, 710, 695, 711, 718, 717, 715, 719, 722, 726, 727, 547, 548, 1142, 1137, 1136, 1135, 1134, 1129, 1127, 1126, 549, 1125, 1124, 721, 21, 732, 731, 1122, 1121, 1119, 1116, 1114, 1113, 946, 947, 1145, 944, 943, 940, 550, 923, 939, 941, 922, 917, 918, 721, 722
मन्दसौर	(दलोदा)	बानीखेड़ी	45, 44, 46, 202, 203, 204, 222, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 920, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220	45, 44, 46, 202, 203, 204, 222, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 920, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	दलौदा	फतेहगढ़ रोजा	89, 91, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 74, 73, 72, 71, 70, 183, 182, 181, 180, 399, 400, 401, 403, 402, 422, 425, 421, 426, 437, 436, 43/5, 434, 432, 431, 556/1, 557, 558, 580/2, 581, 590/2, 601, 599/2, 600, 602, 555, 450, 449, 172, 178, 82, 611, 603, 604, 605, 542, 543, 544, 547, 553, 541, 540, 533, 532, 531, 530, 529, 466, 467, 171, 174, 175, 176, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 95, 94, 93	89, 91, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 183, 182, 181, 180, 399, 400, 401, 404, 403, 402, 422, 425, 421, 426, 437, 436, 427, 428/3, 43/5, 434, 432, 431, 556/1, 557, 558, 580/2, 581, 590/2, 601, 599/2, 600, 602, 450, 611, 610, 609, 603, 604, 605, 542, 543, 544, 547, 553, 541, 540, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 524, 449, 450, 453, 465, 466, 467, 171, 174, 175, 176, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 95, 94, 93
मन्दसौर	मन्दसौर	सोनगरी	3, 4, 22, 25, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 197, 198, 38, 37, 66, 65, 69, 68, 70, 71, 76, 73, 178, 176, 196, 195, 206, 305, 196, 200, 201, 202, 203, 243, 244, 245, 246, 248, 292, 293, 295, 296, 297, 301, 300, 298	3, 4, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 197, 198, 38, 37, 39, 40, 47, 48, 66, 65, 64, 63, 69, 68, 70, 76, 73, 75, 178, 177, 176, 196, 195, 206, 305, 196, 201, 202, 203, 243, 245, 246, 248, 292, 291, 293, 294, 295, 296, 301, 300, 298
मन्दसौर	मन्दसौर	निपानिया भेघराज	29, 28, 30, 31, 32, 33, 28, 42, 41, 40, 32/1, 32/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90/3, 92, 33	29, 28, 30, 31, 33, 28, 42, 41, 40, 38, 32/1, 32/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90/3, 92, 33
मन्दसौर	मन्दसौर	अजीजखेडी	131, 9, 10, 11, 12, 16, 120, 152, 8, 118/4, 118/5, 7, 1/9, 121, 13, 14, 109, 18, 156, 153, 15, 17, 188, 151, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 110, 112, 114, 108	131, 9, 10, 11, 12, 16, 120, 152, 1, 8, 118/4, 7, 1/9, 121, 13, 14, 109, 18, 156, 155, 153, 15, 17, 188, 151, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 92, 111, 110, 112, 114, 108
मन्दसौर	मन्दसौर	ग्यासपुरा	54, 57, 58, 85, 75, 87, 91, 119, 115, 113, 112, 118, 161/1, 162, 76, 84, 117, 104, 116, 114, 108, 109, 57, 64, 65, 58, 220, 218, 219, 67, 74, 221, 222	54, 56, 57, 59, 85, 75, 86, 87, 91, 90/2, 125/1, 119, 115, 113, 112, 118, 110, 161/1, 162, 76, 78, 84, 83, 92, 117, 104, 103, 116, 114, 108, 109, 57, 64, 65, 58, 220, 218, 219, 67, 74, 221, 222
मन्दसौर	मन्दसौर	खिलचीपूरा	469, 468, 465, 467, 466, 623, 624, 625, 627, 456, 626, 631, 633, 632, 634, 635, 645, 636, 628, 458, 459, 464, 463	469, 468, 465, 467, 466, 623, 619, 624, 625, 627, 456, 631, 633, 632, 634, 635, 645, 641, 640, 637, 636, 628, 458, 459, 464, 463
मन्दसौर	मन्दसौर	नालछा	6/1, 6/2, 6/3, 5/1, 5/2, 5/3, 52/1, 52/2, 52/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 72/1, 72/2, 71/1, 71/2, 70, 69, 68/1, 68/2, 68/3, 67, 73, 57, 66/1, 66/2, 65/1, 65/3, 65/2, 64/1, 64/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 62/2, 62/1, 59/3	6/1, 6/3, 5/1, 5/3, 52/1, 52/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 72/2, 71/2, 70, 69, 68/1, 68/3, 67, 73, 57, 66/1, 66/2, 65/1, 65/3, 64/2, 59/2, 60/1, 60/3, 61, 62/1, 59/3
मन्दसौर	मन्दसौर	बीड नौलखा	112/4, 112/3, 128, 121/2, 119/2, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 120, 123/1, 124/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4	112/4, 112/3, 128, 121/2, 119/2, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 120, 123/1, 124/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनो ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनो ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	मन्दसौर	नालछा	187, 188, 186, 196, 171, 276, 275/1, 275/2, 275/3, 274/2, 274/1, 273/2, 273/1, 262, 261, 263, 271/1, 272/2, 271/2, 271/3, 285, 286/1, 284, 287/1, 287/2, 289	188, 186, 196, 171, 276, 275/3, 277, 278, 279, 274/2, 273/1, 262, 261, 260, 271/1, 272/2, 271/3, 285, 286/2, 284, 287/1, 288, 290, 289
मन्दसौर	मन्दसौर	करबा मन्दसौर	1, 40, 1887, 1892, 1895, 1897, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1904, 1912, 1913, 1914, 1919, 1915, 1917, 1980, 1981, 1986, 1987, 1985, 1984, 1983, 1990, 1991, 2000, 1999, 1996, 1998, 1997, 2003, 2015, 2021, 2020	1, 40, 1887, 1892, 1895, 1897, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1904, 1912, 1913, 1914, 1919, 1915, 1917, 1916, 1918, 1980, 1981, 1986, 1987, 1985, 1984, 1983, 1990, 1991, 2000, 1999, 1996, 1998, 1997, 2003, 2015, 2021, 2020
मन्दसौर	मन्दसौर	हैदरवास	4, 99, 71, 63, 70, 29/264, 55, 66, 68, 73, 215, 214, 213/263, 211, 234, 236, 211/365, 235, 237, 238, 261, 240, 217, 239, 233, 231, 230, 47	99, 63, 70, 29/264, 55, 68, 73, 215, 214, 213/263, 211, 234, 236, 211/365, 235, 237, 238, 261, 240, 217, 239, 233, 231, 230, 47,
मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	2041, 2045, 2060, 2059, 2065, 2075, 2071, 2072, 2076, 2077, 2103, 2102, 2101, 2103/3427	2041, 2045, 2060, 2058, 2065, 2075, 2071, 2072, 2073, 2076, 2077, 2103, 2102, 2101, 2103/3427
मन्दसौर	मन्दसौर	दौलतपुरा	278, 279, 280, 273, 268, 256, 269, 302, 254, 253, 255, 252, 303, 249, 251, 250, 248, 241, 237, 216, 219, 220, 223, 224, 221, 222, 217, 231	278, 279, 280, 273, 268, 256, 269, 302, 254, 253, 255, 252, 303, 251, 250, 248, 241, 237, 216, 219, 220, 223, 224, 221, 222, 217, 231
मन्दसौर	मन्दसौर	मुल्तानपूरा	1201, 1202, 1203, 1176, 1265, 1216, 1211, 1209, 1210, 1173	1201, 1202, 1203, 1205, 1176, 1265, 1216, 1211, 1209, 1210, 1173
मन्दसौर	मन्दसौर	भुनियाखेडी	54, 57, 59, 80, 81, 87, 88, 91, 93, 99, 100, 109, 183, 180, 182, 112, 115, 117, 119, 120, 116, 86, 85, 96	54, 57, 59, 80, 81, 87, 88, 91, 93, 95, 99, 100, 109, 183, 180, 182, 112, 115, 117, 119, 120, 116, 86, 85, 96

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनो ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनो ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	मन्दसौर	गुराडिया देदा	1252, 1251, 1249, 1223, 1212, 1217, 1117, 1239, 1237, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1224, 1225, 1221, 1222, 1220, 1250, 604, 611, 605, 610, 607, 606, 617/2, 618, 619, 620, 623, 625, 626, 627, 651, 734, 653, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 731, 732, 1443, 1451, 1444, 1510, 1511, 1512, 1528, 1529, 1530, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1559, 1560, 1568, 1569, 1570, 1576, 1577, 1578, 1579, 1582, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1259, 1258, 1262, 1441, 1442, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1409, 735, 742/4, 742/3, 742/2, 742/1, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 587, 588, 580, 582, 589, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 612, 603	1252, 1251, 1249, 1223, 1212, 1217, 1117, 1239, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1225, 1226, 1221, 1222, 1220, 1250, 611, 610, 607, 606, 617/2, 618, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 627, 651, 653, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 731, 732, 1451, 1449, 1444, 1445, 1510, 1511, 1512, 1513, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1559, 1558, 1560, 1568, 1569, 1570, 1576, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1233, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1259, 1258, 1262, 1440/2, 1441, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1409, 735, 742/4, 742/3, 742/2, 742/1, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 760, 753, 754, 755, 756, 586, 587, 584, 585, 588, 583, 582, 581, 589, 593, 594, 596, 597,
मन्दसौर	मल्हारगढ़	बोतलगंज	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 233, 229, 230, 236, 237, 238, 244, 243, 266, 267, 268, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 298, 299, 300, 305, 306, 316, 317, 328, 331, 330, 332, 333, 334/417, 341, 349, 352, 353, 354, 355, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 256, 257	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 233, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 223, 224, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 244, 266, 268, 269/415, 275, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 298, 299, 300, 305, 306, 316, 317, 328, 331, 330, 334/417, 335, 334, 341, 349, 350, 351, 353, 354, 358, 355, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 256, 257
मन्दसौर	मल्हारगढ़	थडौद	82, 79, 78, 77, 76, 427, 262, 414, 433, 452, 453, 495, 496, 497, 511, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 542, 550, 557, 555, 554, 675, 239, 187, 148, 524, 676, 261, 259, 260, 256, 255, 254, 250, 252, 249, 248, 212, 213, 211, 209, 208, 261, 161/2, 160, 156, 157, 158, 88, 89, 90, 84, 83, 153, 86, 87	81, 82, 79, 78, 77, 76, 427, 262, 414, 433, 449, 452, 453, 494, 495, 496, 497, 503, 504, 505, 511, 522, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 542, 544, 543, 548, 545, 550, 551, 552, 558, 557, 555, 554, 675, 239, 187, 164, 524, 676, 259, 260, 257, 256, 255, 254, 252, 253, 249, 248, 212, 213, 214, 211, 210, 209, 208, 261, 161/2, 162, 160, 155, 156, 157, 159, 88, 89, 90, 85, 84, 83, 153, 86, 87

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	मल्हारगढ़	बही	1003, 1004, 863, 862, 861, 860, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1191, 1209, 1212, 1214, 1006, 1005, 1013, 1150, 1210, 1211, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1093, 1094, 1126, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1992	1003, 1004, 863, 862, 861, 860, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1191, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1209, 1212, 1214, 1006, 1013, 1150, 1007, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1093, 1094, 1126, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1992
मन्दसौर	मल्हारगढ़	सौकड़ी	163, 165, 171, 169/2, 176, 175, 114, 116/2, 117/1, 118, 170, 172, 173	163, 165, 171, 176, 174, 175, 114, 115, 116, 116/2, 118, 170, 172, 173
मन्दसौर	मल्हारगढ़	पिपलीया पंथ	14/1, 16/1, 15/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15/2, 15/3, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 32/1, 30, 31, 32/2/1/1, 32/2/1/2, 32/2/2, 36/2/1, 36/1/1, 36/2/2, 36/5, 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8, 35, 37, 38, 70, 71, 99, 98, 100, 101, 102, 103, 117, 118, 119, 121, 123/1, 123/2, 123/3, 124/4, 129, 128, 352/1, 352/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/3, 359/1, 350, 348, 349, 346, 345, 344/2, 343, 342/1, 329/1, 328, 327, 342/1, 328, 327, 325, 321, 319, 318, 315, 316, 314, 312, 253, 214, 215, 212, 213, 210, 211, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 132, 133, 131, 141, 142, 436, 351	14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 17, 19, 18, 30, 32/2/1/1, 32/2/1/2, 32/2/2, 36/2/1, 36/1/1, 34, 36/2/2, 36/5, 36/8, 38, 39, 70, 71, 99, 98, 105/1, 101, 103, 117, 118, 119, 121, 123/1, 123/2, 123/3, 124/4, 129, 128, 352/1, 352/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/3, 359/1, 350, 348, 349, 346, 345, 344/2, 343, 342/1, 329/1, 328, 327, 325, 321, 319, 318, 315, 316, 314, 312, 253, 214, 215, 211, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 132, 133, 131, 141, 142, 436
मन्दसौर	मल्हारगढ़	खत्या खेडी	230, 229, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 212, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 199, 198, 195, 196, 197, 193, 192, 191, 188, 185, 94, 90, 91, 92, 93, 273, 275, 252, 251, 249, 248, 245, 244, 243, 240, 239, 236, 235, 271, 262, 255, 259, 96/455, 233	230, 229, 235, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 211, 210, 212, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 168, 169, 199, 198, 195, 196, 197, 193, 192, 191, 188, 186, 187, 185, 95, 94, 96, 97, 98, 99, 871, 89, 93, 272, 273, 275, 252, 251, 249, 248, 250, 246, 245, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 271, 262, 255, 259, 96/455

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	मल्हारगढ़	बरखेडा पंथ	307, 169, 170, 172, 171, 176/1/3, 176/1/1, 176/1/2, 236/2, 237, 240, 241, 260, 261, 277, 279/2, 304, 303, 568, 567, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 305, 278, 569, 566, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 589, 706, 704, 703, 709, 711, 721, 722, 723, 725, 724, 1044, 1045, 1046, 1047, 1036, 1034, 1035, 310, 565, 590, 312, 313, 318, 319, 320, 325326 327 335 339 346 347 348 352 355 355 350 359 360 361 525 526 527 528 557/1 557/2 560 559 561 1102 1104 710 308 309 336 337 338 349 351 357 358 558 556 1100 1101 1095 1078 1077 1076 1074/1 1067 1068 1063 1064 1066 1065 1061 1062 1049 1050 1057 1051 1052	307, 169, 170, 172, 173, 176/1/3, 176/1/1, 176/1/2, 236/1, 236/2, 237, 239, 240, 241, 260, 262, 276/2, 277, 271, 279/1, 279/2, 304, 303, 568, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 276/1, 569, 574, 579, 580, 593, 594, 595, 585, 589, 706, 704, 703, 708, 709, 712, 711, 721, 722, 723, 725, 1043, 1044, 1045, 1046, 1036, 1034, 310, 575, 586, 590, 312, 311313 316 318 317 319 320 325 326 327 335 339 346 347 345 348 352 353 355 354 356 355 359 360 361 525 526 527 531 530 528 557/1 557/2 560 561 1104 1105 1106 1103 591 592 587 588 1030 1028 308 337 357 358 558 1107 1108 1100 1101 1099 1095 1096 1097 1098 1076 1079 1075 1074/1 1067 1068 1063 1064 1061 1062 1057 1051 1052
मन्दसौर	मल्हारगढ़	सुठौद	24, 27, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 34, 37, 72, 73, 74, 87, 85, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 139, 140, 157, 156, 158, 159, 160, 161, 197, 218, 203, 208, 478, 487, 488, 489, 625, 634, 335, 655, 653, 654, 675, 676, 677, 678, 680, 728, 679/2, 679/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99/829, 652, 631, 196	24, 26, 27, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 36, 35, 37, 72, 73, 74, 87, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 139, 140, 141, 157, 156, 158, 160, 161, 162, 197, 218, 203, 206, 207, 208, 217, 209, 210, 478, 479, 487, 488, 489, 625, 626, 627, 633, 634, 335, 655, 653, 654, 675, 676, 677, 678, 680, 728679/2 679/1 731 99/829 652 631

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
मन्दसौर	मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	243/1, 244, 245, 256, 257, 258, 279, 280, 281, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 243/1506, 292, 293, 285, 304, 295, 224, 242, 294, 309, 310, 319, 320, 321, 322, 322/1509, 323, 351, 352, 343, 353, 354, 466, 467, 468, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 518, 519, 1284, 1285, 1288, 1286, 1287, 1293, 541, 1391, 1390, 1389, 1392, 1400, 1408, 1409, 14101443 1445/1 1445/2 1445/3 1445/4 1446 1444 1447 1429 1428 1477 747 742 741 737 736 735 727 726 770 716 668 667 651/1 665/2 665/3 665/4 665/5 665/6 665/7 666 663 664 661 653 654 545 544 552 553 554 555 556 559 562 563 566 568 569 570 571 572 573 574 575 577 578 576 579 1096 1097 1098 1099 1100 1107 1102 1101 1142 1393 1394 1379/1 1379/2 1380 1375 1381 1387 1452 1467 1450 1468 1470 1471/1505 1474 1476	243/1, 244, 245, 256, 255, 257, 258, 278, 279, 281, 277, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287, 289, 291, 292, 293, 290, 285, 296, 304, 295, 224, 242, 294, 309, 310, 318/2, 319, 321, 322, 327, 326, 323, 324, 351, 352, 357, 356, 353, 354, 355, 466, 467, 468, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 518, 520, 519, 12841285 1288 1286 1287 1293 541 534 1391 1390 1389 1392 1400 1408 1409 1410 1442 1443 1445/1 1445/2 1445/3 1445/4 1446 1444 1447 1429 1428 1477 747 742 741 737 738 736 735 727 726 725 724 717 718 770 716 668 667 651/1 665/2 665/3 665/4 665/5 665/6 665/7 666 661 660 655 653 654 545 544 552 549 551 555 557 556 559 560 562 561 563 565 568 569 571 572 573 574 575 577 578 576 579 1096 1097 1099 1100 1108 1109 1107 1102 1394 1379/1 1379/2 1380 1375 1374 1381 1382 1387 1451 1452 1467 1450 1468 1469 1470 1471/1505 1471 1473 1474 1475
मन्दसौर	मल्हारगढ़	खेरखेड़ा (मोल्याखेड़ी)	391, 393, 421, 422, 422/437, 423, 423/440, 433, 435, 436, 390, 168, 75, 92, 93, 94, 97, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 178, 3, 171, 74, 1, 2, 224, 242	391, 393, 421, 422, 423, 433, 434, 435, 436, 390, 168, 75, 92, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 166, 167, 169, 195, 170, 172, 173, 178, 3, 74, 224, 242
मन्दसौर	मल्हारगढ़	मुन्डली	1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 11/1, 11/2, 16, 12, 13, 15/3, 33, 34, 69, 77, 81, 82, 74, 76, 73, 51, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 14, 167, 159, 157, 153, 158, 152, 150, 151, 149, 108, 98, 95, 91, 92, 148, 128, 102, 100, 99, 94, 84, 171, 83	1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 11/1, 11/2, 16, 15/3, 33, 32, 34, 35, 36, 69, 77, 81, 82, 74, 75, 76, 73, 51, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 14, 31, 169, 167, 159, 157, 153, 152, 151, 149, 108, 98, 95, 91, 92, 148, 136, 128, 101, 102, 84, 171
मन्दसौर	मल्हारगढ़	चन्गोरी	820, 821, 822, 824, 819/1, 819/2, 825, 826, 818/1, 818/2, 828, 854, 853, 855, 857, 858, 859, 800, 801, 803, 816, 815, 813, 812, 861, 861/1039, 861/1034, 862, 781/1033	820, 819/1, 818/1, 818/2, 854, 855, 859, 800, 801, 803, 816, 813, 812, 861, 861/1039, 861/1034, 862, 781/1033, 817, 860

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
नीमच	जीरन	चल्दू	806, 808, 804, 813, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 870, 871, 872, 873, 876, 874, 805, 1674, 1812, 1823, 1819, 1821, 1797, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1790, 1786, 1779, 1764, 1765, 1759, 1760, 1758, 809, 803, 802, 798, 791, 790, 778, 783, 1813, 1820, 1775, 904, 953, 954, 955, 956, 964965 966 980 989 981 990 1001 1002 1006 1007 1008 1009 1011 1014 1015 1016 1017 1593 785 786 787 781 782 752 749 659 654 653 652 639 633 634 635 636 394 397 398 399 400 401 391 392 390 388 385 389 384 315 1853 1857 1858 1860 1861 1862 1865 1863 1864 1881 1902 1904 1905 1906 1908 1910 6 8 9 632 526 396 395 386 1823 1824 1826 1843 1824 1852 1854 1841 637 1822	806, 807, 808, 812, 813, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 857, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 876, 874, 875, 901, 902, 805, 861, 1674, 1812, 1823, 1818, 1819, 1821, 1797, 1791, 1794, 1795, 1796, 1790, 1786, 1780, 1779, 1777, 1764, 1765, 1759, 1760, 1761, 1758, 809, 803, 802, 798, 792, 791, 790788 778 783 1813 1820 1782 1775 959 903 904 953 954 956 964 997 998 999 965 966 980 979 982 989 983 981 990 1001 1002 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1593 903 961 1000 785 786 787 781 782 780 779 752 750 749 659 658 656 661 662 653 664 649 650 638 639 640 641 642 633 635 636 651 399 400 401 402 403 391 392 390 380 388 381 385 384 315 1853 1857 1858 1859 1865 1863 1881 1902 1904 1905 1906 1907 1908 1910 6 8 9 629 632 526 408 396 386 1823 1824 1826 1824 1852 1854 1841
नीमच	जीरन	बरखेड़ा सोंधिया	99, 104, 105, 107, 108, 100, 101, 102, 106, 103	98, 99, 104, 105, 107, 108, 100, 101, 102
नीमच	जीरन	भंवरासा	633, 636, 634, 637, 635, 638, 639, 640, 642, 644, 648, 650, 651, 652, 582, 583, 595, 596, 632, 631, 654, 657, 661, 665, 666, 667, 668, 673	636, 634, 635, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 582, 583, 595, 596, 597, 613, 631, 630, 529, 654, 656, 657, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 673
नीमच	जीरन	खेताखेड़ा डोरिया	65/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 79, 77, 78, 103, 106, 144, 146, 147, 148, 149/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76	65/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 81, 80, 79, 90, 91, 77, 78, 103, 106, 146, 145, 147, 148, 149/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75
नीमच	जीरन	कचौली	270, 273, 274, 275, 276, 347, 345, 382, 383, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 344, 277, 16, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 230, 234, 235, 236, 237, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 305, 325, 326, 332333 336 337 338 340 341 343 155 156 157 158 462 462/721	270, 273, 276, 347, 345, 382, 845, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 15, 16, 17, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 256, 257, 258, 262, 264, 265, 266, 271, 106, 305, 325, 326, 332, 333335 336 337 338 339 340 341 342 343 155 156 157 159 462 463 475 476 477 498 525 526 527

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
नीमच	जीरन	भाटखेड़ा	177, 171, 172, 158, 161, 160, 159, 154, 17, 91, 92, 89, 93, 103, 123, 124, 122, 127, 129, 130, 668, 669, 176, 174, 175, 155, 156, 157, 151, 152, 149, 170, 145, 140, 139, 133, 132, 360, 366, 367, 368, 382, 394, 393, 460, 461, 462, 465, 168, 387, 11, 82, 12, 13, 14, 15, 16, 94, 107, 108, 109, 110, 384111 113 112 496 495 490 514 515 639 640 641 642 654 653 655 667 673 674 675 685 687 688 689 178 137 383 392 394 393 417 418 460 463 464 467 466 468 469 470 471 472 485 486 487 488 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 690	177, 171, 172, 158, 161, 160, 159, 154, 845, 17, 91, 92, 89, 93, 103, 123, 122, 127, 128, 129, 130, 668, 669, 176, 174, 175, 155, 156, 157, 151, 152, 170, 150, 145, 140, 139, 133, 132, 360, 366, 367, 368, 382, 394, 393, 460, 461, 462, 465, 168, 162, 11, 22, 82, 94, 107, 108, 109, 110, 384, 113, 112, 126496 495 491 490 514 515 639 640 641 642 654 655 667 673 674 675 685 687 688 689 178 179 142 141 137 361 362 363 369 383 390 391 392 395 394 417 418 459 463 464 466 468 469 470 471 472 482 483 484 692 695 696 697 698 699 700 701
नीमच	नीमच	समली चौधरी	167, 166, 165, 164, 160, 154, 155, 153, 151, 73, 61, 60, 62, 71, 69, 48, 75, 47, 76, 77, 78, 79, 80, 44, 43, 152, 156, 171, 172, 173, 15	167, 166, 165, 164, 160, 154, 155, 153, 845, 73, 61, 60, 62, 71, 69, 48, 75, 47, 76, 77, 78, 79, 80, 44, 43, 68, 70, 59, 81, 150, 141, 142, 156, 171, 172, 173, 163, 15
नीमच	नीमच	बरखेड़ा हांडा	314, 313, 312, 318, 342, 339, 340, 357, 358, 386, 385, 388, 390, 403, 206, 201, 199, 196, 197, 183, 186, 315, 316, 317, 341, 351, 356, 359, 379, 404, 387, 390/434, 200, 193, 185, 194, 184, 195	314, 313, 311, 312, 318, 320, 321, 845, 342, 339, 338, 340, 336, 357, 358, 386, 385, 384, 388, 390, 403, 220, 219, 208, 207, 206, 201, 199, 196, 197, 182, 186, 315, 316, 317, 343, 341, 351, 355, 356, 359, 360, 379, 404, 387, 390/434, 391, 200, 193, 192, 191, 185
नीमच	नीमच	चौथखेड़ा	397, 398, 396, 424, 425, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 477, 480, 479, 537, 572, 571, 570, 568, 538, 576, 634, 633, 635, 631, 630, 625, 651, 653, 654, 518, 400, 399, 418, 441, 440, 436, 437, 438, 435, 471, 473, 474, 478, 636, 639, 640, 649, 650, 652, 403, 442, 419, 427	397, 398, 396, 424, 425, 445, 446, 447, 845, 449, 450, 477, 480, 479, 537, 535, 572, 571, 570, 568, 538, 576, 634, 633, 635, 631, 630, 625, 624, 651, 653, 654, 518, 400, 399, 418, 417, 421, 441, 440, 436, 437, 438, 434, 435, 471, 473, 474, 478, 637, 636, 639, 640, 648, 649, 650, 652, 403, 442, 419, 427, 569, 567
नीमच	नीमच	रावतखेड़ा	221, 221/468, 224, 319, 323, 325, 327, 328, 341, 342, 343, 463, 455, 456, 458, 459, 324, 460, 462, 461	221, 224, 319, 323, 325, 327, 328, 341, 342, 343, 463, 455, 456, 458, 459, 324, 326, 460, 462, 461
नीमच	नीमच	दुलाखेड़ा	1, 2, 8, 7, 6, 15, 17, 19, 9, 11, 13, 14, 22, 18, 21, 39, 40, 44, 225/1, 225/2, 310	1, 2, 8, 7, 3, 6, 15, 16, 17, 19, 9, 10, 11, 13, 22, 21, 39, 40, 44, 89, 225/2, 310
नीमच	नीमच	जेतपुरा	3, 6, 7, 8, 24, 19, 20, 18, 16, 17, 26, 41, 34, 33, 35, 46, 47, 48, 49, 51, 10, 5, 38, 38/55, 37, 45, 52, 53, 31	3, 6, 7, 8, 24, 20, 18, 16, 17, 26, 41, 33, 35, 46, 48, 49, 51, 10, 5, 23, 21, 25, 22, 38, 36, 32, 45, 30, 52, 53, 31

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
नीमच	नीमच	मालखेडा	1043, 1042, 1041, 1051, 1050, 1057, 1078, 1077, 1076, 1082, 1083, 1084, 1031, 1126, 1119, 1120, 1121, 1114, 1115, 1109, 1108, 905, 990, 888, 887, 855, 853, 854, 842, 843, 851, 849, 848, 847, 1316, 1317, 1320, 1319, 1339, 1375, 1378, 1379, 1383, 1382, 1397, 1398, 1400, 1402, 96, 97, 1040, 1053, 1052, 1054, 1059, 1074, 1075, 1085, 1097, 1125, 1122, 1123, 11121110 1107 908 909 841 855 1359 844 1318 1362 1373 1374 1376 1377 1381 1519 1520 1522 1523 1399 1401 1403 1521 1524 1525	1043, 1042, 1041, 1051, 1050, 1057, 1078, 1080, 845, 1076, 1082, 1083, 1084, 1031, 1126, 1119, 1120, 1118, 1121, 1114, 1117, 1115, 1109, 1108, 905, 990, 889, 888, 887, 855, 853, 854, 842, 843, 851, 849, 848, 847, 850, 1316, 1317, 1320, 1319, 1339, 1375, 1378, 1379, 1383, 1382, 1397, 1398, 1400, 1402, 96, 97, 98, 1038, 1039, 1040, 1053, 1052, 1054, 10561059 1074 1075 1085 1097 1125 1122 1123 1113 1112 1110 1111 1107 907 908 909 841 840 855 1359 844 846 1318 1362 1373 1374 1376 1377 1381 1519 1520 1522 1523 1401 1403 1521 1524 1525
नीमच	नीमच	बरुखेडा	265, 281, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 296, 314, 312, 313, 303, 311, 347, 350, 351, 352, 336, 356, 370, 371, 393, 408, 407, 403, 400, 398, 632, 284, 302, 309, 372, 637, 636, 634, 631, 640, 641, 642, 643, 644, 655, 1217, 1219, 1220, 1235, 1226, 266, 267, 279, 278, 277, 289, 295, 315, 645, 1237, 310, 307, 304, 308309 345 346 353 354 355 358 366 405 406 409 404 621 624 633 635 646 626 630 629 647 654 653 575 572 1221 1232 1224 1225	265, 281, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 845, 297, 314, 312, 313, 303, 347, 350, 351, 352, 336, 356, 370, 371, 393, 408, 400, 399, 398, 632, 697, 284, 302, 299, 372, 637, 636, 634, 639, 631, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 655, 1217, 1218, 1219, 1220, 1235, 1226, 266, 267, 278, 277, 289, 290, 295, 315, 1237, 317, 318, 319310 307 306 304 308 345 346 362 353 354 355 359 358 366 405 406 409 410 411 417 404 621 620 619 624 633 635 646 626 630 629 647 654 653 575 572 1221 1232 1224 1225

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
नीमच	नीमच	भरभडीया	1983, 1984, 1985, 2302, 2303, 2304, 2297, 2295, 2292, 2716, 2717, 2718, 2733, 2731/2, 2860, 2859, 2858, 2857, 2862, 2878, 2879, 2880, 2846, 2882, 2300, 2299, 2298, 2284, 2294, 2293, 2285, 2286, 2290, 2288, 2287, 2719, 2720, 2732, 2731/1, 2729, 2728, 2727, 2726, 2861, 2873, 2876, 2877, 2909/1, 2434, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2428/4, 2881, 2886, 2887, 2451, 2452, 2453, 2440, 2441, 2439, 24352430 2437 2426 2425 2423 2421 2417 2416 1092 1093 1094 2883 2447 2878/1 1095 1098 1099 1104 1112 1113/1 1113/2 1116 1118 1139 1160 1159 1158 1170 1171 1172 1174 2316 1976 1119 1120 987 988 989 990 991 992 993 1002/1 1002/2 2428 1003 1004/2 1005 1085 1089 1087 1091 1097 1106 1105 1111 1110 1126 1123 1096 1090 1124 1121 1122 1143 1142 1149 1146 1150 1151 1157 1156 1155 1154 1177 1977 1978 1983 1984 2855 2299 1985 1140 1144 1145	1983, 1984, 1985, 2303, 2305, 2297, 845, 2295, 2716, 2717, 2718, 2733, 2731/2, 2766, 2714, 2715, 2860, 2859, 2856, 2857, 2862, 2878, 2879, 2880, 2846, 2882, 2301, 2734, 2300, 2279, 2299, 2280, 2298, 2284, 2294, 2285, 2286, 2288, 2287, 2719, 2720, 2732, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2861, 2872, 2873, 2874, 2876, 2877, 2909/1, 2909/2, 2908/1, 2881, 2886, 2887, 2451, 2454, 24412442 2439 2435 2430 2437 2426 2425 2423 2421 2420 2418 2417 2415 2416 1092 2410 2883 2885 2447 2409 2407 2406 1099 1100 1104 1103 1102 1116 1118 1162 1160 1161 1159 1169 1158 1170 1171 1172 1174 1175 2316 1976 1979 1022 986 987 988 989 990 991 992 993 1002/1 1002/2 1003 1004/2 1004/1 1005 1086 1089 1087 1088 1091 1106 1107 1105 1111 1108 1110 1126 1123 2448 2449 2450 1006 1124 1125 1137 1121 1122 1138 1142 1149 1150 1151 1152 1157 1156 1155 1154 1177 1977
नीमच	नीमच	डूंगलावदा	7, 42, 43, 39, 126, 139, 133, 5, 11, 19, 17, 36, 41, 40, 143, 142, 15, 140, 132, 2, 15, 16, 37, 38, 141, 136	6, 7, 48, 42, 43, 39, 126, 139, 133, 845, 11, 19, 17, 36, 41, 40, 143, 142, 15, 140, 132, 131, 13, 14, 49, 37, 38, 141, 136
नीमच	नीमच	चन्नीरा	111, 110, 109, 151, 150, 149, 148, 159, 147, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 142, 116/1, 143, 144, 145, 140, 160, 163, 146, 135, 120,	111, 110, 109, 151, 150, 149, 148, 159, 845, 142, 116/1, 116/2, 143, 144, 145, 140, 139, 160, 163, 117, 135, 120

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
नीमच	नीमच	सगराना	651, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 736, 737, 738, 762, 763, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 674/1093, 764, 79, 80, 81, 92, 91, 90, 82, 102, 103, 335, 771, 772, 770, 768, 816, 817, 818, 833, 832, 834, 835, 836, 837, 97, 98, 778, 767, 765, 838, 839, 840, 841842 843 844 845 1036 1037 1041 1042 1043 1044 1050 1077 1078 1079 1080 1081 1083 1082 1088/1 1088/2 1088/3 1089 1090 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 29 30 77 355 356 358 359 360 377 380 381 382 384 642 643 647 648 649 650 11 76 382 354	651, 652, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 845, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 735, 736, 737, 738, 762, 763, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 657, 79, 80, 81, 92, 86, 91, 89, 90, 82, 96, 102, 101, 103, 335, 771, 772, 774, 770, 768, 816, 817, 818, 833, 832, 831, 834, 835, 836, 83797 98 778 767 765 838 839 840 841 842 844 845 1035 1036 1037 1041 1042 1043 1044 1045 1050 1055 1077 1078 1079 1080 1081 1083 1084 1082 1088/1 1088/2 1088/3 1089 1090 849 1040 1085 3 5 6 7 8 9 10 27 28 29 30 77 355 357 356 358 359 360 377 379 380 381 382 383 384 641 642 643 647 650 11 76 382 354
नीमच	नीमच	धसुन्डी	633, 635, 634, 645, 639, 641, 644, 646, 636, 637, 653, 638	633, 635, 634, 645, 640, 639, 641, 644, 845, 636, 637, 653, 627
नीमच	जावद	कानका	302, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 268, 270, 271, 272, 300, 273, 395, 341, 340, 321, 320, 319, 364, 303, 309, 269, 342, 331, 330, 301, 318	302, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 267, 268, 270, 271, 272, 300, 273, 395, 338, 340, 339, 321, 322, 320, 319, 364, 303, 309, 299, 342, 333, 331, 330]327, 301, 318, 337
नीमच	जावद	केशरपुरा	1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1151, 1152, 1153, 1154, 1255, 1155, 1251, 1254, 1148, 1149, 1145, 1141, 1142, 1147, 1139, 1138, 1137, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1076/2, 1256, 1140, 1090, 1094, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 876, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 940, 941, 942, 943, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 967, 968, 969970 976 939 977/1 977/2 977/3 977/4 1064 1065 1067 1066	1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1151, 1152, 1154, 1255, 1155, 1251, 1252, 1253, 1254, 1148, 1149, 1145, 1141, 1142, 1147, 1139, 1136, 1138, 1137, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1256, 1140, 1090, 1094, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 876, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 940, 941, 942, 943, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 957967 968 969 970 971 972 976 939 977/1 977/2 977/3 1064 1062 1060 1059 1065 1067 978 1066

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
नीमच	जावद	नयागाँव	1669, 1670, 1674, 1668, 1673, 1675, 1676, 1687, 1686, 1694, 1692, 1689, 1688, 1690, 1691, 1699, 1701, 1704, 1702, 1708, 1707, 1705, 1703, 1750, 1749, 1748, 1756, 1742, 1860, 1866, 1870, 1871, 1872, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1655, 1665, 1666, 1667, 1664, 1663, 1661, 1662, 1642, 1640, 1637, 1696, 1604, 1601, 1602, 1603, 1600, 1593, 1592, 1566, 1564, 1565, 1547, 1546, 1545, 1541 1539 1540 1538 1537 1512 1513 1510 1509 1508 70 71 72 63 64 62 56 276 277 252 265 274 275 273 272 271 262 260 261 259 258 1890 1887 1864 1506 1507 292 291 289 286 285 283 284 279 281 280 46 47 48 58 50 73 76 79 80 82 86 88 89 90 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1669, 1670, 1674, 1668, 1673, 1675, 1676, 1687, 1686, 1694, 1692, 1689, 1690, 1691, 1699, 1701, 1704, 1702, 1708, 1707, 1705, 1750, 1749, 1748, 1756, 1754, 1753, 1742, 1860, 1866, 1870, 1871, 1872, 1883, 1885, 1884, 1886, 1887, 1889, 1655, 1665, 1667, 1664, 1663, 1661, 1662, 1643, 1644, 1642, 1640, 1636, 1637, 1635, 1696, 1604, 1602, 1603, 1600, 1593, 1592, 1566, 1564, 1565, 1547, 1546, 1545, 1541, 1542, 1539, 1538, 1537, 1512 1513 1510 1509 1508 70 71 72 63 64 62 56 276 277 252 265 273 272 271 269 262 260 261 259 257 258 1890 1887 1864 1506 1507 292 291 289 288 286 285 284 279 282 281 46 45 47 48 58 50 73 75 76 79 80 81 82 86 87 88 89 90 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III)

‘खण्ड-अ’

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	इन्दौर-उज्जैन फोरलेन, एस. एच.-27	48.900	इन्दौर-उज्जैन

‘‘खण्ड-ब’’

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावेर	भंवरासला	1/1 ख, 12/2, 13, 14/1/1, 14/2, 15/2, 15/1/2, 15/1/3, 16, 17, 21, 148, 147, 141, 140, 135, 125/1/1, 124, 149, 150/2, 181/1/1 ग, 181/1/1 ख, 181/1/1 क, 181/1/2, 180/1/1, 150/3, 150/1 क, 150/1 ख, 179, 177/1, 154/1, 151, 156, 125/1/2, 159/2/1, 159/1/2, 159/1/2/3, 159/1, 191, 213/1, 157/1, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 1/1, 1/2/3, 1/2/2, 1/2/1, 170, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 112/2/6, 112/1/2/1, 112/1/2/2, 104, 201/2, 201/2/1, 201/3, 149, 200/1/2/4, 196/2, 196/3/2 क, 196/1/3, 196/1/1, 196/1/2, 196/3/1 ख, 195, 201/1, 202/2 क, 200/4, 200/2 ख, 200/1/2/5, 200/1/2/3, 200/1/2/4, 196/3/1 क, 196/3/1 ख, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 112/1/1, 112/1/2, 112/1/3, 112/2, 110, 110/2 ख	1/1 ख, 12/2, 13, 14/1/1, 14/2, 15/2, 15/1/2, 15/1/3, 16, 17, 19, 20, 21, 148, 147, 141, 140, 136/1, 135, 134, 125/1/1, 124, 149, 150/2, 181/1/1 ग, 181/1/1 ख, 181/1/1 क, 181/1/2, 180/1/1, 179, 177/1, 154/1, 151, 156, 125/1/2, 159/2/1, 159/1/2, 159/1/2/3, 159/1, 157/2, 191, 213/1, 157/1, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 1/1, 1/2/3, 1/2/2, 1/2/1, 170, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 112/2/6, 112/1/2/1, 112/1/2/2, 104, 201/2, 201/2/1, 201/3, 200/1/2/4, 196/2, 196/3/2 क, 196/1/3, 196/1/1, 196/1/2, 196/3/1 ख, 195, 201/1, 202/2 क, 200/4, 200/2 ख, 200/1/2/5, 200/1/2/3, 200/1/2/4, 196/3/1 क, 196/3/1 ख, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 112/1/1, 112/1/2, 112/1/3, 112/2, 110, 110/2 ख
इन्दौर	सावेर	जाख्या	4/1/1, 4/2/1, 4/1/2, 5/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3, 6/2/1 ख, 6/1/1 क/1/1, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/1 ग, 6/1/1 ख, 28/2/1, 28/2/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1/1, 38/1/2, 42/1, 43/1/1, 44/1/1, 44/1/3, 44/2, 45/1/1, 45/2/1, 45/1/2, 46, 4/1/3, 4/1/4, 6/1/1 घ, 42/2, 43/1/2, 42/3, 43/1/3, 44/3, 24, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/5 मि.1, 2/2/1, 2/2 मि.1, 2/2 मि.2, 2/2 मि.3, 2/2 मि.4, 2/2 मि.5, 2/2 मि.6, 2/2 मि.7, 2/2 मि.8, 2/2 मि.9, 2/2 मि.10, 2/2 मि.11	4/1/1, 4/2/1, 4/1/2, 5/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 6/2/1 ख, 6/1/1 क/1/1, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/1 ग, 6/1/1 ख, 28/2/1, 28/2/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1/1, 38/1/2, 42/1, 43/1/1, 44/1/1, 44/1/3, 44/2, 45/1/1, 45/2/1, 45/1/2, 46, 4/1/3, 4/1/4, 6/1/1 घ, 42/2, 43/1/2, 42/3, 43/1/3, 44/3, 24, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/5 मि.1, 2/2/1, 2/2 मि.1, 2/2 मि.2, 2/2 मि.3, 2/2 मि.4, 2/2 मि.5, 2/2 मि.6, 2/2 मि.7, 2/2 मि.8, 2/2 मि.9, 2/2 मि.10, 2/2 मि.11

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावेर	बासोली	23/1, 23/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 13, 17/2, 13, 14/1, 14/2, 80/2, 79, 155, 130/3/1, 129, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 176/1/1 क, 176/1/1 ख, 174, 175/1, 173, 172/1/1, 172/1/2, 172/1/3, 172/2/1/1, 172/2/1/2/1, 172/2/1/2/2, 172/2/1/3, 172/2/1/4, 172/2 मि. 1, 169, 168, 167, 165, 130/3/2, 130/4/1, 130/4/2/1, 130/4/2/2, 130/5/1, 130/5/2, 164, 163, 160/1/1, 160/1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 160/1/1, 76, 25/5/2, 25/5/1, 25/2/2, 25/2/1, 25/1/1, 25/1/2, 24/1, 24/2, 176/1/225/2 25/3 25/5 25/6/1 77 18/1 18/2 18/3 10/1/1 10/1/2 10/2/1 क 10/2/2 10/2/2 ख 10/2/3 75/1/1 75/1/2 75/2 155	23/1, 23/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 13, 22, 17/2, 16, 15/1, 15/2/1, 15/2/2/2, 13, 14/1, 14/2, 11/1, 80/1, 82, 149, 146/1, 130/3/1, 129, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 176/1/1 क, 176/1/1 ख, 174, 175/1, 173, 172/1/1, 172/1/2, 172/1/3, 172/2/1/1, 172/2/1/2/1, 172/2/1/2/2, 172/2/1/3, 172/2/1/4, 172/2 मि. 1, 171, 169, 166, 167, 165, 130/3/2, 130/4/1, 130/4/2/1, 130/4/2/2, 130/5/1, 130/5/2, 164, 163, 160/1/1, 160/1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 160/1/1, 76, 25/5/2, 25/5/1, 25/2/2, 25/2/1, 25/1/1, 25/1/2, 24/1, 24/2, 176/1/225/2 25/3 25/5 25/6/1 77 18/1 18/2 18/3 10/1/1 10/1/2 10/2/1 क 10/2/2 10/2/2 ख 10/2/3 75/1/1 75/1/2 75/2 155
इन्दौर	सावेर	पंचडेरिया	5/287, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/5/1, 5/5/2, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 7/2, 7/6, 46/1/1/2/ख, 46/1/5, 46/1/2/1 क, 46/1/1 ख, 46/2/1/2/1 ख, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/4, 53/5, 57, 52/1, 52/2, 51/2, 51/1, 51/3, 51/275/1, 50/1/3/1, 50/1/3/4, 50/1/3/3, 50/1/3/2, 50/1/2, 46/1/2/3 क, 46/1/2/3 ख, 46/1/3/2, 5/6/6	5/287, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/5/1, 5/5/2, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 7/2, 7/5, 7/4, 7/6, 46/1/1/2/ख, 46/1/5, 46/1/2/1 क, 46/1/1 ख, 46/2/1/2/1 ख, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/4, 53/5, 57, 51/2, 51/1, 51/3, 51/275/1, 50/1/3/1, 50/1/3/4, 50/1/3/3, 50/1/3/2, 50/1/2, 46/1/2/3 क, 46/1/2/3 ख, 46/1/3/2, 5/6/6
इन्दौर	सावेर	रिंगनोदिया	181, 182/1, 182/2, 182/2/1, 182/2/2, 182/3, 185/1, 185/2/1, 185/2/2, 185/3, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189/1, 169/1, 169/2/1, 169/2/2, 170/1/1, 170/1/2, 173, 171/1, 171/2/1, 171/2/2, 172/3, 172/3 मि. 1, 172/3 मि. 2, 179, 181, 190, 189, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2	181, 182/1, 182/2, 182/2/1, 182/2/2, 182/3, 185/1, 185/2/1, 185/2/2, 185/3, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189/1, 169/1, 169/2/1, 169/2/2, 170/1/1, 170/1/2, 173, 171/1, 171/2/1, 171/2/2, 172/3, 172/3 मि. 1, 172/3 मि. 2, 179, 190, 189, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2
इन्दौर	इन्दौर	बड़ादियाऐमा	98, 104/2, 104/1, 104/3, 104/1/2, 105/3, 105/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/3/1, 112/4, 112/5, 112/7, 113, 117/3, 117/4, 117/2, 117/6, 117/5, 117/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 114/1/15, 114/1/14, 114/1/13, 114/1/12, 114/1/1, 114/1/10, 114/1, 114/1/9, 114/1/8, 114/1/7, 114/1/6, 114/1/5, 114/3/10, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15, 116/1	98, 104/2, 104/1, 104/3, 104/1/2, 105/3, 105/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/3/1, 112/4, 112/5, 112/7, 117/3, 117/4, 117/2, 117/6, 117/5, 117/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 114/1/15, 114/1/14, 114/1/13, 114/1/12, 114/1/1, 114/1/10, 114/1, 114/1/9, 114/1/8, 114/1/7, 114/1/6, 114/1/5, 114/3/10, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावेर	जेतपुरा सोलसिन्दा	347/1, 347/2, 323/1, 323/9, 323/5, 323/3, 323/4, 322/2, 322/1, 321, 320, 319, 318, 318/439/1, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1, 318, 439/2, 429/2/2, 429/2/1, 429/2/3, 429/1, 84/2, 84/4, 84/5, 107/198/2/2, 109/5/1/1, 109/198/2/1, 111/6, 7, 8, 32/1, 10/1, 83, 84/1, 84/3, 107/198/1, 424, 425, 426, 427, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 109/1, 109/2, 107/1/2, 107/2, 109/4, 109/7, 107/197/1, 109/5/2, 5/1/2, 81/1, 81/2, 89/6, 87, 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 89/2/1, 89/2/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 104/1, 104/2, 108, 109/5/1, 428, 323, 324, 325, 326, 88, 90/1, 90/2, 92/1/1, 92/1/2, 92/1/3, 92/2, 111/12, 111/8, 423/1, 424/1, 425/1, 423/2, 423/3, 423/4, 106, 105/1, 105/2	347/1, 347/2, 323/1, 323/9, 323/5, 323/3, 323/4, 322/2, 322/1, 321, 320, 319, 318, 318/439/1, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1, 318, 439/2, 429/2/2, 429/2/1, 429/2/3, 429/1, 84/2, 84/4, 84/5, 107/198/2/2, 109/5/1/1, 109/198/2/1, 111/6, 7, 8, 32/1, 10/1, 83, 84/1, 84/3, 107/198/1, 424, 425, 109/1, 109/2, 107/1/2, 107/2, 109/4, 109/7, 107/197/1, 109/5/2, 5/1/2, 81/1, 81/2, 87, 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 89/2/1, 89/2/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 104/1, 104/2, 108, 109/5/1, 91, 323, 324, 325, 326, 88, 90/1, 90/2, 92/1/1, 92/1/2, 92/1/3, 92/2, 103, 111/12, 111/8, 423/1, 424/1, 425/1, 423/2, 423/3, 423/4, 106, 105/1, 105/2
इन्दौर	सावेर	राजोदा	133/1/2, 127/2, 127/1, 126, 120, 107, 106, 105/1, 105/2, 104, 103/1, 103/2, 103/3, 101/1/1/1, 101/1/1/2, 101/2, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1	282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 286/1, 285, 284, 353, 352, 354, 355, 356/1, 356/2, 356/3, 356/6, 373/394, 370, 372/1, 368, 358/1, 358/2, 360/2, 362/1, 356/365, 325, 323, 324, 322, 311/5, 311/4, 311/3, 311/2, 311/1, 310, 309/1, 309/2, 379/3, 361, 367, 371/1, 371/2, 373/394/1, 373/394/2, 379/1, 377/1, 377/2, 374, 373/2/3, 373/3, 373/4, 373/394/3, 376, 375, 351
इन्दौर	सावेर	सिलोदा	133/1/2, 129, 127/2, 127/1, 126, 119, 120, 107, 106, 108, 109, 105/1, 105/2, 104, 111, 103/1, 103/2, 103/3, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1	133/1/2, 127/2, 127/1, 126, 120, 107, 106, 105/1, 105/2, 104, 103/1, 103/2, 103/3, 101/1/1/1, 101/1/1/2, 101/2, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1
इन्दौर	सावेर	तराना	115/1, 115/2, 116/4, 116/1/1, 116/1/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 123/3, 123/4, 123/4/2, 123/5/1, 123/5/2, 123/6/1, 123/6/2, 122, 125/6, 125/9, 125/10/1, 125/10/2, 125/11/1, 125/11/2, 125/7/1, 125/7/2, 125/2/1, 125/2/2, 125/1, 126/1, 126/2/1, 126/2/2, 130, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 185/1, 185/2, 1/1/1, 1/1/2, 1/2/1, 1/2/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 181, 124, 180/1/1, 180/1/2/1, 180/1/2/2, 180/1/3, 180/1/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 179/1, 179/2, 178,	115/1, 115/2, 116/4, 116/1/1, 116/1/2, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2, 123/3, 123/4, 123/4/2, 123/5/1, 123/5/2, 123/6/1, 123/6/2, 122, 125/6, 125/9, 125/10/1, 125/10/2, 125/11/1, 125/11/2, 125/7/1, 125/7/2, 125/2/1, 125/2/2, 125/1, 126/1, 126/2/1, 126/2/2, 126/2/2, 130, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 185/1, 185/2, 1/1/1, 1/1/2, 1/2/1, 1/2/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 181, 180/1/1, 180/1/2/1, 180/1/2/2, 180/1/3, 180/1/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 178, 176/1,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनो ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनो ओर)
1	2	3	4	5
			176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/3, 174/1, 174/1/1, 174/1/2, 174/2, 174/3/1, 174/3/2, 174/4, 174/5/1, 174/5/2, 172, 173, 257/1/1/1, 256/1/2/1, 257/1/1/2, 256/1/2/2, 257/1/2, 257/2/1, 257/2/2, 257/2/3, 257/3/1, 257/3/2, 257/4/1, 257/4/2, 257/5/2, 257/6/1, 257/6/2, 257/6/3, 257/5/1, 256/1/1, 256/1/2, 256/2/1, 256/2/2/1, 256/2/2/2, 256/2/2/3, 256/3/1, 256/3/2/1, 256/3/2/2, 255/1/1, 255/1/2, 255/2/1, 255/2/2, 255/3/1, 255/3/2, 255/4/1, 255/4/2, 255/5/1, 255/5/3, 255/5/4, 255/5/5/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 252/1/1, 252/1/2, 252/2/1/1, 252/2/1/2, 252/2/2, 252/3/1, 252/3/2, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 226, 227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3, 204/2/1, 204/2/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/3/1, 206/3/2, 206/3/3, 207, 253	176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/3, 174/1, 174/1/1, 174/1/2, 174/2, 174/3/1, 174/3/2, 174/4, 174/5/1, 174/5/2, 172, , 257/1/1/1, 256/1/2/1, 257/1/1/2, 256/1/2/2, 257/1/2, 257/2/1, 257/2/2, 257/2/3, 257/3/1, 257/3/2, 257/4/1, 257/4/2, 257/5/2, 257/6/1, 257/6/2, 257/6/3, 257/5/1, 256/1/1, 256/1/2, 256/2/1, 256/2/2/1, 256/2/2/2, 256/2/2/3, 256/3/1, 256/3/2/1, 256/3/2/2, 255/1/1, 255/1/2, 255/2/1, 255/2/2, 255/3/1, 255/3/2, 255/4/1, 255/4/2, 255/5/1, 255/5/3, 255/5/4, 255/5/5/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 252/1/1, 252/1/2, 252/2/1/1, 252/2/1/2, 252/2/2, 252/3/1, 252/3/2, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3, 204/2/1, 204/2/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/3/1, 206/3/2, 206/3/3, 207, 253
इन्दौर	सावेर	कजलाना	1, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3/2, 121/3/1, 121/4, 121/5, 121/6, 122, 120, 121/7, 121/8, 152, 142, 126, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 151, 152/1, 152/2, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 174, 175	1, 2, 3/1, 3/1/1, 4/1/1, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 121/1, 121/2, 121/3/2, 121/3/1, 121/4, 121/5, 120, 121/7, 121/8, 152, 208/6, 142, 141, 126, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 156, 159, 160, 164, 161, 162, 163, 172, 174, 175
इन्दौर	सावेर	लखमनखेड़ी	172, 177, 176/1, 184, 173/220, 175, 173, 174, 173/2/9, 176/2	172, 177, 176/1, 184, 173/220, 174, 173/2/9, 176/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावेर	कस्बा सावेर	806, 807, 805/1, 799/2, 800/2, 875, 801, 803, 801/1, 80/2, 811, 816/1, 816/2, 817, 818/1, 818/2, 828/2/1, 828/1/2/2, 828/2, 828/3, 833/1, 833/2, 833/3, 852/2, 891, 891/6, 718/6/2, 717, 714/1, 715/1, 715/2, 716/1, 714/1, 715/2, 716/2, 715/1, 714/1/1, 714/2/1, 695/1, 695/3, 696/2, 696/3, 694/2, 872, 873, 874/1, 695/2, 874/2, 876/1, 873, 876 पै.कि 876/1 पै.कि, 876/1 पै.कि, 696/1/2, 876/1/3, 876/2, 876/4, 876/5, 876/6, 876/7, 876/8, 876/9, 876/10, 877, 812, 797/1/2, 797/2/1, 797/2/2/1, 797/2/2, 797/2/3/1, 797/2/3/2, 837/1/1, 837/1/2, 837/3/1, 834/1/1, 834/1/2, 834/2, 834/890, 834/890/1, 869/1/1, 869/1/2, 869/2/1, 869/2/2, 870/1, 870/2/1, 870/2/2, 868/1, 713/1, 713/2, 852/1/1, 852/1/2, 851/891/2/1, 851/891/2/2, 851/891/4, 851/891/5, 851/891/6, 819	806, 807, 805/1, 799/2, 800/2, 875, 801, 803, 801/1, 80/2, 811, 816/1, 816/2, 817, 818/1, 818/2, 828/2/1, 828/1/2/2, 828/2, 828/3, 833/1, 833/2, 833/3, 852/2, 891, 891/6, 718/6/2, 717, 714/1, 715/1, 715/2, 716/1, 714/1, 715/2, 716/2, 715/1, 714/1/1, 714/2/1, 695/1, 695/3, 696/2, 696/3, 694/2, 872, 873 695/2, 812, 804/1, 804/2, 798, 786, 794, 795, 797/1/2, 797/2/1, 797/2/2/1, 797/2/2, 797/2/3/1, 797/2/3/2, 855, 856, 837/1/1, 837/1/2, 837/3/1, 834/1/1, 834/1/2, 834/2, 834/890, 834/890/1, 697, 869/1/1, 869/1/2, 869/2/1, 869/2/2, 870/1, 870/2/1, 870/2/2, 868/1, 713/1, 713/2, 852/1/1, 852/1/2, 851/891/2/1, 851/891/2/2, 851/891/4, 851/891/5, 851/891/6, 819
इन्दौर	सावेर	सावेर	70/2, 82, 83/1, 84/2, 81/1, 81/2, 81/2/2, 84/1/1/1, 84/1/1/2, 84/1/3/1, 84/1/3/2, 86/1, 90/1, 90/2, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 95/1/1, 95/1/3, 95/1/1/1, 95/1/1 मि.1, 95/1/1 मि.2, 95/1/2, 95/1/4, 95/2/1, 95/2/2, 93/1, 84/1, 93/2, 94/2, 93/3, 94/3, 93/4, 94/4, 93/5, 94/5, 93/6, 94/6, 94/4 मि.1, 94/5 मि.2, 110/1/1/1, 110/1/1/2, 110/1/2/1, 110/1/2/2, 109/2/3/1, 109/2/3/2, 109/2/4/1, 109/2/4/2, 127, 240, 206/1, 206/2, 205/1, 207/1, 208/1, 205/2, 207/2, 208/2, 209/1/2/1, 209/1/2/2, 225, 224/1, 224/2, 222/1, 222/2, 220/1/1, 220/1/2, 219/1, 228, 215/1, 215/2, 216/3/1, 216/3/2, 216/3 मि.1, 216/3 मि.2, 216/3 मि.3, 216/3 मि.4, 216/3 मि.5, 217/1, 218, 217/2, 374, 358/1/2, 373/1, 373/2, 359/1/1, 359/1/2, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3,	70/2, 82, 83/1, 84/2, 84/1/1/1, 84/1/1/2, 84/1/3/1, 84/1/3/2, 86/1, 91/3/1, 91/3/2, 91/3 मि.1, 91/3 मि.2, 91/3 मि.3, 85/1/1/1, 85/1/1/2, 85/1/2, 85/2, 85/3, 85/4, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 95/1/1, 95/1/3, 95/1/1/1, 95/1/1 मि.1, 95/1/1 मि.2, 95/1/2, 95/1/4, 95/2/1, 95/2/2, 93/1, 84/1, 93/2, 94/2, 93/3, 94/3, 93/4, 94/4, 93/5, 94/5, 93/6, 94/6, 94/4 मि.1, 94/5 मि.2, 107, 110/1/1/1, 110/1/1/2, 110/1/2/1, 110/1/2/2, 109/2/3/1, 109/2/3/2, 109/2/4/1, 109/2/4/2, 127, 240, 206/1, 206/2, 204, 205/1, 207/1, 208/1, 205/2, 207/2, 208/2, 209/1/2/1, 209/1/2/2, 225, 224/1, 224/2, 223, 221/2, 222/1, 222/2, 220/1/1, 220/1/2, 219/1, 228, 215/1, 215/2, 216/3/1,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			359/2/4, 359/3/1, 359/3/2, 357/1, 357/2, 360/1/1, 360/1/2, 360/2/1/1, 360/2/1/2, 360/2/1/3, 360/2/1/4, 360/2/2, 360/2/3, 360/3/1, 360/3/2, 363/1, 363/2, 343/1, 343/3/1, 343/3/2, 343/3/3, 364/1/1, 364/1/2/1, 364/4/2/1, 364/1/2/2, 364/4/2/2, 364/1/2/2 fe-1, 364/1/2/2 fe-2, 364/1/2/2 fe-3, 364/4/2/2/9903, 364/1/2/3, 364/1/3, 364/1/4, 364/4/1, 364/1/5, 364/4/5, 340/3/1, 340/3/2, 342/1, 342/2/1, 342/2/2, 342/3, 341/1/1, 341/1/2, 341/1/3, 341/2, 340/426, 70/2	216/3/2, 216/3 fe-1, 216/3 fe-2, 216/3 fe-3, 216/3 fe-4, 216/3 fe-5, 217/1, 218, 217/2, 216/2, 374, 358/1/2, 358/2, 373/1, 373/2, 359/1/1, 359/1/2, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/2/4, 359/3/1, 359/3/2, 357/1, 356/3/3, 360/1/1, 360/1/2, 360/2/1/1, 360/2/1/2, 360/2/1/3, 360/2/1/4, 360/2/2, 360/2/3, 360/3/1, 360/3/2, 361/1, 361/2, 356/3/3, 362, 363/1, 363/2, 343/1, 343/2, 343/2/2, 343/3/1, 343/3/2, 343/3/3, 364/1/1, 364/1/2/1, 364/4/2/1, 364/1/2/2, 364/4/2/2, 364/1/2/2 fe-1, 364/1/2/2 fe-2, 364/1/2/2 fe-3, 364/4/2/2/9903, 364/1/2/3, 364/1/3, 364/1/4, 364/4/1, 364/1/5, 364/4/5, 364/2, 364/3, 365/1/1, 365/1/2/1, 365/1/2/2, 365/1/2/3, 365/2, 365/3, 340/3/1, 340/3/2, 342/1, 342/2/1, 342/2/2, 342/3, 341/1/1, 341/1/2, 341/1/3, 341/2, 340/426, 70/2, 349/1/1, 349/1/2, 349/1/3, 349/2
इन्दौर	सांवेर	कायस्थखेड़ी	110/6, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 131/1, 131/3, 131/2, 133/1, 133/2, 142/1, 142/2, 142/3, 146/2, 146/1, 146/3/1, 146/3/2, 146/5, 179/8, 155, 157/3/1/1, 157/3/1/2, 157/2/4, 157/2/3, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/2/3, 165/1, 165/2, 154, 166, 167, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 168/3, 168/3, 132, 141, 135, 146/4, 152, 173/1/1, 173/1/2, 172/1	110/6, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 131/1, 131/3, 131/2, 133/1, 133/2, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 144, 146/2, 146/1, 146/3/1, 146/3/2, 146/5, 179/8, 155, 157/3/1/1, 157/3/1/2, 157/2/4, 157/2/3, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/2/3, 165/1, 165/2, 154, 166, 167, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 168/3, 168/3, 132, 141, 135, 146/4, 152, 173/1/1, 173/1/2, 172/1
इन्दौर	सांवेर	बड़ोदियाखान	1/1, 329/3, 329/2/2, 329/2/1, 329/1, 332/2, 330, 343, 344/1/1, 344/1/2, 344/3/1, 344/3/2, 346, 366/1, 367/2, 367/3, 370, 371/3, 413/1, 413/2, 413/8, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 421/1, 420/2, 424/2, 425/1/1, 425/1/2, 444/1/1/1 क, 444/1/1/1 ख, 444/1/1/1 ग, 444/1/1/2, 444/1/2, 444/2, 465/1/1, 465/1/2, 465/2, 465/4, 466/1/1, 466/1/2, 466/2, 470/1, 480, 483/1, 483/2, 502, 501, 524/1/1, 524/1/2, 524/2/1, 524/2/2, 524/2/3, 524/3, 504/1, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 506/2, 506/1, 507/1/1, 507/1/2, 507/1/3, 507/2, 520/2, 520/1, 522/3, 522/2, 522/1 392/1/9, 394	1/1, 329/3, 329/2/2, 329/2/1, 329/1, 332/2, 330, 343, 344/1/1, 344/1/2, 344/3/1, 344/3/2, 346, 366/1, 367/2, 367/3, 370, 371/3, 413/1, 413/2, 413/8, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 421/1, -, 424/2, 425/1/1, 425/1/2, 444/1/1/1 क, 444/1/1/1 ख, 444/1/1/1 ग, 444/1/1/2, 444/1/2, 444/2, 465/1/1, 465/1/2, 465/2, 465/4, 466/1/1, 466/1/2, 466/2, 470/1, 480, 483/1, 483/2, 502, 501, 504/1, 506/2, 520/2, 520/1, 523, 522/3, 522/2, 522/1 392/1/9, 393, 394

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावेर	किठोदा	167, 179, 168/1, 168/2, 168/3, 187, 188, 166/1, 165/1, 165/2, 165/3, 164, 126/1, 126/2, 125/1/2, 123/1, 123/2, 122, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 242/1, 242/2, 243/1, 233, 228, 232/1/1 क, 232/1/1 ख, 232/1, 232/1/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 186/1, 186/244/1, 231/5, 231/6, 231/7, 189/1, 188/1, 188/2, 118, 243/1	167, 179, 168/1, 168/2, 168/3, 188, 166/1, 165/1, 165/2, 165/3, 164, 126/1, 125/1/2, 125/2, 124/2, 123/1, 122, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 242/1, 242/2, 243/1, 233, 228, 232/1/1 क, 232/1/1 ख, 232/1, 232/1/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 186/1, 186/244/1, 231/5, 231/6, 231/7, 215/1, 189/1, 118, 243/1
उज्जैन	उज्जैन	पंथपिपलई	8, 9, 38/1, 38/2/1, 38/2/2, 10, 39, 60, 61, 78, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 430/1, 430/2, 437/1/1, 437/1/2, 437/2, 442, 438/1/1, 438/1/2, 438/2, 439, 440, 231, 547/1, 547/2, 557/1, 557/2, 554, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 199/1, 199/2, 199/3, 198, -, 180/1, 180/2, 180/3, 183, 178/1/1/1, 178/1/1/2, 178/1/2/1, 178/1/2/2, 178/2/1, 178/2/2, 178/2/3, 175/1/1, 175/1/2, 175/2, 175/3/1, 175/3/2, 174/1/1, 174/1/2, 174/2/1, 174/2/2, 176/1/1, 176/1/2, 176/2/1, 176/2/2, 162/1, 162/2, 162/3/1, 162/3/2/1, 162/3/2/2, 162/4/1, 162/4/2, 162/5/1, 162/5/2, 162/6/1, 162/6/2, 162/6/3, 159, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 142/1/1/1, 142/1/2, 142/2/1, 142/2/2, 142/3/1, 142/3/2, 142/4/1, 142/4/2, 141/1, 141/2/1, 141/2/2, 160, 163, 166/1, 166/2/1, 166/2/2, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 558/1, 558/2, 560, 559, 546/1, 546/2, 444/1, 444/2, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 426/1, 426/2/1, 426/2/2, 264/1, 264/2/1, 264/2/2, 264/3/1, 264/3/2, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 275, 277/1, 277/2, 277/3, 284/1/1, 284/1/2, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1/1, 285/2/1/2, 285/2/2/1, 285/2/2/2, 290/1, 290/2, 288/1/1, 288/1/2, 288/2/1, 288/2/2, 288/3, 288/4, 302, 300/3/1/1, 303/1/2, 303/2/1, 303/2/2, 304/1, 304/2, 305, 276, 441, 443, 287/1, 287/2, 287/3, 180/1, 180/2, 180/3	6, 7, 8, 9, 38/1, 38/2/1, 38/2/2, 10, 40, 41, 59, 60, 58, 61, 62/3, 260/3, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 430/1, 430/2, 436/1, 436/2, 437/1/1, 437/1/2, 437/2, 442, 438/1/1, 438/1/2, 438/2, 231, 548/1, 548/2, 556, 547/1, 547/2, 555/1, 555/2, 557/1, 557/2, 554, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 199/1, 199/2, 199/3, 198, 186, 180/1, 180/2, 180/3, 183, 178/1/1/1, 178/1/1/2, 178/1/2/1, 178/1/2/2, 178/2/1, 178/2/2, 178/2/3, 175/1/1, 175/1/2, 175/2, 175/3/1, 175/3/2, 174/1/1, 174/1/2, 174/2/1, 174/2/2, 176/1/1, 176/1/2, 176/2/1, 176/2/2, 162/1, 162/2, 162/3/1, 162/3/2/1, 162/3/2/2, 162/4/1, 162/4/2, 162/5/1, 162/5/2, 162/6/1, 162/6/2, 162/6/3, 159, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 142/1/1/1, 142/1/2, 142/2/1, 142/2/2, 142/3/1, 142/3/2, 142/4/1, 142/4/2, 141/1, 141/2/1, 141/2/2, 160, 161/1, 161/2, 163, 166/1, 166/2/1, 166/2/2, 173, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 582, 583, 564/1/1, 564/1/2, 564/1/3, 558/1, 558/2, 560, 563, 546/1, 546/2, 444/1, 444/2, 445, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 426/1, 426/2/1, 426/2/2, 265/1, 265/2, 264/1, 264/2/1, 264/2/2, 264/3/1, 264/3/2, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 274/1, 274/2, 275, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 284/1/1, 284/1/2, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1/1, 285/2/1/2, 285/2/2/1, 285/2/2/2, 288/1/1, 288/1/2, 288/2/1, 288/2/2, 288/3, 288/4, 301, 302, 300/2, 300/3/1/1, 303/1/2, 303/2/1, 303/2/2, 304/1, 304/2, 305, 276, 230, 287/1, 287/2, 287/3, 180/1, 180/2, 180/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	रामवासा	157/1, 158, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2 मि.2, 161/2 मि.1, 174, 181, 182, 183, 215, 216, 218, 226/1, 226/2, 226/3, 470, 469, 471/1, 471/2, 498, 499/1/2/1 मि. , 499/1/2/1 मि.2 , 499/1/2/1 मि.3 , 499/1/1, 499/1/2/2, 499/3, 499/2/1, 499/2/3, 499/2/2 मि.1 , 499/2/2 मि.2 , 499/2/2 मि.3 , 501, 500, 506, 507, 508, 508/2/1, 508/2/2, 509, 510/1, 510/2/2, 510/2/3, 518/1, 518/2/1, 518/2/2, 520/1/1/1, 520/1/1/2, 520/1/2/1, 520/1/2/2, 520/1/3/1, 520/1/3/2, 520/1/4/1, 520/1/4/2, 520/1/5/1, 520/1/5/2, 520/2/1, 520/2/2, 522/1, 522/2/1, 522/2/2, 523/1, 523/2, 524, 525, 467/1, 467/3, 467/2/1, 467/2/2, 467/2/3, 467/2/4, 466/1, 466/2/1, 466/2/2, 466/3/1, 466/3/2, 466/4/1, 466/4/2, 459, 455, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 474/3/1, 474/3/2, 474/4/1, 474/4/2, 474/5/1, 474/5/2, 474/6, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1/1, 478/1/2, 478/2, 479	156, 155, 154, 157/1, 153, 158, 159, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2 मि.2, 161/2 मि.1, 174, 181, 182, 183, 215, 216, 217, 218, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 469, 471/1, 471/2, 498, 499/1/2/1 मि. , 499/1/2/1 मि.2 , 499/1/2/1 मि.3 , 499/1/1, 499/1/2/2, 499/2/1, 499/2/3, 499/2/2 मि.1 , 499/2/2 मि.2 , 499/2/2 मि.3 , 501, 506, 507, 508, 508/2/1, 508/2/2, 510/1, 510/2/2, 510/2/3, 511, 518/1, 518/2/1, 518/2/2, 519, 520/1/1/1, 520/1/1/2, 520/1/2/1, 520/1/2/2, 520/1/3/1, 520/1/3/2, 520/1/4/1, 520/1/4/2, 520/1/5/1, 520/1/5/2, 522/1, 522/2/1, 522/2/2, 523/1, 523/2, 524, 525, 467/1, 467/3, 467/2/1, 467/2/2, 467/2/3, 467/2/4, 466/1, 466/2/1, 466/2/2, 466/3/1, 466/3/2, 466/4/1, 466/4/2, 459, 455, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 474/3/1, 474/3/2, 474/4/1, 474/4/2, 474/5/1, 474/5/2, 474/6, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1/1, 478/1/2, 478/2, 479, 480
उज्जैन	उज्जैन	निनोरा	3/1, 3/2, 3/3, 5, 12, 13, 14, 15, 15/725, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 45, 48/1, 48/2, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 61/4, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1/1, 70/1/2, 70/2/1, 70/2/2, 74, 485, 484/1/1, 484/1/2, 484/2, 484/3, 483, 482/1, 482/2, 481, 491, 492, 495/1, 495/2/1, 495/2/2, 495/2/3, 495/2/4, 497, 504, 506, 505, 517, 518, 519, 529, 531, 532, 533 मि.1, 533 मि.2, 536/1, 536/2/1, 536/2/2, 537/2, 538, 554/1, 554/2/1, 554/2/2, 554/2/3, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2/1, 556/2/2, 557/1, 557/2, 565/1, 565/2, 566, 567, 570/1, 570/2, 571, 572, 570/3/1, 570/3/2, 573/1, 573/2/1, 573/2/2, 472, 569, 479/1/1/1, 479/1/1/2, 479/1/2/1, 479/1/2/2, 479/2/1, 479/2/2, 479/2/3/1, 479/2/3/2, 479/2/4 मि.1, 479/4 मि.2, 478, 477/1, 477/2, 476, 475/2/1, 475/2/2, 480, 533 मि.1, 533 मि.2, 534, 535	3/1, 3/2, 3/3, 5, 12, 13, 14, 15, 15/725, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 45, 48/1, 48/2, 52, 49, 50, 51, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 62, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1/1, 70/1/2, 70/2/1, 70/2/2, 74, 485, 484/1/1, 484/1/2, 484/2, 484/3, 483, 482/1, 482/2, 481, 491, 492, 495/1, 495/2/1, 495/2/2, 495/2/3, 495/2/4, 497, 504, 506, 505, 517, 519, 520, 529, 530, 531, 532, 533 मि.2, 533 मि.1, 536/1, 536/2/1, 536/2/2, 537/2, 538, 554/1, 554/2/1, 554/2/2, 554/2/3, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2/1, 556/2/2, 557/1, 557/2, 564, 565/1, 565/2, 566, 570/1, 570/2, 571, 570/3/1, 570/3/2, 573/1, 573/2/1, 573/2/2, 574/1, 574/2, 472, 569, 479/1/1/1, 479/1/1/2, 479/1/2/1, 479/1/2/2, 479/2/1, 479/2/2, 478, 477/1, 477/2, 476, 475/2/1, 475/2/2, 480, 533 मि.1, 533 मि.2, 534, 535

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	कराड़िया उर्फ नवाखेड़ा	45, 44/1 सी.1, 44/1 सी.2, 44/2, 41/1, 41/2, 40/1, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/3, 40/3, 37, 36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3, 36/4/1, 36/4/2, 34, 35/1/1, 35/1/2, 35/2, 47/1/1, 47/1/2, 47/2/1, 47/2/2, 47/3/1, 47/3/2, 47/4/1, 47/4/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1/1, 53/1/2/1, 53/1/2/2, 53/1/2/3, 53/2/1, 53/2/2/1, 53/2/2/2, 53/2/2/3, 54/1, 54/2, 54/3/1, 54/3/2, 150, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 169/1/1, 169/1/2, 169/2/1, 169/2/2, 163/1, 163/2, 226/1/1, 226/1/2, 226/2, 226/3, 227, 225/1, 225/2, 224, 228, 230, 232/1, 232/2/1, 232/2/2, 232/2/3, 223, 171/1, 171/2, 172/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195/1, 195/2/1, 195/2/2, 212, 213, 214, 221, 222, 170, 46	44/1 सी.1, 44/1 सी.2, 44/2, 41/1, 41/2, 40/1, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/3, 40/3, 37, 36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3, 36/4/1, 36/4/2, 34, 35/1/1, 35/1/2, 35/2, 47/1/1, 47/1/2, 47/2/1, 47/2/2, 47/3/1, 47/3/2, 47/4/1, 47/4/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1/1, 53/1/2/1, 53/1/2/2, 53/1/2/3, 53/2/1, 53/2/2/1, 53/2/2/2, 53/2/2/3, 54/1, 54/2, 54/3/1, 54/3/2, 150, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 169/1/1, 169/1/2, 169/2/1, 169/2/2, 165, 163/1, 163/2, 226/1/1, 226/1/2, 226/2, 226/3, 227, 225/1, 225/2, 224, 228, 230, 232/1, 232/2/1, 232/2/2, 232/2/3, 231/1, 231/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195/1, 195/2/1, 195/2/2, 212, 213, 214, 215, 221, 170, 46
उज्जैन	उज्जैन	मैंडिया	93/2, 93/1/2 सी.2, 94/1/1, 99/1/2, 95/1/1, 98, 96/1, 96/2/1/1, 96/2/1/2, 96/2/2, 106/1, 107 सी., 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107 सी., 106/6, 106/7, 106/8, 106/9/1, 106/9/2, 109/1/2, 165/1, 165/2, 164, 166/1, 163/1, 163/2, 162, 161/1, 161/2, 157/1/1, 94/1/2, 108/2/1, 108/2/1/2, 111/2, 113/1, 113/4, 124, 125/1, 125/2, 127/3, 127/2, 126, 160, 110, 109/1/1, 109/1/2, 109/2, 109/3/1/1, 95/1/1, 108/2/1/1, 95/2/1, 109/3/2/1, 108/2/2/1, 109/3/2/2, 109/3/3/1, 95/3/2, 108/2/3, 109/3/3/2, 108/3/3, 95/3/1, 108/2/3, 108/2/3	92/5, 92/6, 92/7, 92/2/1, 93/2, 94/1/1, 99/1/2, 99/2/2, 98, 97/1/1, 97/1/3, 97/2, 106/1, 107 सी., 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107 सी., 106/6, 106/7, 106/8, 106/9/1, 106/9/2, 166/1, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/1/5, 157/1/6, 157/1/7, 157/1/9, 157/1/10/1, 157/1/10/2, 157/1/10/3, 157/1/10/4, 157/2, 157/3, 111/3, 111/1, 111/2, 114/1 सी.2, 113/1, 114/2, 113/3, 113/2, 113/1, 113/4, 114/4, 113/5, 123/3/1, 123/3/2, 123/3/3, 123/1, 122, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 127/3, 127/2, 127/1, 126, 160
उज्जैन	उज्जैन	मैंडिया	21/1, 21/2, 22/1, 22/1/1, 22/2, 33/1, 33/2, 96/1/1, 96/1/2, 96/1/3, 96/2, 92/1, 91/4, 91/12, 91/11, 91/10, 91/8, 91/1/2, 91/2/3, 91/2/2/2, 91/2/4, 112/1, 112/5, 112/9, 112/6, 112/8, 112/7/1/1, 112/7/1/2, 112/1/2, 112/7/2, 114/1/1, 114/2/1, 114/2/2, 114/2/3, 115, 111, 110, 110/2, 110/1, 109, 108, 107/3, 106, 103, 104/1, 104/2, 105, 102/1/1, 102/2, 101, 97/1, 97/2, 97/3/1, 97/3/2, 97/4/1, 97/5/1, 98/1/1, 16/2/2/1, 16/2/2/2, 16/2/2/3, 16/2/2/4, 16/2/2/5, 16/2/2/6, 16/2/1/1, 16/2/1/2, 16/2/1/3, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/1/1, 16/3, 17, 93/2	21/1, 21/2, 22/1, 22/1/1, 22/2, 33/1, 33/2, 96/1/1, 96/1/2, 96/1/3, 96/2, 92/1, 91/4, 91/12, 91/11, 91/10, 91/8, 91/1/2, 91/2/3, 91/2/2/2, 91/2/4, 112/1, 112/5, 112/9, 112/6, 112/8, 112/7/1/1, 112/7/1/2, 112/1/2, 112/7/2, 114/1/1, 114/2/1, 114/2/2, 114/2/3, 115, 110, 110/2, 110/1, 107/3, 106, 104/1, 104/2, 105, 102/1/1, 102/2, 101, 97/1, 97/2, 97/3/1, 97/3/2, 97/4/1, 97/5/1, 98/1/1, 16/2/2/1, 16/2/2/2, 16/2/2/3, 16/2/2/4, 16/2/2/5, 16/2/2/6, 16/2/1/1, 16/2/1/2, 16/2/1/3, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/1/1, 16/3, 93/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द	5/1/1, 5/1/2, 5/1/2/1, 5/1/2/2, 5/1/2/3, 5/2 सी. 1, 5/2 सी.2, 5/2 सी.3, 5/2 सी.4, 5/2 सी.5, 5/3, 5/4, 5/5 सी.1, 5/5 सी.2, 5/5 सी.3, 5/6, 24/1/1, 24/1/2, 23/1/2, 24/2/1, 24/2/2, 24/2/3, 24/2 सी.2, 7/3, 23/3, 24/3/1, 24/3/2, 24/3/3, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 28/1/1/1, 28/1/3, 28/1/2/1, 28/1/9, 28/1/8, 28/1/10, 28/1/11, 29/1, 29/2, 23/1/1, 23/1/2, 23/2, 23/3, 30, 38 सी.1, 38 सी.2, 42/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 38/2, 42/5, 39, 42/6, 40/6, 44/2/2, 44/2/3, 44/2/7, 44/2 सी.1, 44/2 सी.5, 44/2 सी.8, 40/1, 40/2, 42/6, 40/3, 42/7, 40/4, 42/8, 40/5, 42/9, 40/6, 42/10, 42/11, 40/7, 43/1, 43/2, 45/1, 45/1/2, 45/1/3, 45/1/4, 45/1/5, 45/1/6, 45 सी.1, 45 सी.2, 45/1/7, 45/8/8, 45/1/10, 45/2/3, 45/2/4, 45/2/7, 45/2/16, 46/1/11, 45/2 सी.1, 45/2 सी.2, 45/2 सी.8, 45/2 सी.5, 45/2 सी.13, 45/2 सी.14, 55, 58/2, 58/1, 57, 136/5/1, 136/5/2, 136/2, 147/6/1, 147/3, 147/5, 136/3 सी.1, 60/1, 59, 68, 69/2, 69/3, 72/1 सी.1, 72/1 सी.2, 74/1 सी.1, 74/1 सी.2, 74/1 सी.3, 74/1 सी.4, 74/1 सी.8, 74/1 सी.9, 74/2, 75 सी.1, 75 सी.2, 75 सी.3, 75 सी.4, 75 सी.5, 75 सी.6, 75 सी.7, 80/1/1, 80/1 सी.1, 80/1 सी.2, 80/4/1, 80/4/3, 80/5/1, 80/5/2, 80/5/2 सी.1, 80/5/3, 80/4/2, 136/5/1, 136/5/2, 136/6, 136/7 सी.1, 61/1, 61/2, 136/1/1, 136/8, 148, 147/2, 76,77,78,79,81/2,84,85, 86,87,88, 34/4/1, 36/4/2, 36/4/3, 36/3, 158/1, 69/1 सी.1, 70/1, 69/1 सी.2, 69/1 सी.3, 69/1 सी.4, 69/1 सी.5, 69/1 सी.6, 69/1 सी.7, 72/2, 73	5/1/1, 5/1/2, 5/1/2/2, 5/1/2/3, 5/2 सी.1, 5/2 सी.2, 5/2 सी.3, 5/2 सी.4, 5/2 सी.5, 5/3, 5/4, 5/5 सी.1, 5/5 सी.2, 5/5 सी.3, 5/6, 24/1/1, 24/1/2, 23/1/2, 24/2/1, 24/2/2, 24/2/3, 24/2 सी.2, 7/3, 23/3, 24/3/1, 24/3/2, 24/3/3, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 28/1/1/1, 28/1/3, 28/1/2/1, 28/1/9, 28/1/8, 28/1/10, 28/1/11, 23/1/1, 23/1/2, 23/2, 23/3, 30, 38 सी.1, 38 सी.2, 42/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 38/2, 42/5, 39, 42/6, 40/6, 44/2/2, 44/2/3, 44/2/7, 44/2 सी.1, 44/2 सी.5, 44/2 सी.8, 40/2, 42/6, 40/3, 42/7, 40/4, 42/8, 40/5, 42/9, 40/6, 42/10, 42/11, 40/7, 43/1, 43/2, 45/1, 45/1/2, 45/1/3, 45/1/4, 45/1/5, 45/1/6, 45 सी.1, 45 सी.2, 45/1/7, 45/8/8, 45/1/10, 45/2/3, 45/2/4, 45/2/7, 45/2/16, 46/1/11, 45/2 सी.1, 45/2 सी.2, 45/2 सी.8, 45/2 सी.5, 45/2 सी.13, 45/2 सी.14, 55, 58/2, 58/1, 57, 136/5/1, 136/5/2, 136/2, 147/6/1, 147/3, 147/5, 136/3 सी.1, 60/1, 59, 68, 69/2, 69/3, 72/1 सी.1, 72/1 सी.2, 74/1 सी.1, 74/1 सी.2, 74/1 सी.3, 74/1 सी.4, 74/1 सी.8, 74/1 सी.9, 74/2, 75 सी.1, 75 सी.2, 75 सी.3, 75 सी.4, 75 सी.5, 75 सी.6, 75 सी.7, 80/1/1, 80/1 सी.1, 80/1 सी.2, 80/4/1, 80/4/3, 80/5/1, 80/5/2, 80/5/2 सी.1, 80/5/3, 80/4/2, 136/5/1, 136/5/2, 136/6, 136/7 सी.1, 61/1, 61/2, 136/1/1, 136/8, 148, 147/2, 76,77,78,79,81/2,84,85, 86,87,88, 34/4/1, 36/4/2, 36/4/3, 36/3, 56/सी.4, 56/सी.5, 56/सी.6, 56/सी.7, 56/सी.8, 56/सी.9, 56/सी.10, 56/11, 56/12, 137, 161 सी.1, 162, 161 सी.2, 163 सी.1, 163 सी.2, 164, 165, 158/1, 69/1 सी.1, 70/1, 69/1 सी.2, 69/1 सी.3, 69/1 सी.4, 69/1 सी.5, 69/1 सी.6, 69/1 सी.7, 73

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	नानाखेड़ा	50, 51/2, 51/1/2/2, 51/5, 51/4, 51/8, 49, 52, 53, 48/2, 62, 92, 89/1 मि.1, 89/1 मि.2, 89/1 मि.3, 89/2, 89/3, 89/4 मि.1, 89/4 मि.2, 89/5, 89/6, 88/1/1, 91/1, 88/1/2, 90/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/13, 81/1/2, 81/1/3, 81/1/4, 81/1/5, 81/2/2, 81/2/3, 81/2/4, 81/2/5, 81/2/6, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 85/2, 86/2, 85/1, 320/2, 320/1, 83/2, 330/4, 330/5, 330/6, 331, 330/2, 330/3, 330/7, 330/10, 330/11, 329/2, 329/3, 333/7	50, 51/1/2/1, 51/2, 51/1/2/2, 51/4, 51/8, 49, 52, 54, 55/2, 48/2, 48/1, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/14, 63/12, 63/13, 62, 92, 93, 89/1 मि.1, 89/1 मि.2, 89/1 मि.3, 89/2, 89/3, 89/4 मि.1, 89/4 मि.2, 89/5, 89/6, 88/1/1, 91/1, 88/1/2, 90/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 81/1/1, 81/1/2, 81/1/3, 81/1/4, 81/1/5, 81/2/2, 81/2/3, 81/2/4, 81/2/5, 81/2/6, 81/3, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 85/2, 86/2, 83/2, 330/4, 330/5, 330/6, 331, 330/2, 330/3, 330/7, 330/8, 330/10, 330/11, 329/2, 329/3, 329/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	3526, 3522, 3556/2, 3556/1, 3554/2, 3555, 3556, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3523, 3557/1, 3546, 3547, 3546/2, 3541, 3554, 3553, 3668, 3667, 3666, 3689, 3687/2, 3686, 3683/1, 3685, 3666, 3665, 3557/1, 3557/2, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3667, 3686, 3557/1, 3557/2, 3559/3/1, 3559/2, 3545/1, 3545/2	2351, 3526, 3524, 3522, 3556/2, 3556/1, 3555, 3556, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3523, 3543, 3557/1, 3547, 3541, 3551, 3548, 3552, 3550, 3554, 3553, 3668, 3667, 3666, 3689, 3687/2, 3686, 3683/1, 3684, 3685, 3690, 3666, 3664, 3665, 3557/1, 3557/2, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3667, 3686, 3557/1, 3557/2, 3676, 3562/1, 3562/2, 3665, 3544, 3559/2, 3545/1, 3545/2

IV)

"खण्ड-अ"

राजमार्ग का नाम	कुल लंबाई (किमी. में)	राजमार्ग में आने वाले जिले
भोपाल-देवास फोरलेन मार्ग (एस. एच.-18)	140.79	भोपाल, सीहोर, देवास

"खण्ड - ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
भोपाल	हुजूर	बैरागढ़ कंला	496, 469-471-478-479, 467, 468, 470, 454, 470, 494, 493, 492, 453, 486, 487, 485, 477, 473, 474	496, 469-471-478-479, 467, 468, 470, 454, 494, 493, 492, 453, 486, 487, 485, 473, 474
भोपाल	हुजूर	भैसाखेड़ी	75, 78, 79, 80, 81, 85, 93, 30, 90, 89, 47, 156, 155, 154, 153, 151/1, 163/2, 163/1, 164, 98	75, 78, 79, 80, 81, 85, 30, 90, 89, 47, 156, 155, 154, 153, 151/1, 163/2, 163/1, 164, 100, 98
भोपाल	हुजूर	भौरी	620, 619, 622, 624-625, 613, 1194, 1193, 1189, 1190-1192-1195/1, 1189, 1191-1190/2, 1188, 1187, 1217, , 1219, 1220, 631, 632, 1183, 1182, 1181, 1175, 1174, 1173, 1172, 1169, 1168, 1169, 1167, 1165, 1162, 1160, 1159, 1158, 1287, 1291, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1301, 1307, 1209	619, 622, 624-625, 613, 1193, 1189, , 1189, 1191-1190/2, 1188, 1187, 1217, 1216, 1219, 1220, 631, 632, 1183, 1182, 1181, 1175, 1173, 1172, 1169, 1168, 1169, 1167, 1165, 1160, 1159, 1158, 1287, 1291, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1301, 1307, 1209, 1208
भोपाल	हुजूर	जमुनियाछीर	344, 345, 158, 349, 160, 163, 342, 165, 340, 175, 176, 177, 179, 180, 290, 291, 339, 292, 294, 295, 338, 299, 300, 301, 302, 231, 333, 329, 330	344, 345, 158, 349, 159, 157, 156, 160, 162, 163, 342, 165, 166, 340, 175, 176, 177, 179, 180, 290, 291, 339, 292, 294, 295, 338, 299, 300, 301, 302, 231, 334, 236, 329, 330, 328
भोपाल	हुजूर	कोलूखेड़ी	230, 133, 134, 231, 232, 135, 136, 138, 235, 236, 238, 139, 140, 141, 258, 142, 143, 148, 149, 260, 262, 261, 293, 294, 296, 297, 298, 189, 194, 195, 200, 201, 299, 301, 302, 202, 207, 208, 310, 222, 226, 310, 311, 314, 315,	228, 230, 133, 134, 231, 232, 135, 136, 137, 138, 235, 236, 238, 127, 139, 140, 141, 258, 142, 143, 148, 149, 260, 262, 261, 293, 294, 296, 297, 298, 189, 194, 195, 200, 201, 299, 301, 302, 207, 208, 210, 209, 310, 222, 226, 225, 310, 311, 312, 313, 315

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
भोपाल	हुजूर	खजूरीसड़क	28, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 102, 103, 99, 104/675, 104, 105, 106, 111, 112, 129, 130, 138, 139, 136, 137, 141, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 301, 300, 302, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 345, 346, 347, 348, 555, 556, 557, 558, 553	28, 39, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 87, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 103, 99, 104/675, 104, 105, 106, 112, 129, 130, 138, 139, 135, 136, 137, 141, 146, 148, 145, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 182, 183, 185, 300, 299, 298, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 555, 556, 558, 553
भोपाल	हुजूर	फंदाकंला	435, 436, 445, 447, 448, 515, 516, 118, 121, 124, 517, 518, 519, 520, 124, 125, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 197, 198, 521, 530, 535, 536, 537, 541/3, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 382, 383, 387, 388, 389, 407, 409, 431, 979, 980, 981, 987, 988, 1005, 386, 1006, 656, 644, 657, 658, 659, 660, 662, 661, 653, 664, 667, 665, 876, 197, 211, 257, 258, 260, 259, 213, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 267, 292, 293, 884, 283, 885, 886, 906, 905, 678, 294, 342	436, 445, 447, 448, 118, 121, 124, 517, 518, 519, 124, 125, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 197, 198, 521, 527, 530, 535, 536, 537, 541/3, 644, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 382, 383, 387, 388, 389, 407, 409, 431, 979, 980, 981, 987, 988, 1005, 386, 1006, 656, 644, 657, 658, 659, 660, 662, 661, 668, 667, 665, 876, 197, 211, 257, 258, 260, 259, 213, 261, 262, 264, 265, 268, 292, 884, 283, 887, 886, 906, 907, 905, 678, 294, 342
सीहोर	सीहोर	पचामा	305/1, 308, 307, 309, 310, 317/2, 314/1, 315/1, 320/1/1, 320/2, 321/1/1, 321/2/1, 325/1/1, 333/1, 327, 328/1, 327/-328/2, 327-328/3, 329/1, 331/1, 305/1, 306, 307, 310, 318, 317/2, 315/3, 320/2/3, 320/2/2, 321/1/3, 321/2/3, 325/1, 332/3	305/1, 308, 307, 309, 302, 310, 317/2, 314/1, 315/1, 320/1/1, 320/2, 321/1/1, 21/2/1, 325/1/1, 333/1, 326/1, 326/2, 327, 328/1, 327/-328/2, 327-328/3, 329/1, 331/1, 305/1, 306, 307, 310, 318, 317/2, 316, 315/3, 320/2/3, 320/2/2, 321/1/3, 321/2/3, 335, 325/1, 334, 332/3,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	सीहोर	लसूडिया परिहार	27-28/2/1, 27-28/2/2, 27-28/2/3, 26/1/1/1, 22-23 25/1, 263/77, 77, 76/462/1, 79/1, 80/1/1, 80/2/1, 107-108/1, 81/2/1, 81/1/4, 81/2/3, 81/3, 81/1/2/1, 81/1/1, 109, 96, 97/3, 96, 97/4, 96, 97/5, 91, 92, 93/1क, 89, 90, 154/1/3, 87/1, 87/2, 87/3/1ग, 87/3/1ख, 87/3/1घ, 87/3/1क, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 27/1, 26/1, 22, 23, 25/3, 78, 79, 76/462/3, 79/3, 80/1/3, 112, 80/2/3, 107, 108/3, 96, 97/1, 94, 95/1, 94, 95/2, 91, 92, 93/2, 89, 90, 154/1/4/3/2, 88, 159, 87/3/3, 160, 164, 165/2, 161, 162/3, 163/3	27-28/2/1, 27-28/2/2, 27-28/2/3, 26/1/1/1, 22-23-25/1, 263/77, 77, 76/462/1, 79/1, 80/1/1, 80/2/1, 107-108/1, 81/2/1, 81/1/4, 81/2/3, 81/3, 81/1/2/1, 81/1/1, 109, 96, 97/3, 96, 97/4, 96, 97/5, 91, 92, 93/1क, 91, 92, 93/1ख, 89, 90, 154/1/1, 89, 90, 154/1/2, 89, 90, 154/1/3, 87/1, 87/2, 87/3/1ग, 87/3/1ख, 87/3/1घ, 87/3/1क, 161, 162/1, 162/2, 27/1, 26/1, 22, 23, 25/3, 78, 79, 76/462/3, 79/3, 80/1/3, 113, 114, 112, 80/2/3, 107, 108/3, 96, 97/1, 94, 95/1, 94, 95/2, 91, 92, 93/2, 89, 90, 154/1/4/3/2, 88, 159, 87/3/3, 160, 164, 165/2, 161, 162/3, 163/3, 160, 164, 165/1क
सीहोर	सीहोर	तकीपुर उर्फ महुआखेडा	16/1/1, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 18/1/1, 18/1/2, 18/2/1, 18/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 17/1/1, 218/1/5, 218/2, 219/2, 218/1/1/4/1, 218/1/1/4/2, 218/1/1/4/3, 236/1, 237/1/1, 234/2, 234/1, 238/1/2, 232/1, 244/2, 245/1, 245/2, 248/1/2, 248/1/1, 248/2/1, 248/3/2, 248/4/1, 16/1/1, 19/2/3, 19/3 ख, 19/3 क, 19/4/2, 20/1, 17/1/3, 218/1/3, 218/1/2/3, 218/1/3/2, 218/1/2/6 क, 18/1/2/1/2, 237/1/2 क, 237/1/2 ख, 238/1/2, 239, 243/3, -, 252, 244/2, 245/1/1, 245/2/2, 249/3 ख/2, 249/3 क/2, 249/2/2	16/1/1, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 18/1/1, 18/1/2, 18/2/1, 18/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 17/1/1, 218/1/5, 218/2, 219/2, 218/1/1/4/1, 218/1/1/4/2, 218/1/1/4/3, 227/1, 236/1, 237/1/1, 234/2, 234/1, 238/1/2, 232/1, 244/2, 245/1, 245/2, 248/1/2, 248/1/1, 248/2/1, 248/3/2, 248/3/1, 248/4/1, 16/1/1, 19/2/3, 19/3 ख, 19/3 क, 19/4/2, 20/1, 21/1, 17/1/3, 218/1/3, 218/1/2/3, 218/1/3/2, 218/1/2/6 क, 218/1/2/4, 218/1/1/3/1 क, 218/1/2/1/2, 237/2 क, 237/1/2 ख, 238/1/2, 239, 243/3, 241, 252, 245/2/2, 249/3 ख/2, 249/3 क/2, 249/2/2
सीहोर	सीहोर	बडियाखेडी	173-174/1, 170/1, 175/1, 176/1, 179/1, 180, 178/1/1, 178/4, 187/1, 189/1, 188/1, 188/2, 190, 163/4, 173-174/3, 170/2, 175/3, 176/3, 181, 180/3, 271/280/1, 186/3/2, 189-191/2/2, 192, 188/1, 191/3, 163/3	173-174/1, 172, 170/1, 175/1, 176/1, 179/1, 178/1/1, 178/4, 187/1, 189/1, 188/1, 190, 163/4, 173-174/3, 170/2, 175/3, 181, 180/3, 271/280/1, 186/3/2, 189-191/2/2, 192, 188/1, 191/3, 163/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	सीहोर	शेरपुर	202/218, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 206, 208/1, , 187, 143/1/4, 143/1/3, 144/3, 163/1/1/1, 163/1/1/8, 164/1/2, 164/1/3, 166/1, 166/3, 165/3/1, 168/1/1, 288, 270/1/2, 81/3/6, 81/3/5, 81/3/3, 81/3/1, 81/3/2, 220, 219, 228, 202/218, 217, 207, 209, 211, 143/3, 187, 186/1, 186/2, 204/140/1, 163/1/1/1, 166/2, 177, 165/2, 168/2, 168/3, 169/3, 288/1/281/1 - 285/1/1/1क 285/1/1	202/218, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 206, 208/1, 208/2, 139/2, 187, 143/1/4, 143/1/3, 142/2, 144/3, 144/2, 163/1/1/1, 163/1/1/8, 164/1/2, 164/1/3, 164/1/5, 166/1, 166/3, 165/3/1, 168/1/1, 288, 270/1/1, 288, 270/1/2, 81/3/6, 81/3/5, 81/3/3, 81/3/1, 81/3/2, 81/2, 220, 221, 219, 228, 217, 216, 207, 209, 215, 210, 211, 259/2, 143/2, 143/3, 187, 186/1, 186/2, 204/140/2, 162/2, 162/3, 166/2, 166/3, 177, 165/2, 168/2, 168/3, 169/2, 169/3, 288/170/2, 288/1/281/1 285/1/1/2 285/1/1/1ख 285/1/1/1क 285/1/1
सीहोर	सीहोर	सारंगाखेड़ी	46/1, 47/1, 52/2, 52/1, 54, 49/1, 50-51/2, 50-51/1, 74-77/1/1, 76/1, 74-77/2, 78/1, 79/1, 83, 82/2, 82/1, 97/1, 101/1, 102/1, 99-118/99/1/1, 99/2/1-118/2, 99/3/1-118/99/1, 48/3, 49/3, 50-51/3, 50-51/1, 73/3, 75/2, 79/2, 87/1-87/2, 85, 84, 97/2, 105, 104, 103, 102/3, 99/118/99/1/2, 99/118/99/2/4, 99/118/99/3/3	46/1, 47/1, 55, 52/2, 52/1, 54, 53, 49/1, 50-51/2, 50-51/1, 74-77/1/1, 76/1, 74-77/2, 78/1, 79/1, 83, 82/2, 82/1, 97/1, 101/1, 102/1, 99-118/99/1/1, 99/2/1-118/2, 99/3/1-118/99/1, 48/3, 49/3, 50-51/3, 50-51/1, 73/3, 75/2, 79/2, 87/1-87/2, 86, 85, 84, 97/2, 105, 106/1, 104, 103, 102/3, 99/118/99/1/2, 99/118/99/2/4, 99/118/99/3/3
सीहोर	सीहोर	करबा सीहोर	1004, 1006/1, 1021, 1022, 1102/1, 1149/1096, 1093, 1092, 1091, 1111/1, 1110, 1109, 1062/1119, 1119, 1004, 1006/1, 1006/2, 1021/2, 1021/3, 1102/5, 1102/1/3, 1101/6, 1049/1096, 1094, 1092, 1091, 1111/3, 1107, 1108, , 1109, 1062/1119	1004, 1006/1, 1021, 1022, 1102/1, 1149/1096, 1093, 1092, 1091, 1111/1, 1110, 1109, 1062/1119, 1119, 1004, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1021/2, 1021/3, 1102/5, 1102/1/3, 1101/6, 1049/1096, 1094, 1095, 1092, 1091, 1111/3, 1107, 1108, 1123, 1109, 1062/1119, 1120, 1121
सीहोर	सीहोर	रफीकगंज	366/6, 366/5, 369/1/1, 367/2-368/1/6, 369-370/1, 369-370/2, 369-370/2/5, 376/2/4, 376/2/2, 376/2/3, 379/1, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/1, 383/2, 383/3, 384, 385, , 386, 387, 388, 402, 389, 402/379, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 271, 228, 227/1/7, 229, 226/1/2, 226/1/5 ज, 226/1/2 ज, 226/1/3 ज, 224/2, 224/4, 224/5, 224/3, 223/1/3, 223/1/4, 223/1/5, 223/1/2	366/6, 366/1, 366/5, 369/1/1, 367/2-368/1/6, 369-370/1, 369-370/2, 369-370/2/5, 376/2/4, 376/2/2, 376/2/3, 378, 379/1, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/1, 383/2, 383/3, 393/1, 393/2, 393/3, 384, 385, 391, 386, 387, 388, 402, 389, 402/379, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271, 228, 227/1/7, 229, 226/1/2, 226/1/5 ज, 226/1/2 ज, 226/1/3 ज, 224/2, 224/4, 224/5, 224/3, 223/1/3, 223/1/4, 223/1/5, 223/1/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	सीहोर	नापलाखेडी	177/3, 176/2, 176/1, 175, 142/1, 126/2, 125/3, 125/5, 125/4, 124, 123, 153, 121, 120, 92, 91, 90, 88, 89, 80, 76, 75/1, 74, 72, 70, 32, 24, 23/1, 23/2, 20,21,22/1, 20,21,22/2, 19	177/3, 176/2, 176/1, 175, 142/1, 144, 126/2, 125/3, 125/5, 125/4, 124, 123, 121, 120, 92, 91, 90, 88, 89, 80, 77, 76, 75/1, 74, 72, 69, 70, 32, 24, 23/1, 23/2, 20,21,22/1, 20,21,22/2, 19
सीहोर	सीहोर	चितोडियाहेमा	175/3, 175/5, 175/3, 175/4, 176,177/5, 176,177/4, 176,177/6, 176,177/2, 178, 182/2, , 188/2, 262/2, 266/3, 266/2, 266/1, 267, 272, 274, 288/274, 275/2, 275/1	175/3, 175/5, 175/3, 175/4, 176,177/5, 176,177/4, 176,177/6, 176,177/2, 178, 182/2, 185,186/2, 188/2, 188/1, 262/2, 266/3, 266/2, 266/1, 267, 272, 274, 273, 275/2, 275/1
सीहोर	सीहोर	खुशींदपुर	109, 105, 106/1, 60, 59/1, 63/2, 59/2, 68/2, 68/3, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 52, 49/1, 44, 45, 46,47, 105, 106/3, 109, 65/1, 66/1, 65/2, 63/1, 66/2, 67/3, 101, 70/3, 7-1, 7-2, 49/3, 48	109, 105, 106/1, 60, 59/1, 63/2, 59/2, 68/2, 68/3, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 52, 49/1, 44, 45, 46,47, 105, 106/3, 109, 65/1, 66/1, 65/2, 63/1, 66/2, 67/3, 101, 70/3, 7-1, 7-2, 49/3, 48
सीहोर	सीहोर	मालीपुरा	81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1 क, 83/1 ख, 83/1 ग, 83/1 घ, 83/2, 87, 88, 89/1, 89/2, 140/1, 143-144, 143-145, 146-150-102/2 क 1, 146-150-164/2 क-2, 146-150-164/2 क-4, 146-150-164/2 क-5, 146-150-164/2 क-6, 164/2, 164/1, 167	81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1 क, 83/1 ख, 83/1 ग, 83/1 घ, 83/2, 87, 88, 89/1, 89/2, 140/1, 143-144, 143-145, 146-150-102/2 क 1, 146-150-164/2 क-2, 146-150-164/2 क-4, 146-150-164/2 क-5, 146-150-164/2 क-6, 164/2, 164/1, 167
सीहोर	सीहोर	उदपुरा	4/2, 67/2, 67/3, 67/7, 67/8, 8/2, 8/1, 10, 11/1, 11/2, 15, 14/2	4/2, 67/2, 67/3, 67/7, 67/8, 8/2, 8/1, 10, 11/1, 11/2, 15, 14/2
सीहोर	सीहोर	जताखेडा	53/1 ख, 51/2,52/4, 52/3,53/6, 52/3,53/6, 52/3,53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 67/1/1 स, 67/1/1, 67/1/2, 67/2, 68/5, 68/2, 88/1/1, 89, 91/1, 90, 92,93/3, 94, 112/1, 113,114/1, 113,114/3, 124/548/2, 125/4, 125/3, 126/1, 126/3 , 546, 552,854/547, 553, 554, 228/1, 226/2/2, 226/2/1, 226/1, 218, 217, 216/2, 216/1/2, 216/1/1, 208, 207/1, 184/1, 184/3, 183/2, 183/1, 176/1, 176/2, 176/3, 175, 176/4, 176/5, 173, 176/6, 129/3, 129/2, 129/1, 128,543	53/1 ख, 51/2,52/4, 52/3,53/6, 52/3,53/6, 52/3,53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 67/1/1 1, 67/1/1, 67/1/2, 67/2, 68/5, 68/2, 88/1/1, 89, 91/1, 90, 92,93/3, 94, 112/1, 113,114/1, 113,114/3, 124/548/2, 125/4, 125/3, 126/1, 126/3 , 546, 552,854/547, 553, 554, 228/1, 226/2/2, 226/2/1, 226/1, 225/5, 218, 217, 216/2, 216/1/2, 216/1/1, 208, 207/1, 184/1, 184/2, 184/3, 183/2, 183/1, 176/1, 176/2, 176/3, 175, 176/4, 176/5, 173, 176/6, 129/3, 129/2, 129/1, 128,543
सीहोर	सीहोर	खोखरी	16/2, 16/1, 17/3, 17/2, 18, 11/4, , 11/3, , 11/2, 276/10/1, 10/4, 10/6, 10/5, 10/7, 8/2 ख, 26/1 क, 25, 23, 24/1, 24/2, 288/34/2, 288/34/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 40/3, 40/2, 41/1, 41/2, , 42/2, 42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7	16/2, 16/1, 17/3, 17/2, 18, 11/4, 11/1, 11/3, 11/5, 11/2, 276/10/1, 10/4, 10/6, 10/5, 10/7, 8/2 ख, 26/1 क, 26/1 ख, 25, 23, 24/1, 24/2, 288/34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 40/2,41/2, 41/3, 42/2, 42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	सीहोर	लालाखेडी	159/6, 159/7, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 188/160/1, 160, 133, 132, 125/2, 131/1/1, 125/2, 131/2, 125/5, 164/1, 164/3, 164/2, 170/1, 171, 170/2, 170/3, 172/1, 172/2, 174	159/6, 159/7, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 188/160/1, 160, 133, 132, 125/2, 131/1/1, 125/2, 131/2, 125/5, 164/1, 166/1, 165/2, 165/1, 167/1, 170/4, 170/1, 167/2, 167/3, 167/4, 169/1, 171, 170/2, 170/3, 169/2, 169/3, 172/1, 173/1, 173/2, 172/2, 174
सीहोर	सीहोर	सोंडा	96/3, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/2 ख, 90/2, 26/1/7 ग, 26/1, 24/7, 24/5, 24/3, 23/1, 23/2, 127/17, 17, 16, 26/8, 27/1, 27/2, 29, 137/30, 190/1, 26/1/4, 26/1/2, 26/7, 26/10, 26/4	96/3, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/2 ख, , 26/1/7 ग, 26/1, , 24/5, , 23/1, 23/2, 127/17, 17, 16, 26/8, 27/1, 27/2, 29, 137/30, -, 26/1/4, 26/1/2, 26/7, 26/10, 26/4
सीहोर	आष्टा	भीलखेडी	65/4, 65/5, 145/6, 145/1, 110/2, 145/3, 94, 164/1, 163, 162/2, 162/1, 160, 159, 158/1, 154/1, 153/2, 148, 147	65/4, 65/5, 145/6, 145/1, 110/2, 145/3, 94, 164/1, 163, 162/2, 162/1, 160, 159, 158/1, 154/1, 153/2, 148, 147
सीहोर	आष्टा	गाडराखेडी	84/2, 92/2, 94, 39/7/1, 39/7/2, 39/7/3, 39/5, 38/2, 36, 34, 29, 27, 25, 24/4, 21/3, 21/2, 19, 20, 18/19, 18/18, 18/20, 17, 130, 96, 97/2, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 111, 113/2, 113/1, 112, 112/3, 98/1, 98/3, 98/1, 98/3	84/2, 92/2, 94, 39/7/1, 39/7/3, 39/5, 36, 34, 29, 25, 24/4, 21/3, 21/2, 19, 18/18, 18/20, 130, 96, 97/2, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 111, 113/2, 113/1, 112, 112/3, 98/1, 98/3, 38/2
सीहोर	आष्टा	लसुडिया खास	65/4, 65/3/2, 65/3/3, 65/3/4, 65/5, 65/1, 64/1, 58/6, 58/5, 58/7, 58/8, 57/8, 55/1, 55/2, 55/3, 54/2, 47/2, 47/1, 35/4, 46, 45/3, 44, 43, 42, 67/1, 67/3, 68/4, 68/1, 68/2, 68/3, 74/1, 74/3, 74/2, 75, 76, 78/2, 77, 108, 109/2, 109/1, 110/1, 110/11, 110/10, 110/8, 110/5, 110/4/2, 110/4/1, 110/4/5, 110/4/4, 110/4/3, 119/1	65/4, 65/3/2, 65/3/3, 65/3/4, 65/5, 65/1, 64/1, 58/5, 58/7, 57/8, 55/2, 55/3, 54/2, 47/2, 47/1, 35/4, 46, 45/3, 42, 67/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68/4, 68/1, 68/2, 68/3, 68/25, 74/1, 74/3, 68/13, 74/2, 75, 76, 78/1, 78/2, 77, 108, 109/2, 109/1, 110/1, 110/11, 110/10, 110/8, 110/5, 110/4/2, 110/4/1, 110/4/5, 110/4/4, 110/4/3, 119/1
सीहोर	आष्टा	मानाखेडी	413/2, 423, 422/7, 422/6, 422/1, 422/4, 422/5, 419/10	413/2, 422/7, 422/6, 422/1, 422/4, 422/5, 419/10

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	कोठरी	201, 202, 203, 218, 217/1, 220, 224, 226, 229/1, 229/2, 230, 231/2, 232, 234/2, 233/1, 233/2, 234/1, 150/1, 149, 147, 146, 144/2, 144/1, 141/3, 139/1, 139/2, 600, 604, 603, 602, 601, 805/2, 808, 809/3, 809/2, 810, 811, 812, 820, 822/3, 822/2, 823, 828, 829, 832, 830, 854, 853, 856, 857, 892/5, 905, 906, 907, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 923/1, 923/2, 925/1925/2, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 316, 315, 314, 313, 312, 310, 309, 308, 300, 298, 297, 287, 263, 262, 259, 256, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4, 238/1, 238/14, 239, 5981, 1119, 1117, 1116, 1115, 1109/1, 1109/2, 1093/1, 1093/2, 1092, 1091, 932/2, 932/29, 932/31, 932/32, 316, 315, 314, 313/1, 313/2, 312, 310, 309, 308, 300, 298, 297, 287, 263, 262/1, 262/2, 256, 256, 255, 254, 236/1, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4, 239, 598/1 क, 598/7, 598/1, 598/1 ग, 549/1, 117, 6 1119, 1120, 1117, 1116, 1121, 1115, 1110, 1109/3, 1109/1, 1093/1, 1093/2, 1095,	201, 202, 203, 218, 217/1, 217/2, 220, 219/2, 224, 226, 229/1, 229/2, 230, 231/1, 232, 234/2, 233/1, 233/2, 234/1, 251/2, 150/1, 149, 148, 147, 146, 144/2, 145/1, 144/1, 141/3, 139/1, 139/2, 600, 604, 603, 602, 805/2, 804, 806, 808, 809/2, 810, 811, 812, 820, 821, 822/2, 823, 824, 828, 827, 829, 832, 831, 854, 853, 856, 858, 892/5, 905, 906, 907, 908, 909924/1, 923/1, 923/2, 925/1, 925/2, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5 316, 315, 314, 313, 312, 310, 311, 309, 308, 319/1, 300, 298, 299, 297, 287, 263, 264, 265, 262, 259, 261, 256, 257, 258, 260, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/2, 237/1, 237/3, 237/4, 247, 238/1, 238/14, 238/13, 238/12, 239, 5981, 1119, 1116, 1115, 1110, 1109/1, 1109/2, 1093/1, 1093/2, 1092, 1091, 932/2, 932/29, 932/31, 932/32, 316, 315, 314, 313/1, 313/2, 312, 311, 310, 309, 319/1, 308, 300, 299, 298, 297, 275, 287, 264, 263, 262/1, 262/2, 261, 256, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 247, 238/6, 238/12, 238/13, 238/14, 238/1,
सीहोर	आष्टा	बेदाखेडी	26/1/3, 26/1/1, 350/26, 28, 32/2, 33, 45, 48/2, 48/1, 52, 51,53,58/1, 61, 74, 76,82/3, 82, 218/3, 218/2, 218/1, 217, 206, 203, 204, 202/2, 202/1, 201, 200, 198/1, 194/1/2, 194/1/1, 194/2, 193/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191/2, 131, 84/1 क, 84/1 ख, 84/1 ग, 84/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/1, 86/1, 86/2, 87	26/1/3, 26/1/1, 350/26, 28, 32/2, 33, 45, 48/2, 48/1, 52, 51,53,58/1, 61, 74, 76,82/3, 82, 218/3, 218/2, 218/1, 217, 206, 203, 204, 202/2, 202/1, 201, 200, 198/1, 194/1/2, 194/1/1, 194/2, 193/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191/2, 131, 84/1 क, 84/1 ख, 84/1 ग, 84/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/1, 86/1, 86/2, 87
सीहोर	आष्टा	बमुलिया खींची	208, 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/4, 213/2, 213/1, 214/6, 214/1, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1, 228/2, 228/5, 227/1, 236/2, 236/1, 238, 309, 311, 313, 314, 315/2, 315/3, 315/1, 320/2, 320/3, 320/8, 320/14, 320/4/3, 320/4/2, 320/4/1, 320/5, 320/7, 320/11, 320/10, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 327/5, 327/1, 327/2, 327/4, 327/3, 328, 330, 331	208, 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/4, 213/2, 213/1, 214/6, 214/1, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1, 228/2, 228/5, 227/1, 227/2, 236/2, 236/1, 238, 309, 311, 313, 312, 314, 315/2, 315/3, 315/1, 320/2, 320/3, 320/8, 320/14, 320/4/3, 320/4/2, 320/4/1, 320/5, 320/7, 320/11, 320/10, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 327/5, 327/1, 327/2, 327/4, 327/3, 328, 330, 331
सीहोर	आष्टा	सैंधोखेडी	61/3, 61/2, 61/1, 62/2, 62/1, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 64/1, 49, 60/2, 60/1, 59, 57/4, 57/1, 57/5, 66, 67, 68	61/2, 61/1, 62/2, 62/1, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 49, 60/2, 60/1, 59, 57/4, 57/1, 57/5, 66, 67, 68

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	दलपतपुरा	104/1, 105/1ग/क, 105/1ग/ख, 105/1ग/105/1ग/च, 108/2, 110/1, 110/3, 111, 56/1, 56/5, 56/4, 56/6, 54, 56/8 क, 56/9, 56/8 ख, 127/1, 129/1/1, 126, 129/1/2, 124/1, 124/2, 132, 119, 118/1, 118/2, 117, 116, 114/1, 113/1, 113/3, 114/1	104/1, 103, 105/1ग/क, 105/1ग/ख, 105/1ग/ग, 105/1ग/च, 108/2, 110/1, 110/3, 111, 56/1, 56/5, 56/4, 56/6, 54, 56/8 क, 56/9, 56/8 ख, 127/1, 129/1/1, 126, 129/1/2, 124/1, 124/2, 132, 119, 118/1, 118/2, 116, 113/1, 113/3
सीहोर	आष्टा	किलेरामा	31/1, 29/3, 29/4, 30/1, 22/1, 21, 19/3, 15/1, 15/3, 14/2, 40/2, 39/1, 40/1, 41, 58/1, 58/2, 58/3, 55/4, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 64/1, 65/1, 67/1, 67/2, 70/1, 71/1, 31/8, 31/4, 31/3, 30/3, 35, 36, 37/2, 86, 85, 82/1, 81, 82/3, 80/1, 80/4, 80/10, 80/9, 80/8, 77, 76/1, 76/2, 75/5, 75/2, 75/3, 75/6, 75/1, 75/4, 73/2, 73/1, 72	31/1, 29/3, 29/4, 30/1, 23/1, 22/1, 21, 19/3, 15/1, 16, 14/1, -, 14/2, 13, 40/2, 39/1, -, 41, 42, 58/1, 58/2, 58/3, 55/4, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 64/1, 65/1, 67/1, 67/2, 70/1, -, 31/8, 31/4, 31/5, 31/3, 32, 30/3, 35, 36, 37/2, 86, 85, 84, 82/1, 81, 82/3, 80/2, 80/1, 80/4, 80/10, 80/9, 80/8, 77, 76/1, 76/2, 75/5, 75/2, 75/3, 75/6, 75/1, 75/4, 73/2, 73/1, 72
सीहोर	आष्टा	शहबाजपुरा	72, 59/2, 56, 55, 54, 56, 87, 88/1, 72, 73, 78, 79, 51, 52, 48, 47, 46, 87, 88/1, 89/1	72, 59/2, 56, 55, 54, 56, 87, 88/1, 72, 73, 78, 79, 51, 48, 47, 46, 87, 86, 88/1, 89/1
सीहोर	आष्टा	डोराबाद	43, 42, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 93, 94, 186/114, 944/2, 43, 48, 45/2, 46, 38, 37, 91, 93, 94, 186/114	42, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 93, 94, 186/114, 188/114, 944/2, 43, 48, 45/2, 46, 37, 91, 93, 92, 94, 186/114
सीहोर	आष्टा	काजीखेडी	118/1, 118/2, 140/1, 152/1, 151/4, 151/3, 159, 160, 172, 171, 170/3, 169, 118/1, 118/2, 140/1, 141/1, 152/2, 151/4, 151/3, 150, 172, 171, 170/2, 169	117/2, 118/2, 140/1, 152/1, 151/4, 151/3, 159, 160, 172, 171, 170/3, 169, 118/1, 120, 118/2, 119, 141/1, 141/2, 147/1, 151/4, 151/3, 149/1, 150, 172, 171, 170/2, 170/1, 169, 174
सीहोर	आष्टा	अलीपुर	5/2, 11/1, 11/2, 12, 15, 16/2, 20, 19, 21, 22/2, 23/1, 41, 40/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 14, 20, 44/1, 22/2, 44/2, 22/1, 23/1, 41	5/2, 11/1, 11/2, 12, 15, 16/2, 20, 18/2, 19, 21, 22/2, 23/1, 41, 40/2, 12, 13/2, 13/1, 14, 20, 44/1, 22/2, 44/2, 22/1, 23/1, 41
सीहोर	आष्टा	बहादुरपुरा	3/1 क, 3/2, 3/1, 195/3/1, 3/2, 195/3/2, 3/1, 195/4, 196/7, 3/1, 195/5, 8/1, 8/2, 8/3 क, 10, 9/1, 16, 17/1, 6/2, 9/3, 19/1, 9/3, 19/4, 9/3, 19/5	3/1 क, 3/2, 3/1, 195/3/1, 3/2, 195/3/2, 3/1, 195/4, 3/1, 195/5, 8/1, 8/2, 8/3 क, 10, 9/1, 16, 17/1, 16, 17/2/2, 9/3, 19/1, 9/3, 19/4, 9/3, 19/5, 9/3, 19/6, 9/3, 19/8
सीहोर	आष्टा	मालीपुरा	33, 36, 37, 221/64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76/2/3, 76/1क/5, 76/1ख/5, 78	33, 36, 37, 221/64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76/2/3, 76/1क/5, 76/1ख/5, 78
सीहोर	आष्टा	चांचरसी	5/7, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/3, 8/2, 16, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12	5/7, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/3, 8/2, 16, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	पगारियाचोर	3, 3/1/2 क, 3/1/3, 3/25, 738/4/5, 738/4/4, 738/4/6, 307/1ख/3, 307/1/1, 100/1, 100/2, 101, 79/3, 79/1, 79/4, 79/2, 78/1, 76/1, 76/2, 75/2, 75/3, 70, 68,69/1, 68,69/2, 68,69/3, 67/1, 66/3, 26,27/7, 26,27/8, 26, 27/4, 28/2, 722/49, 47, 46, 309, 307/1ख/2, 307/3, 100/1, 101	3, 3/1/2 क, 3/1/3, 3/25, 738/4/5, 738/4/4, 738/4/3, 738/4/6, 307/1ख/3, 307/1/1, 100/1, 100/2, 101, 79/3, 79/1, 79/4, 79/2, 78/1, 76/1, 76/2, 77, 75/2, 75/3, 74, 70, 68,69/1, 68,69/2, 67/1, 66/3, 26,27/7, 26,27/8, 26, 27/4, 28/2, 722/49, 49, 47, 46, 309, 307/1ख/2, 307/2, 307/3, 100/1, 101
सीहोर	आष्टा	मिर्जापुर	14/2	14/2
सीहोर	आष्टा	चिरनोटा	140/1, 148/1, 149/1/2, 151/1 ख, 151/2, 152/1/1ग, 536/1/ क/1/2, 536/1/ क/2, 536/3/9 क, 536/5/3/9 ख, 536/5/3/2, 138/4, 139, 140/1-148/1-149/1/6, 140-148/1-149/1/2, 140/3 , 148/1, 140/1-148/1-149/1/3, 140/1-148/1-149/1/4, 151/1 क 4, 151/1 ख, 151/2, 152/2 क, 152/2 ख, 152/2 ग, 152/2 घ, 536/1 क 2, 536/1 क 6, 536/5/2, 536/5/3/2, 536/5/3/3, 534/1-534/2/1 क, 144/1/1, 144/1/2, 144/2, 144/3, 542/145 क, 542/145 ख, 542/145 ग, 542/145 घ, 542/145 ङ	140/1, 148/1, 149/1/2, 151/1 ख, 151/2, 152/1/1ग, 536/1/ क/1/2, 536/1/ क/2, 536/3/9 क, 536/5/3/9 ख, 536/5/3/2, 138/4, 139, 140/1-148/1-149/1/6, 140-148/1-149/1/2, 140/3, 140/1/8, 140/1/9, 148/1, 140/1-148/1-149/1/3, 140/1-148/1-149/1/4, 151/1 क 4, 151/1 ख, 151/2, 152/2 क, 152/2 ख, 152/2 ग, 152/2 घ, 536/1 क 2, 536/1 क 6, 536/5/2, 536/5/3/2, 536/5/3/3, 534/1-534/2/1 क, 534/1-534/2 ख, 144/1/1, 144/1/2, 144/2, 144/3, 542/145 क, 542/145 ख, 542/145 ग, 542/145 घ, 542/145 ङ
सीहोर	आष्टा	हकीमपुर	419/1/1, 477/1/5/1, 477/1/1, 477/5/1, 477/5/2, 479	419/1/1, 477/1/5/1, 477/1/1, 477/5/1, 479
सीहोर	आष्टा	रूपेटा	1/2, 1/1, 167/1/24, 3/1	1/2, 1/1, 167/1/24, 3/1
सीहोर	आष्टा	फूडरा	709/13/1, 711, 709/1/2, 711, 709/13/3	709/13/1, 711, 709/1/2, 711, 709/13/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	डोंडी	351/6 ख, 351/6 क 351/7, 351/6/1 क, 351/6 च, 353/1 घ, 353/1/1/1/1, 353/1/1/1/2, 353/21/1, 353/18/1, 353/5/1, 353/6/1, 353/15/1, 353/14/1, 353/13, 353/1/2, 353/24/1, 353/24/5, 353/24/4, 73/2, 73/1, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3, 84/2, 84/1, 85/1-87/2, 87/1/1/1, 87/1/1/1/3, 88/1, 90/2, 90/7, 90/6, 90/4, 92/1, 94/1, 94/2, 251/6, 251/5, 251/4, 254-255-256/1 घ, 254-255-256/1 क, 256/14, 260/1, 262/5/1, 336/248, 349/2, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 277, 273, 275, 274-279, 251/8, 257/1, 257/2, 257/3, 260/4, 260/2, 339-345/1, 339-345/2, 346/1, 346/2, 347/1/1, 349/4, 355/2/1, 355/2/2, 355/3/1, 355/3/3, 355/3/4, 355/5/1, 355/5/3, 355/5/2, 355/5/6, 355/7, 355/8, 353/14/3, 353/24/3, 355/17/1, 355/17/2	351/6 ख, 351/6 क 351/7, 351/6/1 क, 351/6 च, 351/6 छ, 353/1 घ, 353/1/1/1/1, 353/1/1/1/2, 353/21/1, 353/4, 353/18/1, 353/5/1, 353/9, 353/2/1/1, 353/6/1, 353/15/1, 353/14/1, 353/13, 353/1/2, 353/24/1, 353/24/5, 353/24/4, 73/2, 73/1, 74/2, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3, 84/2, 84/1, 85/1-87/2, 89/4, 88/1, 90/1, 90/2, 90/4, 92/1, 97, 94/2, 94/2, 251/6, 251/5, 251/4, 251/3, 254-255-256/1 घ, 254-255-256/1 ख, 254-255-256/1 क, 256/14, 256/16, 260/1, 262/3, 262/5/1, 336/248, 349/2, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 277, 276, 273, 275, 274-279, 251/8, 257/1, 257/2, 257/4, 257/3, 258, 260/4, 292, 243, 240-241, 339-345/1, 339-345/2, 339-345/6, 339-345/5, 339-345/4, 338, 336/1, 346/2, 347/1/1, 349/4
सीहोर	आष्टा	काकरियाखेडी	351/6 ख, 351/6 घ, 351/6 च, 233-235/8, 233-235/2, 234/3, 233-235/3, 233-235/4, 233-235/5, 233-235/6, 233-235/7, 236, 237/2, 238/9, 238/8, 238/7, 238/10, 238/6, 238/5, 246/1/1, 244/1/1/2, 244/1/1/1, 244/17, 244/16	351/6 ख, 351/6 घ, 351/6 च, 233-235/8, 233-235/2, 234/3, 233-235/3, 233-235/4, 233-235/5, 233-235/6, 233-235/7, 236, 237/2, 238/9, 238/8, 238/7, 238/10, 238/6, 238/5, 246/1/1, 244/1/1/2, 244/1/1/1, 244/17, 244/16
सीहोर	आष्टा	झिलेला	9, 10/2, 9, 10/1, 7-31/2, 17, 19, 21, 23, 24, 26/3, 22, 28, 29, 52, 67, 66, 65, 68/3, 68/1, 69, 72, 72/2, 73, 75, 76, 110/1, 112, 113, 110/2, 108, 109, 114/2/6, 108, 109/5, 114/2/4, 107/1/1, 107/1/2, 106/1/1 क, 106/1/1 ख, 106/1/2, 106/1/3, 106/1/4, 106/1/5, 106/1/6, 106/1/7, 105/1, 103/1, 105/1, 104, 99, 100/1, 99, 100/2, 99, 100/3, 98/1, 98/2, 98/3, 96, 94/2, 94/1, 93/4, 92/1, 92/2, 93/3, 92/3, 93/1, 90/2, 90/1, 89, 88/1, 87/1, 78-85-86/10, 78-85-86/9, 78-85-86/8, 78-85-86/7, 78/1ख, 78/1क, 78/2क, 79	9, 10/2, 9, 10/1, 7-31/2, 17, 19, 21, 23, 24, 26/3, 22, 28, 29, 52, 67, 66, 65, 68/3, 69, 72, 72/2, 73, 74, 75, 76, 110/1, 112, 113, 110/2, 108, 109, 114/2/6, 108, 109, 114/2/3, 107/1/1, 107/1/2, 107/2, 106/1/1 क, 106/1/1 ख, 106/1/2, 106/1/3, 106/1/4, 106/1/5, 106/1/6, 106/1/7, 103/1, 105/1, 105/1, 104, 99, 100/1, 99, 100/2, 99, 100/3, 99, 100/5, 98/2, 98/3, 96, 94/2, 94/1, 95, 92/1, 92/2, 93/3, 92/3, 93/1, 93/2, 91/1, 91/2, 90/2, 90/1, 89, 88/1, 88/2, 87/2, 87/1, 210, 78-85-86/10, 78-85-86/9, 78-85-86/8, 78-85-86/7, 80-86/2ख, 78-86/2ग, 78/1ख, 78/1क, 78/2क, 79
सीहोर	आष्टा	भारुखेडी	31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 33/1, 36/1 क, 37, 58, 56, 60, 61, 55, 62, 64, 65, 66, 67	31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 33/1, 36/1 क, 37, 58, 56, 60, 61, 55, 62, 64, 65, 66, 67

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	गुराडिया बांड़ा	3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 5, 7/2, 8/2, 9/3, 10/2, 11/1, 11/2, 282/2/1, 282/2, 282/2 ख, 282/3, 282/12, 37/3, 37/2, 41/1, 41/2, 42, 40-59/1, 60/2, 39/2, -, 39/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70-71-72/1, 70-71-72/2, 70-71-72/3, 73/1, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95-94/3, 281/192, 191, 192	3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 5, 7/2, 8/2, 9/3, 10/2, 10/1, 11/2, 11/3, 282/2/1, 282/2, 282/3, 282/12, 37/3, 37/2, 41/1, 41/2, 42, 44, 43, 40-59/1, 60/2, 39/2, 61, 39/1, 69/1, 68/3, 69/2, 69/3, 70-71-72/1, 70-71-72/2, 70-71-72/3, 73/1, 73/2, 92/1, 92/3, 92/2, 93, 94/1, 91/1, 94/2, 95-94/3, 281/192, 191, 192, 193/1
सीहोर	आष्टा	भावखेड़ा	69, 70/1, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 74/1 ग, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 75, 76/2, 79, 80, 81/1, 126, 127, 128/1/1	69, 70/1, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 74/1 ग, 72, 73/1, 74/1 ख, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 75, 76/2, 78, 79, 80, 81/1, 126, 127, 128/1/1
सीहोर	आष्टा	शेखूखेड़ा	450, 455, 462/2, 463, 464, 441/2, 441/1/2, 441/1/1, 442, 591/441, 598/439/4, 598/439/1, 437/3, 437/2, 436/2, 437/1 क, 435/3 क, 435/3 ख, 435/2, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322, 327, 328/2, 332/2, 330, 343/2, 345, 344/1, 374/345, 576/348/2 ख, 348/1/2 ख, 348/3, 349/348/578, 350/2, 359, 363, 364/1, 364/2/2, 360, 361, 362, 363, 364/1, 634/2/10, 363, 364, 364/2/1 ख, 363, 364/1 364/2/1 ग, 366, 417, 412, 413/2/1, 412, 413/2/2, 476/1, 476/3, 476/4, 472, 473, 471, 470/1, 470/2, 470/3470/4 468/1 467, 466, 500, 501, 504, 594/505/2, 594/505/1, 505/5 ग, 505/5 ख, 513, 514, 515, 430, 429, 431, 428, 426/1, 425, 426/3, 427/1, 426, 427, 425/4, 423/2, 421/3, 420/6, 596/420/1/1, 420/1, 596/420, 420, 596/420/1/2, 420, 596/420/1/3, 420/4, 420/5, 420/2, 420/16, 420/8, 420/12, 584/420/2, 535/420	450, 455, 462/2, 462/1, 457/3, 463, 464, 441/2, 441/1/2, 441/1/1, 442, 591/441, 439/2, 598/439/4, 598/439/1, 437/3, 436/1, 437/2, 436/2, 437/1 क, 436/3 क, 436/3 ख, 435/3 क, 435/3 ख, 435/2, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322, 327, 328/2, 328/1, 332/2, 332/1, 330, 343/2, 345, 344/1, 374/345, 576/348/2 ख, 348/1/2 ख, 348/3, 349/348/578, 350/2, 359, 363, 364/1, 364/2/2, 360, 361, 362, 363, 364/1, 634/2/10, 363, 364, 364/2/1 ख, 363, 364/1 364/2/1 ग, 366, 417, 414/1/1, 412, 413/1, 412, 413/2/1, 412, 413/2/2, 476/1, 476/3, 476/4, 472, 473, 471, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 468/1, 467, 466, 500, 501, 504, 594/505/2, 594/505/1, 505/5 ग, 505/5 ख, 513, 514, 515, 430, 429, 431, 428, 426/1, 425, 426/3, 427/1 426, 427, 425/4, 423/2, 421/3, 420/6, 596/420/1/1, 420/1, 596/420, 420, 596/420/1/2, 420, 596/420/1/3, 420/4, 420/5, 420/2, 420/16, 420/8, 420/12, 584/420/2, 535/420
सीहोर	आष्टा	गुराडिया माण्डा	14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26/1 ख, 1, 43/1 क, 44/1, 44/2, 46/6, 66/5, 66/4, 63, 64/1/क/1, 63, 64/1/क/2, 68, 69, 70, 71, 132/72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 97/2, 98/3, 98/2, 98/1 ख, 98/1 क, 118, 119/3, 119/1, 119/2, 120/4, 120/1, 134/122, 122/5	14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26/1 ग/2, 43/1 क, 44/1, 44/2, 66/5, 66/4, 63, 64/1/क/1, 63, 64/1/क/2, 68, 69, 70, 71, 132/72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 97/2, 97/1, 98/3, 98/2, 98/1 ख, 98/1 क, 118, 119/3, 119/1, 119/2, 120/4, 120/1, 134/122, 122/5

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	मेहतवाडा	458, 456, 445/2, 444, 443, 442, 441, 440, 437/2, 432/1, 430, 429, 420, 421, 418, 415, 414/1, 413, 1318/412, 409, 204, 202, 205, 206, 249, 250, 248, 247/1, 246, 255, 233, 232, 1295/259, 311, 310, 307, 308, 309, 347, 352, 354, 1117, 1119, 1122, 1199/2, 1124, 1096, 1124, 1095, 1127, 1130/1, 1130/2, 1132, 1133, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 441, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 492/1, 491/1, 491/2, 494, 496/1, 496/2, 495, 498, 499, 400, 502, 503, 135/504, 504, 537, 538, 411/3, 411/2, 411/5, 410/2, 406/1, 406/2, 407/2, 407/3, 203/1, 203/2, 203/3, 205, 1207/251/1, 251/2, 251/1, 255/2, 255/1, 254, 256, 223/2, 257, 239, 259, 260, 258, 316/1, 312, 310/2, 313, 346, 350/1, 350/2, 347/1, 347/2, 352/1, 352/2, 354/2, 1115/1, 1115/2, 1114/1, 1119, 1109/1, 1109/2, 1120-1121/2, 1100/1, 1100/2, 1098, 1094, 1097, 1087, 1150, 1149, 1148/1, 1147/1, 1143, 1142, 1141, 1140-1142-1143-1144-1145/1, 1138/2, 1038/1	458, 456, 455, 445/2, 451, 1319/446, 444, 443, 442, 440, 437/2, 432/1, 433, 434, 429, 428, 421, 418, 415, 414/1, 413, 414/2, 1318/412, 409, 202, 201, 206, 249, 248, 246, 255, 233, 232, 1295/259, 311, 307, 308, 309, 347, 352, 11/8, 354, 1122, 1199/1, 1124, 1096, 1124, 1095, 1127, 1126, 1131/2, 1130/1, 1132, 1133, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 441, 460-462/3, 460-462/2, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2487/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 492/1, 492/2, 491/2, 493, 494, 496/1, 496/2, 495, 497, 498, 499, 400, 501, 502, 505, 135/504, 504, 537, 538, 544/1, 411/2, 411/5, 410/2, 406/1, 406/2, 407/2, 407/3, 203/1, 203/2, 203/3, 205, 1207/251/1, 1207/251/2, 251/2, 251/1, 251/3, 254, 256, 223/2, 257, 239, 260, 258-316/2, 258-316/1, 312, 313, 346, 350/1, 350/3, 350/4, 347/1, 352/1, 351, 1299/352, 354/2, 1115/1, 1115/2, 1114/1, 1114/2, 1119, 1109/1, 1109/2, 1120-1121/2, 1100/1, 1100/2, 1101/1, 1098, 1094, 1097, 1087, 1150, 1149, 1147/1, 1143, 1142, 1141, 1140-1142-1143-1144-1145/1,
सीहोर	आष्टा	कुडिया धागा	498/3, 498/2, 498/4, 500/1/1, 500/5/2, 500/3, 501, 502/3, 498/5, 500/5/2, 501, 502/1/5, 501, 502/1/2, 501, 502/1/2/3	498/3, 498/1, 498/2, 498/4, 500/1/1, 500/5/2, 500/3, 501, 502/3, 498/5, 500/5/2, 501, 502/1/5, 501, 502/1/2, 501, 502/1/2/3
सीहोर	आष्टा	सेमलीवारी	298/111 15/1/1 15/1/3 ख 15/1 16/2 18/1 19 25/2 25/3 29 30 31 32 33 34 35 27/1 37 39/1 41 42 48 47 52 103, 104/2 103, 104/1, 94, 100/2, 111/4, 111/2, 304/111, 114, 140/1, 140/2, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 147, 148-149/1, 148-149/2, 219, 229/1, 229/2, 227-230/1, 227-230/2, 231/2/1, 232/1, 232/2, 233, 103-104/1, 103-104/3, 102/2/2 ख, 101, 99/3	298/111, 15/1/1, 15/1/3 ख, 15/1, 15/2, 16/2, 16/1, 18/1, 19, 24, 25/2, 25/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 27/1, 37, 39/1, 43, 42, 44, 47, 52, 53, 103, 104/2, 103, 104/1, 94, 111/4, 111/2, 304/111, 301/111, 300/111, 114, 140/1, 140/2, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 145, 147, 148-149/1, 148-149/2, 219, 229/1, 229/2, 227-230/1, 227-230/2, 226/1, 231/2/1, 231/2/2, 232/1, 232/2, 233, 236, 103-104/1237/2 103-104/3 102/22 ख 100/1 101 99/3
सीहोर	आष्टा	पगारियाराम	311/2, 311/1, 3/4, 109, 64, 63, 62, 61, 60, 59/1, 56, 723/56, 55, 54, 52, 53	311/2, 311/1, 3/4, 109, 63, 62, 61, 60, 59/1, 56, 723/56, 54, 52, 53
सीहोर	इछावर	भाड़ाखेड़ी	94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 99, 106, 107, 108, 113/8, 129/1, 129/3, 125, 126	94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 99, 106, 107, 108, 113/8, 129/1, 129/3, 125, 126

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	इछावर	अमलाहा	292/1, 292/2/1, 292/2/2, 300/1/2, 300/2, 300/1/6, 301, 302/2/2, 303, 336, 337, 332/5, 271/1, 271/4/1, 271/4/3, 271/4/2, 271/4/1, 270/1, 269, 268, 266, 265, 251, 215, 214, 213, 212, 210, 208, 205/9, 205/8, 205/1, 204, 205/2/1, 205/2/2, 203/1, 203/2, 203/3, 202, 201/2, 201/1, 354/1, 354/2, 354/3, 354/5, 352/1/4, 352/2, 352/1/3, 353, 351, 347, 348/1/1, 348/1/2, 348/2, 348/3, 346/1, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 344/1, 344/3, 343, 338, 342, 385, 400, 402, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/12, 408, 409, 450, 451, 452, 453, 454, 456/1, 476/1, 494, 495, 498, 500, 508/1	292/1, 292/2/1, 292/2/2, 300/1/2, 300/2, 300/1/6, 301, 302/1/4, 302/1/1, 303, 336, 337, 332/2, 332/3, 332/5, 271/1, 271/4/1, 271/4/3, 271/4/2, 271/4/1, 270/1, 269, 268, 266, 265, 251, 215, 214, 213, 211, 212, 210, 208, 205/9, 205/8, 205/1, 205/2/1, 205/2/2, 203/1, 203/2, 203/3, 202, 201/2, 201/1, 354/1, 355/1, 354/2, 354/3, 354/5, 354/6, 352/1/4, 352/2, 352/1/1, 352/1/3, 353, 348/1/1, 348/1/2, 348/2, 348/3, 346/1, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 344/1, 344/3, 343 - 342, 341, 340/3, 340/2, 340/1, 385, 400, 402, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/12, 407/13, 408, 409, 450, 451, 452, 453, 455/3, 455/1, 456/1, 476/1, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 508/1
देवास	सोनकच्छ	दौलतपुर	503, 504, 505, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 473/1, 473/5, 473/7, 473/2, 472, 471/6, 471/5, 471/4, 471/3, 471/2, 470, 443, 442, 438, 427, 425, 426, 387, 386, 385, 384, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 362, 361, 359, 358, 357, 356, 354, 353, 352/2, 352/1, 351/1, 351/2, 350, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 794, 795, 797, 798, 799, 803, 804/1, 804/2/1, 804/2/2, 805/1, 805/2, 805/3, 806/3, 806/2, 806/1, 807, 850, 532, 531, 534, 535, 536, 548, 549/1, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 561, 562, 622, 623/1, 623/2, 624, 626, 627, 633, 634, 698, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 717, 716, 732/1/2, 792/1, 792/2, 793, 794	503, 504, 505, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 473/1, 473/7, 473/2, 472, 471/6, 471/5, 471/4, 471/3, 471/2, 470, 443, 442, 387, 384, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 362, 361, 359, 358, 357, 356, 354, 353, 352/1, 351/1, 351/2, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 794, 795, 797, 798, 799, 803, 804/1, 804/2/1, 804/2/2, 805/1, 805/2, 805/3, 806/3, 806/2, 806/1, 807, 850, 532, 531, 533, 534, 535, 537, 548, 549/1, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 561, 562, 622, 623/1, 623/2, 624, 626, 627, 633, 634, 698, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 718, 717, 716, 732/1/2, 792/1, 791, 792/2, 793, 794, 716, 425, 387

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	अगेरा	377, 451, 453, 456, 458, 459, 463, 465, 466/3, 466/2, 467, 470, 471, 472, 162, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483/3, 355/1, 356/1, 357/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 369/1, 370/1, 377/1/2, 378, 379/1, 452/1, 451/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 460, 463/1, 465/1, 466/3/1, 466/4, 466/2/1, 467/1, 470/1/1, 471, 473, 474, 475, 481/1, 482/1/1, 482/2/1, 482/3/1, 483/1/1, 483/2/1, 483/3/1, 485, 486, 488, 489, 505, 506, 512, 516, 517, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583/1, 587, 588/3, 589/1, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 605	377, 451, 453, 456, 458, 459, 463, 465, 466/3, 466/2, 467, 470, 162, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483/3, 355/1, 356/1, 357/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 369/1, 370/1, 371/1, 377/1/2, 378, 379/1, 452/1, 451/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 460, 463/1, 465/1, 464/2, 466/3/1, 466/4, 466/2/1, 466/1, 467/1, 468/2, 469/2, 470/1/1, 471, 473, 474, 475, 481/1, 482/1/1, 482/2/1, 482/3/1, 480/3, 483/1/1, 483/2/1, 483/3/1, 485, 486, 488, 489, 505, 506, 507, 512, 516, 517, 518, 519, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583/1, 583/2, 587, 588/3, 589/1, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 605
देवास	सोनकच्छ	पिलवानी	115, 116, 117, 119, 118, 128, 129, 130, 161, 206, 207/1, 207/2, 207/3, 208, 210, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 253, 254, 255, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 216	113/1, 115, 116, 117, 114, 113/2, 119, 118, 128, 129, 130, 161, 206, 207/1, 205, 207/2, 207/3, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 218, 219/1, 219/2, 229/2, 229/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 216
देवास	सोनकच्छ	कराडिया गढ़ा	686/1, 690/1, 612, 611/3, 610/1, 608/1, 605, 602/1, 599/1, 598/1, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 532/1, 675/3, 697, 693, 694, 695, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 754, 758, 759, 762/1, 762/2, 772, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2	686/1, 688, 690/1, 613, 614, 612, 611/1, 611/3, 610/1, 608/1, 607, 605, 603, 601, 602/1, 599/1, 598/1, 595/4, 595/3, 597/1, 596, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 539, 532/1, 675/3, 697, 693, 694, 696, 695, 701, 703, 702, 704, 705, 715, 706/1, 706/2, 754, 758, 759, 760, 762/1, 762/2, 773, 772, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2
देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छी	11, 12, 13, 14, 48, 52, 53, 59, 60, 60, 71/1, 71/2, 71/3, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 183, 11/1, 12/1, 13/1/2, 14/2, 48/1, 52/1, 53/1, 59/1/2, 60/1, 70/1, 72/1, 72/2, 175/1, 176/1, 178/1, 179/1, 181/1, 182/1, 184/1, 101/1	11, 12, 13, 14, 48, 52, 53, 59, 60, 61, 60, 71/2, 71/3, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 183, 11/1, 12/1, 10/2, 13/1/1, 10/1, 14/2, 48/1, 47, 49, 52/1, 53/1, 54, 59/1/2, 60/1, 61, 70/1, 72/2, 175/1, 176/1, 178/1, 179/1, 180, 181/1, 182/1, 183, 184/1, 101/1
देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छ	358/1, 358/2, 356/1, 353/3, 352/6, 352/1, 265/2, 266/4, 266/1, 266/2, 329/1, 266/3, 268, 328/1, 273, 274/1, 276/2, 277/1, 277/2, 272/1, 322/1, 321, 307/2, 307/1, 601, 602/1, 605, 604/3, 604/2, 625, 626, 624, 627	358/1, 358/2, 356/1, 353/3, 352/6, 352/1, 265/2, 266/4, 266/1, 266/2, 329/1, 266/3, 268, 328/1, 273, 274/1, 276/2, 277/1, 277/2, 272/1, 322/1, 321, 307/2, 307/1, 601, 602/1, 605, 604/3, 604/2, 625, 626, 624, 627

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	सांवेर	77/1, 77/2, 252/2, 253/3, 253/1, 254, 256/1, 255, 258, 259, 260, 261/1, 262/1, 269/1, 268, 270/1, 280/2, 280/3, 282/1, 283/2, 284, 292/1, 293/1, 294/1, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 135/1, 139/2, 140/2, 140/1, 249, 250, 248, 247, 241, 242, 245, 476/1, 477/1, 478/1, 481, 486/2, 486/1, 454/1, 428, 379/2, 379/1, 379/3, 380/1, 381, 417/1, 416/1, 415/1-414/1, 407, 406, 546/1, 295/3, 276/3, 477/3, 478/4, 487, 486/3, 491, 454/3, 418/1, 427, 426, 424, 425, 419, 417/3, 414/3, 545/3, 546/3	77/1, 77/2, 252/2, 253/3, 253/1, 254, 256/1, 255, 258, 259, 260, 261/1, 262/1, 263, 269/1, 268, 270/1, 280/2, 280/1, 280/3, 282/1, 283/1, 283/2, 284, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 135/1, 139/2, 140/2, 140/1, 249, 250, 248, 247, 241, 242, 245, 476/1, 477/1, 478/1, 479, 481, 486/2, 484, 486/1, 485, 454/1, 428, 379/1, 379/3, 380/1, 381, 382, 417/1, 416/1, 415/1-414/1, 412/1, 413, 407, 406, 405, 404, 546/1, 295/3, 276/3, 477/3, 478/4, 487, 486/3, 489, 491, 454/3, 427, 426, 424, 425, 419, 417/3, 420, 414/3, 545/3, 546/3
देवास	सोनकच्छ	रोलूपिपलिया	1040, 1041, 1042, 738, 1045, 1044, 1043, 1047, 1050, 1053, 1026, 1056, 1058, 1062, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1070, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092/2, 1092/1, 1093, 1040/1, 1034, 1041/1, 1033/1, 1033/2, 1042/1, 1043/2, 1044/1, 1031, 1045/1, 1047/1, 1050, 1052/1, 1051, 1053/1, 1026/1, 1056/1, 1057, 1058/1, 1062/2, 1064/1, 1063, 1065/3, 1067/1, 1067/3, 1070/1, 1071/1, 1079/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094/1, 1097, 1098, 1099, 1100, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1157, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/1, 1201/3, 1208, 1209, 1210, 1211, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234	1040, 1041, 1042, 738, 1045, 1044, 1043, 1047, 1050, 1053, 1026, 1056, 1058, 1062, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1070, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092/2, 1092/1, 1093, 1040/1, 1034, 1041/1, 1033/1, 1033/2, 1042/1, 1043/2, 1044/1, 1031, 1045/1, 1046, 1029, 1050, 1052/1, 1051, 1026/1, 1057, 1058/1, 1062/2, 1062/1, 1063, 1065/4, 1066/2, 1066/3, 1067/1, 1070/1, 1069, 1072, 1073, 1074, 1079/1, 1078, 1080/1, 1090/1, 1089, 1091/1, 1092/1, 1093, 1094/1, 1087, 1097, 1098, 1099, 1100, 1124, 1122, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1134, 1135, 1137, 1136, 1138, 1157, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/1, 1201/3, 1208, 1209, 1214, 1210, 1213, 1212, 1211, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1237/2, 1235/2,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	फावड़ा	155, 156, 157, 167, 168, 169, 170, 176, 175, 177, 174, 184, 185, 186, 187, 193, 192, 195, 194, 196, 199, 234, 233, 231, 230, 243, 245/1, 247, 287, 292, 294, 295, 296, 317, 319, 314, 649, 648, 647, 646, 642, 641, 627, 626, 625, 624, 623/1, 623/2, 622, 570, 569, 568, 567/1, 567/2, 567/3, 566/1000, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 562/1002, 559, 555, 554, 553, 552, 551, 402, 400, 399, 397, 398, 396, 395, 394, 358, 321, 322, 323,	155, 156, 157, 158, 167, 168, 166, 169, 170, 176, 177, 178, 174, 184, 183, 185, 186, 187, 188, 193, 192, 194, 196, 199, 234, 247, 287, 292, 294, 295, 296, 317, 319, 314, 649, 648, 647, 646, 642, 641, 627, 628, 626, 625, 624, 623/2, 622, 570, 569, 576, 568, 578, 567/1, 567/2, 567/3, 566/1000, 566, 565, 564, 563, 561, 560, 559, 556, 557, 558, 554, 553, 552, 551, 402, 473, 430, 403, 400, 399, 383, 384, 398, 396, 391, 395, 394, 358, 321, 322, 326, 325, 323,
देवास	सोनकच्छ	अरनिया जागीर	346/765, 304/1, 303, 302, 301, 290, 282/5/1, 268, 363, 362, 359, 355, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 393/4, 393/3, 393/2, 387, 395, 391, 392, 390, 389, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 315, 312, 313, 310, 309, 305, 308, 311, 307, 298, 299, 292, 282/3, 271, 266, 267, 254, 253, 252, 251, 239, 349, 237, 236, 235, 466, 227, 468, 471, 472, 474, 477, 479	346/765, 347, 304/1, 303, 302, 301, 290, 266, 265, 364, 363, 362, 359, 355, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 393/4, 393/3, 393/2, 394, 387, 395, 391, 392, 390, 337, 389, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 315, 312, 313, 310, 309, 305, 308, 311, 111, 307, 297, 298, 299, 296, 292, 293, 282/3, 271, 266, 265, 254, 253, 252, 251, 239, 349, 237, 236, 235, 227, 468, 469, 470, 471, 475, 477, 476, 478, 479
देवास	सोनकच्छ	खोनपिपरिया	197, 195, 194, 192, 188, 187/1, 187/2, 186/1, 186/2, 177/2, 177/3, 176, 175, 174, 171, 170, 169, 166, 165, 164, 154/4, 154/1, 152, 151, 146, 145, 128, 127, 96, 97, 95, 87, 86, 88, 85, 81, 80, 38, 743, 755, 756/1, 756/2, 757, 768, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 751/1	197, 195, 194, 192, 188, 187/1, 186/1, 186/2, 177/2, 177/3, 176, 175, 174, 171, 169, 166, 165, 164, 154/4, 154/1, 152, 151, 146, 145, 128, 127, 96, 97, 95, 87, 88, 85, 81, 80, 38, 743, 755, 756/1, 756/2, 757, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 751/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	भौरासा	462, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 793/2, 493/3, 493/4, 675, 664/2, 665/5, 664/3, 664/4, 646/1, 464/2, 644-645, 643, 638, 629/1, 628/1, 627, 618/4, 618/7, 618/5, 618/1, 619/1, 622/1, 619, 619/3/2, 620/1, 621/2, 622/1, 602, 601/2, 601/1, 600, 598, 1911, 1912/1, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1905/2, 1905/1, 1904, 1980, 1979, 1974/2, 1974/1, 1967/1, 1967/2	462, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 793/2, 493/3, 493/4, 675, 664/2, -, 664/3, 664/4, 646/1, 464/2, 644-645, 643, 638, 629/6, 628/1, 627, 618/4, 618/7, 618/5, 618/1, 619/1, 622/1, 619, 619/3/2, 620/1, 621/2, 622/1, 602, 600, 598, 1911, 1912/1, 1910, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1905/2, 1905/1, 1904, 1980, 1967/1, 1967/2
देवास	सोनकच्छ	सुमराखेड़ी	480, 481, 482, 492, 493/1, 500/1, 500/2, 500/3, 501, 647, 645, 665	456, 480, 481, 482, 492, 493/1, 500/1, 500/2, 500/3, 499, 501, 647, 645, 665, 664, 663, 662, 661
देवास	सोनकच्छ	पिपल्या	199/2, 200/3, 199/1, 203, 204/1, 205/1, 205/3, 208, 209, 290, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 361, 382/1, 382/2, 390, 391, 392, 393, 496, 494, 516, 517, 518, 521, 524, 525, 536, 537, 538, 737/1, 737/2, 740, 741, 802, 811, 800, 812, 799, 798, 781, 782, 783, 785/2, 784	200/2, 200/1, 200/3, 203, 204/1, 205/1, 205/3, 205/2, 207, 224, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 362, 361, 364/1, 382/1, 382/2, 390, 383, 391, 392, 394, 393, 496, 497, 494, 517, 518, 521, 524, 525, 536, 537, 538, 535, 737/1, 737/2, 738, 740, 741, 803, 802, 811, 800, 812, 813, 799, 798, 781, 782, 783, 785/2, 784
देवास	देवास	जामगोद	468, 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 777/2, 777/1, 778, 752, 753, 751, 750/5, 750/4, 750/3, 749/1101, 749, 747/2, 746, 745, 744, 740, 739, 738, 736, 735, 734, 733/1, 100/1, 101, 102, 103, 105, 106, 126/1, 127, 128, 129, 125, 130, 131, 132, 134, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 343, 342, 341, 197, 198, 199, 200, 196, 195, 194/2, 193/1, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 190/2, 190/1, 189/1, 189/2, 188/1, 188/2, 187/1, 187/2, 180/4, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 229, 230, 343, 716, 718, 719, 720, 721, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 795, 794, 793, 792, 790, 789/2/2, 789/2/1, 789/2/3, 788, 781/1, 781/2, 785, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 779/2	468, 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 777/2, 777/1, 778, 752, 753, 751, 750/5, 750/4, 750/3, 749/1101, 749, 747/1, 746, 745, 744, 740, 739, 738, 736, 735, 734, 733/1, 100/1, 101, 102, 103, 105, 106, 126/1, 125, 130, 131, 132, 134, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 343, 342, 341, 197, 198, 199, 200, 196, 195, 194/2, 194/1, 193/1, 205, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 190/1, 189/1, 189/2, 188/2, 187/2, 180/4, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 229, 230, 343, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 795, 794, 793, 799, 791, 792, 790, 789/2/2, 789/2/1, 789/2/3, 788, 787, 781/1, 781/2, 785, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 779/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	देवास	खटंबा	409/1, 405, 408/2, 407/1, 407/3, 392/4, 392/1, 392/2, 392/3, 391/2, 391/3/2, 387, 393/2, 364/3, 364/4, 365/4, 363/1, 363/2, 361/1, 357/2, 360, 359/1, 359/2, 358/2, 339/2, 338/1, 337/1, 334/2/1, 334/1, 332/1, 331, 314/1, 315, 313, 312/1, 309/1, 308/1, 307/1, 311/1, 311/2, 310, 306/2, 275/2, 274/1, 273/1, 272, 271, 278, 269/1, 267/1, 266/2, 266/9, 248, 278/1/3, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/6, 413/5, 413/3, 413/4, 413/2, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 443/2, 443/1, 447, 448, 449, 450, 463, 464, 465, 466, 463, 474, 475/2, 476, 477, 662, 766, 678/1/1, 680/2/1, 680/2/2, 681/1, 682/1, 682/2/1, 697/1/1, 697/4/1, 697/2/1, 698/2, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 762, 753, 752, 755/2, 751, 750, 747/5, 747/2, 749/1, 749/2, 748, 747/1, 747/4, 747/3, 747/2, 742, 741, 740, 737/4/1, 737/4/2/2, 737/4/2/3, 737/4/2/4, 737/4/2/5, 738/1, 738/2, 738/5, 735, 731, 730, 728, 727, 726/2, 726/3, 725, 724, 723, 722, 960/1, 960/2	405, 408/2, 407/1, 407/3, 407/4, 392/1, 392/2, 392/3, 391/2, 391/3/1, 391/3/2, 387, 393/2, 365/2, 364/3, 364/4, 365/1, 365/3, 365/4, 363/1, 363/2, 361/1, 357/2, 360, 359/1, 358/1, 339/2, 339/1, 338/1, 337/1, 334/1, 335, 332/1, 331, 315, 313, 312/1, 309/1, 308/1, 307/1, 311/1, 311/2, 310, 306/2, 305, 276, 277, 278, 269/1, 267/1, 266/2, 266/9, 248, 278/1/3, 278/1/2, 411/1, 411/2, 412, 428, 429/1, 229/2, 413/1, 413/6, 413/5, 413/3, 426, 425, 413/4, 413/2, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 443/2, 443/1, 447, 446, 450, 451, 463, 462, 464, 465, 466, 463, 474, 475/2, 476, 477, 478, 662, 766, 678/1/1, 680/2/1, 680/2/2, 681/1, 682/1, 682/2/1, 697/1/1, 697/4/1, 697/2/1, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 763, 762, 753, 754, 755/1, 755/2, 751, 746, 745, 747/2, 747/1, 747/4, 747/3, 747/2, 742, 741, 740, 737/4/1, 737/4/2/2, 737/4/2/3, 737/4/2/4, 737/4/2/5, 738/1, 738/2, 738/5, 735, 736/2, 736/1, 734, 733, 732/1, 732/2, 731, 730, 728, 727, 726/2, 726/3, 725, 724, 723, 722, 960/1, 960/2
देवास	देवास	जेतपुरा	88/3, 88/4, 89, 90, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/1, 106/2, 106/3, 106/4, 105, 146/2, 147/1, 147/3, 147/2, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 151/1, 151/2, 153/2, 154/5, 154/2, 156, 372/509, 372/2, 372/1, 372/3, 368/1, 368/2, 367, 365, 364, 357, 350, 349, 348/2, 348/1, 348/1/1, 348/1/2, 348/1/4, 348/1/3, 347/1, 345/2, 345/1, 344/1, 380/2, 380/3, 380/4, 379/2, 380/6, 379/2, 379/1, 379/2, 379/5, 378, 376, 375, 374, 382/7, 384, 411, 413, 414, 416, 417/1, 380/5, 417, 433, 432, 434, 435, 471/3, 471/2, 472, 474, 475, 497, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 501/5, 502/4, 502/1/1, 502/2/1, 502/3, 506	88/1, 88/3, 88/4, 88/2, 89, 90, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/1, 106/2, 106/3, 106/4, 105, 146/2, 146/1, 147/1, 147/3, 147/2, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 151/1, 151/2, 153/2, 154/5, 153/3, 154/2, 154/4, 156, 372/509, 372/2, 372/1, 372/3, 368/1, 368/2, 367, 365, 364, 357, 350, 349, 348/2, 348/1, 348/1/1, 348/1/2, 348/1/4, 347/1, 345/2, 345/3, 345/1, 344/1, 380/2, 380/3, 380/4, 379/2, 380/6, 379/2, 379/1, 379/2, 379/5, 378, 376, 377, 375, 374, 382/7, 384, 411, 413, 414, 416, 417/1, 380/5, 417, 418, 432, 434, 435, 471/2, 471/1, 472, 474, 476, 475, 497, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 501/5, 502/4, 502/1/1, 502/2/1, 502/3, 506

V)

“खण्ड—अ”

अधिसूचित मार्ग का नाम	संपूर्ण लंबाई कि.मी. में	राजमार्ग में आने वाले जिले
लेबड़-मानपुर एस.एच.-31	34.30	धार, इन्दौर

“खण्ड — ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	लेबड़	253/4/1, 253/3/1, 256/1, 255	253/4/1, 253/3/1, 256/1, 255
धार	धार	कलसाडा खुर्द	279/2/3, 279/1/1, 285/1/1, 287/1, 289/2/1, 331/1, 332/1, 329/2, 398/1, 399, 400, 401, 1, 2, 3/1, 4/1, 404/1, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 323, 324, 288, 265/1, 279/2, 279/2/1/1, 279/2/2, 279/1/1/2	279/2/3, 279/1/1, 285/1/1, 285/2, 287/1, 289/2/1, 331/1, 332/1, 329/2, 343, 343/9, 414, 394/1, 396/1, 398/1, 399, 400, 401, 1, 2, 3/1, 4/1, 404/1, 404/2, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 323, 324, 288, 265/1, 279/2/1/1, 279/2/2, 279/1/1/2
धार	धार	एकलदुना	397, 400, 1, 2/1, 3, 18/1/1, 4/1/1, 15/1, 20/1/1, 20/2/1/1, 29/1/1, 22, 71/1, 70/2/1, 70/1/1, 72, 65/1, 57/1, 58, 55/1, 73/2/1/1, 73/3/1, 74/1/1, 74/2/1, 188/1, 187/1, 186/1, 186/2/1, 186/2/2, 83/1, 83/2/1, 185, 184/1/1, 183/1, 182, 58/1/2, 85/2/1, 180/1/1, 180/1/2, 177, 176/1/1, 175/1, 146, 152/1/1, 152/2/1, 153/1, 155/1, 154/1, 157, 159/2/2, 159/2/1, 122, 185, 9/4, 8/4, 9/2, 10/1/1	397, 400, 1, 2/1, 3, 18/1/1, 4/1/1, 20/1/1, 20/2/1/1, 29/1/1, 24/2, 22, 73/1/1, 71/1, 70/2/1, 70/1/1, 72, 65/1, 69, 57/1, 56, 58, 59, 55/1, 55/2, 73/1/2, 73/2/1/1, 73/3/1, 74/1/1, 74/2/1, 188/1, 187/1, 189, 186/1, 186/2/1, 186/2/2, 186/2/3, 83/1, 185, 184/1/1, 183/1, 182, 58/1/2, 85/2/1, 145/5, 180/1/1, 180/1/2, 178, 177, 176/1/1, 176/2, 175/1, 146, 151, 152/1/1, 152/2/1, 153/1, 155/1, 154/1, 157, 159/2/2, 159/2/1, 122, 185, 9/4, 8/4, 9/2, 10/1/1
धार	धार	नजदीक बडौदा	130/2, 130/1, 131, 132/1/2, 135/2, 123/6, 136, 82, 81, 83/1, 28, 34/1, 34/2, 34/3, 33, 20/1/6, 20/1/2, 21, 9/4, 8/3, 8/4, 7/4, 9/2, 9/3, 22, 31/1/2, 31/1/1, 32, 34/3, 78, 81, 137, 136, 135/1, 133/1, 132/2, 132/3, 219/3, 220, 221/1	130/2, 130/1, 131, 132/1/2, 135/2, 123/6, 136, 82, 83/1, 28, 34/1, 34/2, 34/3, 20/2/2, 20/2/1, 33, 20/1/6, 20/1/2, 21, 9/4, 8/3, 8/4, 7/4, 9/2, 9/3, 22, 31/1/2, 31/1/1, 32, 34/3, 78, 60, 81, 137, 136, 135/1, 133/1, 132/2, 132/3, 209, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221/1

धार	धार	करोदिया	105/2, 105/3, 105/4, 106, 103/2, 102/1, 103/5, 143/2, 143/1, 143/4, 175, 176/1, 176/2, 172, 171, 169/5, 169/4, 168/1, 203, 204/1/1, 204/2/2/2, 204/2/1, 204/2/2/1, 204/2/3, 210/2, 211, 206/2, 206/1, 165, 166, 167, 169/2, 170, 168, 173, 145, 143, 142/2, 143/3/1, 142/1, 141, 103/1/1, 108/3, 108/2, 108/1, 109, 140	105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 103/2, 103/5, 143/2, 143/1, 143/4, 175, 176/2, 172, 171, 169/5, 169/4, 168/1, 203, 204/1/1, 204/2/2/2, 204/2/1, 204/2/2/1, 204/2/3, 210/2, 211, 216, 206/2, 206/1, 165, , 167, 169/1, 169/2, 170, 168, 173, 145, 143, 142/1, , 103/1/1, 108/3, 108/2, 108/1, 109, 140
धार	धार	दिग्गान	48, 49/1, 47, 46, 45, 12/1, 37, 43, 44, 14, 13, 41, 31, 39, 35, 33, 56/1, 56/2, 66, 64, 56/2, 59/1, 62, 60, 108, 109, 110, 106/1, 114/1, 243, 150, 208, 210/2, 162, 164/1/1, 208, 172, 171, 191/1, 193, 217, 216, 189, 222, 224, 680/2, 676, 675, 674/1, 680/1/1, 670/2, 672, 670/1, 678, 689, 637, 643, 642, 636, 637, 645/1, 635, 634/1/1, 424, 425, 618, 427, 433, 423, 467, 449, 406, 405, 457, 455, 454, 458/1, 456, 404, 449, 460, 461, 452, 468, 466, 465, 467, 403, 177, 226, 189, 179/2, 477, 223, 224, 222, 225	48, 49/1, 47, 46, 45, 12/1, 43, 44, 14, 13, 42, 41, 31, 39, 35, 56/1, 52, 56/2, 66, 64, 56/2, 59/1, 62, 63/1, 108, 109, 110, 106/1, 114/1, 243, 150, 208, 210/2, 162, 164/1/1, 208, 172, 171, 191/1, 193, 217, 216, 190/1, 189, 222, 224, 680/2, 676, 675, 674/1, 680/1/1, 670/2, 672, 670/1, 678, 689, 637, 643, 642, 636, 637, 645/1, 635, 634/1/1, 424, 425, 618, 427, 433, 423, 420, 467, 449, 406, 405, 457, 455, 454, 458/1, 456, 404, 449, 460, 461, 452, 468, 466, 465, 467, 469, 403, 177, 226, 189, 179/2, 477, 223, 224, 222, 225
धार	धार	पिपल्या खास	312/5, 312/32, 311, 308, 258, 251, 252, 253, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 111, 86, 89, 90, 312, 87, 83, 84, 80, 79, 109/3, 112, 116, 115, 129, 130, 133, 134, 256, 254, 137/1, 137/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 246, 247	312/5, 312/4, 312/32, 311, 310/1, 308, 258, 251, 252, 253, 271, 260, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 107/2, 110, 111, 109/1, 86, 89, 90, 91, 312, 87, 83, 82, 84, 80, 79, 78, 109/3, 112, 117, 120, 115, 129, 130, 132, 133, 134, 256, 254, 137/1, 137/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 246, 247
धार	धार	आबुखेडी	25/1, 24/1, 24/2, 26/1/1/1, 26/2/1/1, 30, 26/3, 32, 34, 35, 31	25/1, 24/1, 24/2, 26/1/1/1, 26/2/1/1, 30, 26/3, 32, 34, 35, 31
धार	धार	महाराजखेडी	331/1/1, 331/2/2, 331/3, 331/2/1, 339/1, 331/4, 347/4, 342/1, 343, 355/1, 346, 330	331/1/1, 331/2/2, 331/3, 331/2/1, 339/1, 331/4, 347/4, 342/1, 343, 355/1, 346, 330
धार	धार	रायण	118/1, 129, 128, 130/2/1/1, 130/2/1/2, 130/2/2, 131, 132/2, 136/1, 137, 138/3/2, 149, 150, 151/1, 152, 163/1, 163/2, 166, 168, 169/2, 169/1, 170, 125, 126/1, 120/2, 119/1, 120/1	118/1, 129, 128, 130/2/1/1, 130/2/1/2, 130/2/2, 131, 132/2, 136/1, 137, 138/3/2, 149, 150, 151/1, 152, 163/1, 163/2, 166, 168, 169/2, 169/1, 170, 125, 126/1, 120/2, 119/1, 120/1
धार	धार	बिल्लौद	16/1, 15/2, 18, 20, 15/1, 15/5/1, 39, 15/5/2, 33, 34, 28/2, 70, 69, 67, 63, 66, 55/2, 73, 66, 64, 109, 110, 121, 112, 118, 116, 114, 119/2, 120, 111, 113, 114, 148, 149, 151, 156, 160, 147/1, 146, 145/1, 144, 153, 154, 143/1, 161, 163/2, 164/1, 362/1, 361/1, 360, 368, 359, 357, 356, 355/1, 355/2, 343/1/1, 352, 351/4, 351/2, 570, 689/1, 689/5, 690, 349	16/1, 15/2, 18, 20, 15/1, 15/5/1, 39, 15/5/2, 33, 34, 28/2, 70, 69, 67, 63, 66, 55/2, 73, 66, 64, 109, 110, 121, 112, 118, 117, 116, 122, 119/1, 119/2, 111, 113, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 159, 160, 147/1, 146, 145/1, 144, 153, 154, 143/1, 161, 163/2, 164/1, 362/1, 361/1, 360, 368, 359, 357, 356, 355/1, 355/2, 343/1/1, 344/2/1/1, 352, 351/1/1, 351/1/2, 351/4, 351/2, 689/1, 689/2, 689/4, 689/5, 690, 349

धार	वजिला	नाई बरोदा मण्डलोई	1, 2, 3/2, 4, 5, 18, 38/3, 17/1/2, 17/1/3, 37, 36, 35, 33, 20/1, 21, 22, 28, 52, 54/1, 6, 29, 53, 51, 55, 32/1, 30/1, 115, 116, 117, 120	1, 2, 3/2, 4, 5, 18, 38/3, 17/1/2, 17/1/3, 37, 36, 35, 33, 20/1, 21, 22, 28, 52, 54/1, 6, 29, 53, 51, 55, 32/1, 30/1, 115, 116, 117, 118, 119, 120
धार	धार	नाई बरोदा कानुनगो	91, 96/1, 98/1, 100, 112/1, 112/2, 113, 211/2, 211/1, 209, 207/1, 207/2, 239, 242/1, 210, 93, 94, 89, 242/2, 207/3, 95, 97, 114, 212, 208, 201, 240, 241, 99, 175, 191/2, 193, 243/1, 243/2, 214	91, 96/1, 98/1, 100, 112/1, 112/2, 113, 211/2, 211/1, 209, 207/1, 207/2, 239, 242/1, 210, 93, 94, 89, 242/2, 207/3, 95, 97, 114, 212, 208, 201, 240, 241, 99, 175, 191/2, 193, 243/1, 243/2, 214
इन्दौर	महू	खेडी	325/1, 23/3, 23/1, 23/2, 324/1, 24, 14, 93, 28, 90/2, 91, 282, 283/1, 283/2, 284, 288, 281, 277, 275, 271, 272, 270/3, 269, 268/2, 268/1, 263/1/1, 269/527, 381/1, 382/1, 377, 363/1/1, 263/1/1, 285, 264/1, 284/5, 284/5/1, 285/4, 272, 285/3, 285/2, 303/2, 324/2, 327/1	325/1, 23/3, 23/1, 23/2, 324/1, 24, 14, 29, 93, 28, 90/2, 90/3, 91, 283/1, 283/2, 286, 284, 288, 281, 277, 276, 275, 271, 272, 270/2, 270/3, 269, 268/2, 268/1, 263/1/1, 269/527, 381/1, 382/1, 377, 376/1, 363/1/1, 263/1/1, 285, 264/1, 264/2, 284/5, 284/5/1, 287, 285/3, 286, 283/1, 283/3/1, 288/2/2, 303/2, 302/2, 324/3, 325/2, 325/3, 339, 327/1
इन्दौर	(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर	सिहोद	294/1/झ, 294/3, 294/1, 298, 300, 301, 302, 303, 293/1 छ, 293/6, 293/1/1 ख, 293/1/1 ग, 293/1/1 घ, 293/1/1 प, 293/10, 293/1/1 द, 293/1/1 न, 293/16, 293/2/2, 293/7, 293/17, 293/14, 293/15, 293/2/1	294/1/झ, 294/3, 294/1, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 293/1 छ, 293/6, 293/1/1 ख, 293/1/1 ग, 293/1/1 घ, 293/1/1 प, 293/10, 293/1/1 द, 293/1/1 न, 293/16, 293/2/2, 293/7, 293/17, 293/14, 293/15, 293/2/1
इन्दौर	(महू)	दुर्जनपुरा	19/370/1, 19/370/3, 196/1/1/3, 196/4, 196/1/2, 191/2/1, 191/2/1, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 139/1/1, 139/1/2, 139/1/3, 131/2, 140, 141, 136/1/2, 136/2, 136/1/3, 136/1/4, 136/1/1, 130, 133/1/1, 128/1, 128/2, 126/1, 126/2, 125/1, 123/2, 123/1, 119/1, 83/4, 81/2, 81/1, 80/2, 80/2/1, 79/369, 30/376, 29/2, 29/1, 28/2, 28/1, 10/361, 20/3, 20/2	19/370/1, 19/370/3, 196/1/1/3, 196/4, 196/1/2, 191/2/1, 191/2/1, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 139/1/1, 139/1/2, 139/1/3, 131/2, 140, 136/1/2, 136/2, 136/1/3, 136/1/4, 136/1/1, 130, 131/1/3, 133/1/1, 128/1, 128/2, 126/1, 126/2, 125/1, 123/2, 123/1, 119/1, 83/1, 81/2, 81/1, 80/2, 80/2/1, 79/369, 30/376, 29/2, 29/1, 28/2, 28/1, 10/361, 20/3, 20/2, 18
इन्दौर	(महू)	शेरपुर	102/1, 102/2, 101/1/2, 98, 95/1, 95/2, 96, 79, 80, 74, 70, 207, 209, 207, 208, 212/2, 214, 215, 216/1/1, 216/1/2, 216/2, 219/1/3, 221/2, 222, 224, 223, 234, 255, 241/2, 243, 245, 248/4, 248/3, 248/2, 252, 253, 259/2, 259/1, 267, 213, 50/3/1, 50/3/2, 54, 56, 57, 69, 68, 67, 66, 62/2, 62/2/1, 83, 86/1, 89, 90, 91/2, 93, 85, 100/1	102/1, 102/2, 102/3, 101/1/2, 103, 98, 95/1, 95/2, 96, 121, 122, 123, 125, 79, 80, 77, 74, 71, 70/1/2, 70, 207, 209, 205, 206, 207, 212/2, 196, 214, 215, 216/1/1, 216/1/2, 216/2, 219/1/3, 221/2, 222, 224, 223, 233, 234, 255, 241/2, 243, 245, 248/4, 248/3, 248/2, 252, 253, 259/2, 259/1, 267, 213, 50/3/1, 50/3/2, 54, 56, 57, 69, 68, 67, 66, 62/2, 62/2/1, 83, 86/1, 89, 90, 91/2, 93, 85, 100/1
इन्दौर	महू	मानपुर	162, 161, 159, 158, 160, 157/2, 155, 171/1/1/1, 181, 182/1, 159, 150/1, 149, 216/6, 216/3, 216/4, 216/5/1, 216/5/2, 217, 218/1, 212, 210, 207, 201/1, 208/1, 199, 200, 307/1/2, 198, 308/1, 308/2, 308/3/1, 308/4, 315/1	162, 161, 159, 158, 160, 157/2, 155, 171/1/1/1, 181, 182/1, 159, 150/1, 149, 222, 183/3, 216/6, 216/3, 216/4, 216/5/1, 216/5/2, 217, 218/1, 212, 211/1, 210, 209, 207, 201/1, 208/1, 199, 200, 307/1/2, 198, 308/1, 308/2, 308/3/1, 308/4, 315/1

VI)

“खण्ड-अ”

अधिसूचित मार्ग का नाम	संपूर्ण लंबाई कि.मी. में	राजमार्ग में आने वाले जिले
महू-घाटाबिल्लौद एस.एच.-27	27.00	धार, इन्दौर

“खण्ड — ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर) सर्वे नम्बर	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर) सर्वे नम्बर
इन्दौर	महू	महूगाव	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 710, 709, 708, 707, 706, 727, 728, 720, 717, 712, 713, 714, 715, 714/868, 679, 70, 704, 703, 702, 701, 690, 691, 692, 693, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 438, 437, 440, 439, 678, 784, 676, 674, 673, 582, 581, 583, 579, 578, 442, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 577, 573, 574, 515, 514, 511, 510, 509, 503, 489, 490, 494, 493, 491, 486, 487, 488, 359, 502, 498, 461, 504, 580, 675, 455	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 710, 709, 708, 707, 706, 727, 728, 720, 717, 712, 713, 714, 715, 714/868, 679, 70, 704, 703, 702, 701, 690, 691, 692, 693, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 438, 437, 440, 439, 678, 784, 676, 674, 673, 582, 581, 583, 579, 578, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 577, 573, 574, 515, 514, 516, 518, 513, 511, 510, 509, 503, 489, 490, 494, 493, 491, 486, 487, 488, 359, 502, 506, 498, 461, 504, 580, 675, 455
इन्दौर	महू	भाटखेडी	317, 316, 318, 319, 332, 331, 330, 316, 314/3, 314/7, 336/1/1, 336/1/3, 336/1/2/1, 336/1/2/2, 334, 333, 440/1, 441, 442/1, 450, 459/1, 459/2, 451, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 533/1, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 322/2, 321/2/5, 321/3/2, 320, 321/1/2,	317, 316, 318, 319, 332, 331, 330, 316, 314/3, 314/7, 336/1/1, 336/1/3, 336/1/2/1, 336/1/2/2, 334, 333, 440/1, 441, 442/1, 450, 459/1, 459/2, 451, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 533/1, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 322/2, 321/2/5, 321/3/2, 320, 321/1/2, 321/1/1, 335

धार	धार	पीथमपुर	422, 421/1/1, 421/3/1, 420/1/1, 420/2/1, 415, 416, 414, 413, 402, 400, 399, 392/1/1, 392/1/2, 392/1/3, 391/2/1, 391/2/2, 376, 377, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 324, 325/1, 325/2, 326, 369, 368, 367, 366, 364, 363, 522, 523, 524, 521, 518, 519, 517, 515, 514, 513, 322, 301, 308, 111, 114, 115, 140, 142, 143, 144, 145, 97	422, 421/1/1, 421/3/1, 420/1/1, 420/2/1, 415, 416, 414, 413, 402, 400, 399, 392/1/1, 392/1/2, 392/1/3, 391/2/1, 391/2/2, 376, 377, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 323, 324, 325/1, 325/2, 326, 369, 368, 367, 366, 364, 365, 363, 522, 523, 524, 521, 518, 519, 517, 515, 514, 513, 322, 301, 308, 111, 114, 115, 140, 142, 143, 144, 145, 97
धार	धार	आकोल्या	1/1, 3, 4/1/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 19/1, -, 18, 19, 20/1, 21, 24, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 52, 81, 88/1/1, 90, 91, 93, 96, 109, 97, 98, 99, 100, 101	1/1, 2, 3, 4/1/1, 10/1, 10/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 19/1, 16, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 52, 81, 88/1/1, 89, 90, 91, 93, 96, 109, 97, 98, 99, 100, 101
धार	धार	बरदरी	58/1, 59, 61, 63, 64, 70/1, 75, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 220, 328, 327, 420, 421, 422, 423, 329, 418, 419, 416, 417, 415, 414, 413, 330, 331, 326, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 364	58/1, 59, 61, 63, 64, 65, 70/1, 71, 78, 75, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 220, 328, 327, 420, 421, 422, 423, 329, 418, 419, 416, 417, 415, 414, 413, 412, 330, 331, 326, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 363, 364
धार	धार	खेडा	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 30, 31, , 32, 33, 34, 35, 42, 51, 54, 59, 168, 169, 171, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 96, 122, 123, 121, 124, 119, 118, 126, 125, 134, 136, 137, 135, 880, 879, 138, 139, 140, 142, 143, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 97, 95	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 22, 32, 33, 34, 35, 42, 50, 51, 54, 59, 168, 169, 170, 171, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 96, 122, 123, 121, 120, 124, 119, 118, 126, 125, 134, 136, 137, 135, 880, 879, 138, 139, 140, 142, 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 168, 97, 95

धार	धार	सागौर	130, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139/1, 139/3, 145, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142, 143, 147, 136, 121, 122	130, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139/1, 139/2, 139/3, 145, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142, 143, 147, 148, 136, 121, 122
इन्दौर	देपालपुर	काली बिल्लौद	45, 44, 46, 66	45, 44, 46, 66
धार	धार	बगदून	242, 241, 243, 244, 251/1, 251/2, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 271, 274, 278, 279/2, 279/1, 279/3, 282/2, 280, -, 281, 310, 311, 312, 324, 325, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 342	242, 241, 243, 244, 251/1, 251/2, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 271, 273, 274, 278, 279/2, 279/1, 279/3, 95/2, 95/3, 95/7, 95/9, 282/2, 280, 283, 281, 310, 311, 312, 324, 325, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 342
धार	धार	मंडलावदा	154/1, 154/1, 156, 157/1, 158, 159, 161/1, 161/2, 162/2/1, 162/2/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 244, 245, 246, 242, 243, 241, 240, 236, 231, 279, 278, 277, 275, 273, 272, 270/1/1/1, 260, 247/1/1, 248, 249, 229, 230	154/1, 154/2, 155, 156, 157/1, 158, 159, 161/1, 161/2, 162/2/1, 162/2/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 244, 245, 246, 242, 243, 241, 240, 236, 231, 279, 280, 278, 277, 275, 273, 272, 270/1/1/1, 260, 247/1/1, 248, 249, 282, 283, 229, 230
इन्दौर	देपालपुर	मेठवाडा	28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/8, 41, 44, 45, 385, 378, 370, 369, 368, 371, 367, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 452, 559, 561, 560, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 548/1, 578/1, 578/2/6, 578/2/7, 577, 576, 562, 447, 448, 450, 451, 426, 425, 423, 377, 376, 374, 373, 372, 382	26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 41, 44, 45, 385, 378, 370, 369, 368, 371, 366, 49, 367, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 452, 557, 559, 561, 560, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 548/1, 550/3, 578/1, 578/2/5, 578/2/8, 578/2/6, 578/2/7, 577, 576, 562, 447, 448, 450, 451, 426, 425, 424, 423, 377, 376, 374, 375, 373, 372, 382

इन्दौर	देपालपुर	घाटाबिल्लौद	1, 2/1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 22/1, 22/5, 22/2/1, 22/6, 22/2/2, 22/2/3, 22/8, 21, 18/1, 186/1/1, 167, 45, 44/1, 43/1, 42, 41, 37, 36, 30, 29, 27, 25, 24, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 26	1, 2/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22/1, 22/5, 22/2/1, 22/6, 22/2/2, 22/2/3, 22/8, 21/1/2, 18/1, 186/1/1, 167, 45, 44/1, 44/4, 44/2, 43/1, 42, 41, 37, 36, 30, 29, 27, 25, 24, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 26, 65
--------	----------	-------------	---	--

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01-ए-82-12-14

देवास, दिनांक 19 फरवरी 2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-किलोदा बी		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	1.247	0.222	1.469
	योग	1.247	0.222	1.469

अनुसूची (2)**मुख्य नहर**

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	बलराम पिता मिश्रीलाल जाति गुजर नि.ग्राम किलोदा	19	1.320	0	1.32	0.236	0	0.236
2	छितर पिता बुदया जाति बलाई नि. ग्राम किलोदा	27	1.61	0	1.61	0.714	0	0.714
3	नगर पालिका कन्नौद	26	0	0.850	0.850	0	0.222	0.222
4	गणेश पिता काशी विश्वनाथ जाति ब्रा. नि.ग्राम किलोदा	153	0.650	0	0.650	0.180	0	0.180
5	राजेश पिता काशी विश्वनाथ जाति ब्राह्मण नि. किलादा	152/1	0.250	0	0.250	0.087	0	0.087
6	विकाश पिता दिनेशचन्द्र जादम नि. इन्दौर	152/2	0.40	0	0.400	0.030	0	0.030
	योग	6	4.230	0.850	5.080	1.247	0.222	1.469

प्र.क्र 4 /ए-82/ 13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- पांगरा		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	4.618	1.149	5.767
	(2) मायनर नं. 11 नहर	0.376	0.507	0.883
	(3) डिस्टीब्यूटरी नं. 1 नहर	1.924	0.373	2.297
	(4) मायनर नं. 12 नहर	0.101	0.000	0.101
	योग	7.019	2.029	9.048

अनुसूची (2)								
मुख्य नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	प्रसिंचित	कुल	सिंचित	प्रसिंचित	कुल
1	शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	46	3.540		3.540	0.543		0.543
2	गेंदालाल पिता भारत जाति गौड नि.ग्राम पांगरा	42	2.970		2.970	0.150		0.150
3	माधुसिंह पिता भारतसिंह जाति गौड नि.ग्राम पांगरा	41/3	0.970		0.970	0.120		0.120
4	बिजेश पिता माधूसिंह जाति गौड नि.ग्राम पांगरा	41/2	1.00		1.00	0.120		0.120
5	बाली बाई पति भोग्या जाति गौड नि. ग्राम पांगरा	37/1	1.010		1.010	0.018		0.018
6	छगन पिता जोहन्या नि.ग्राम पांगरा	37/2	0.600		0.600	0.162		0.162
7	भगवत सिंह पिता भे/सिंह जाति देशवाली नि. ग्राम पांगरा	36	2.020		2.020	0.190		0.190
8	नितेश पिता शिवनारायण जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा	33/1		0.990	0.990		0.119	0.119
9	मानसिंह पिता ननु सिंह जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा	32	1.980		1.980	0.157		0.157
10	रामभरोसी बाई पति शिवप्रसाद जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	19	1.420		1.420	0.382		0.382
11	रामगोपाल पिता छितर सिंह जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	20/1	1.170		1.170	0.576		0.576
12	मोतीलाल पिता रामगोपाल जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	22	1.210		1.210	0.196		0.196
13	राधेश्याम पिता हरीसिंह जाति बाडी नि.ग्राम पांगरा	23	0.690		0.790	0.028		0.028
14	दगडू पिता रामगोपाल जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	146		1.98	1.98		0.089	0.089
15	केदार पिता रामकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	145/1		2.00	2.00		0.104	0.104
16	संतोष पिता केदार जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	145/2		1.870	1.870		0.104	0.104
17	प्रेमदास पिता गोवर्धनदास जाति बैरागी नि.ग्राम पांगरा	188/1	1.620		1.620	0.156		0.156
18	हरीदास पिता गोवर्धनदास जाति बैरागी नि.ग्राम पांगरा	189	1.480		1.480	0.144		0.144
19	आशाराम पिता छितर जाति कारकू नि.ग्राम पांगरा	191	1.110		1.110	0.112		0.112
20	नारायण पिता नंदलाल जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	190	0.450		0.450	0.042		0.042
21	प्रेमदास पिता गोवर्धनदास जाति बैरागी नि.ग्राम पांगरा	188/1	0.450		0.450	0.052		0.052
22	नंदलाल पिता प्रहलाद जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	200	1.700		1.700	0.108		0.108
23	थावर सिंह पिता समरिया जाति बोरेला नि.ग्राम पांगरा	201		0.810	0.810		0.152	0.152
24	गोमचा पिता समरिया जाति बोरेला नि.ग्राम पांगरा	220		0.810	0.810		0.171	0.171
25	मनोहर पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	204	1.620		1.620	0.11		0.110
26	रतनलाल पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	205	1.620		1.620	0.099		0.099
27	छोटेला पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	206	1.620		1.620	0.08		0.080
28	शिवनारायण पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	207	1.620		1.620	0.072		0.072
29	हरिप्रसाद पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	208	1.620		1.620	0.082		0.082
30	भगवान पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	209	1.620		1.620	0.088		0.088

सं.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
31	जगत पिता बोंदर नि.ग्राम पांगरा	182/3	1.160		1.160	0.171		0.171
32	मोतीलाल पिता बोंदर नि.ग्राम पांगरा	182/2	1.940		1.940	0.085		0.085
33	गबूलाल पिता बोंदर नि.ग्राम पांगरा	181/1	1.940		1.940	0.085		0.085
34	बंशीलाल पिता नत्थु केदार पिता रामकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	177		2.120	2.120		0.220	0.220
35	नादान सिंह पिता बोंदर नि.ग्राम	175/6	2.69		2.69	0.214		0.214
36	अनवर पिता भाउ नि ग्राम पांगरा	175/2	2.850		2.850	0.077		0.077
37	अजबसिंह, छगनसिंह पिता शैतानसिंह नि.ग्राम पांगरा	175/3	1.440		1.440	0.060		0.060
38	सजन सिंह पिता शैतान नि.ग्राम पांगरा	175/4	0.720		0.720	0.062		0.062
39	रेवाशंकर पिता जगन्नाथ जाति तेली ग्राम भैसून	175/5	0.720		0.720	0.077		0.077
40	रेवाशंकर पिता जगन्नाथ जाति तेली ग्राम भैसून	172/2		0.780	0.780		0.190	0.190
मायनर न. 11 नहर								
41	कनसिंह पिता भीमसिंह जाति बोरला नि.ग्राम पांगरा	47		0.790	0.790		0.069	0.069
42	मांगीलाल पिता गब्बु जाति बलाई नि.ग्राम पांगरा	48		0.450	0.450		0.043	0.043
43	कल्लुराम पिता गब्बु जाति बलाई नि.ग्राम पांगरा	49		0.450	0.450		0.042	0.042
44	गंजानंद पिता गब्बुलाल जाति बलाई नि.ग्राम पांगरा	50		0.450	0.450		0.028	0.028
45	गोविन्द पिता गब्बु जाति बलाई नि.ग्राम पांगरा	51		0.450	0.450		0.027	0.027
46	छोटेलाल पिता गब्बु जाति बलाई नि.ग्राम पांगरा	52	0.450		0.450	0.017		0.017
47	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति बाडी नि.ग्राम पांगरा	53/1	0.300		0.300	0.016		0.016
48	राधेश्याम पिता हरिसिंह जाति बाडी नि.ग्राम पांगरा	53/2	0.800		0.800	0.042		0.042
49	गंगाराम पिता हरिसिंह जाति बाडी नि.ग्राम पांगरा	53/3	0.800		0.800	0.04		0.04
50	सोनारायण पिता भागीरथ जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	57	1.640		1.640	0.126		0.126
51	रामनारायण पिता कंवर जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	59		1.000	1.000		0.094	0.094
52	बलराम पिता राधेश्याम जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	60		0.410	0.410		0.054	0.054
53	गब्बु पिता गिरधारी जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	62	1.910		1.910	0.132		0.132
54	सुमन बाई पिता बद्री जाति तेली नि.ग्राम पांगरा	63/1		1.51	1.510		0.042	0.042
55	रामकली बाई पिता बद्री जाति तेली नि.ग्राम पांगरा	140		1.51	1.51		0.108	0.108
डिस्टीब्यूटरी नं. 1 नहर								
56	थावरसिंह पिता समरिया जाति बोरेला नि.ग्राम पांगरा	201		0.810	0.810		0.106	0.106
57	गोमचा पिता समरिया जाति बोरेला नि.ग्राम पांगरा	220		0.810	0.810		0.042	0.042
58	नंदलाल पिता प्रहलाद जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	200	1.700		1.700	0.088		0.088
59	विनोद पिता नंदलाल जाति देशवाली नि.ग्राम पांगरा	221	3.440		3.440	0.468		0.468
60	चिन्ताबाई पति पवनकुमार जाति जैन नि.ग्राम पांगरा	228	6.120		6.120	0.694		0.694
61	सुरेश पिता भगवान जाति देशवाली नि.भैसून	259/1		1.500	1.500		0.225	0.225
62	मधुसुदन पिता सुरेशचंद्र जाति देशवाली नि.भैसून	259/2	1.200		1.200	0.101		0.101
63	रामप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति ब्राह्मण नि.ग्राम पांगरा	260	3.240		3.240	0.100		0.100
64	दुर्गाप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्राम पांगरा	261	1.620		1.620	0.223		0.223
65	रामोतार पिता मंशाराम जाति देशवाली नि.भैसूनी	262	1.720		1.720	0.145		0.145
66	रमेश पिता शंकर जाति चमार नि.ग्राम पांगरा	330	1.720		1.720	0.105		0.105
मायनर न. 12 नहर								
67	अनवर पिता भऊ जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा	175/2	2.87		2.87	0.02		0.020
68	अजबसिंह, छगनसिंह पिता शैतानसिंह जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा	175/3	1.44		1.44	0.021		0.021

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
69	सजनसिंह पिता शैतानसिंह जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा	175/4	0.72		0.72	0.020		0.020
70	छगनसिंह पिता शैतानसिंह जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा	175/5	0.72		0.72	0.020		0.020
71	नादानसिंह पिता बोन्दर जाति कोरकू नि.ग्राम पांगरा (कब्जेदार)	175/6	2.69		2.69	0.02		0.020
	योग	71	83.67	21.500	#####	7.019	2.029	9.048

प्र.क्र 14/ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- गुड़बेल		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	6.062	0.372	6.434
	(2) मायनर नं. 7 नहर	0.821	0.681	1.502
	(3) मायनर नं. 8 नहर	1.21	0.295	1.505
	(4) मायनर नं. 9 नहर	3.464	0.276	3.740
	(5) मायनर नं. 10 नहर	2.063	0.165	2.228
	योग	13.62	1.789	15.409

अनुसूची (2)

मुख्य नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	प्रेमप्रसाद पिता बदीप्रसाद जाति ब्रा. नि. डोकाकुई	5/1	0.400		0.400	0.104		0.104
2	रमेश पिता बदीप्रसाद जाति ब्रा. नि. डोकाकुई	5/2	0.300		0.300	0.103		0.103
3	ललीताबाई पिता बदीप्रसाद जाति ब्रा. नि. डोकाकुई	5/3	0.340		0.340	0.070		0.070
4	रमेश पिता बदीप्रसाद जाति ब्रा. नि. डोकाकुई	6	1.620		1.620	0.033		0.033
5	सीताबाई वि. भूरा जाति लोधा नि. ग्राम डोकाकुई	13/2	0.800		0.800	0.119		0.119
6	सालगराम पिता भूरा जाति लोधा नि. ग्राम डोकाकुई	13/3	2.830		2.830	0.120		0.120
		15	1.110		1.110	0.282		0.282
7	मंगेश पिता मोहन लाल जाति ब्रा. नि. ग्राम डोकाकुई	18	1.590		1.590	0.213		0.213
8	प्यारीबाई पिता चतरसिंह पता. नि. ग्राम डोकाकुई	70		0.470	0.470		0.160	0.160
9	गोपीकिशन पिता रामकिशन जाति महाजन नि. ग्राम डोकाकुई	72/1	3.740		3.740	0.268		0.268
10	लक्ष्मण पिता साडिया जा. बारैला नि. ग्राम डोकाकुई	72/2	1.800		1.800	0.150		0.150
11	सरस्वतीबाई पति गोपीकिशन जा. महाजन नि. ग्राम डोकाकुई	72/4	1.000		1.000	0.150		0.150
12	शंकर पिता सोमा जाति बलाई नि. डोकाकुई	73	1.010		1.010	0.182		0.182
13	सेउबाई पति सोमा जाति बलाई नि. डोकाकुई	74	1.010		1.010	0.160		0.160
14	बाबूलाल प्रहलाद पितर रामबक्स जाति नाई नि. डोकाकुई	75	7.780		7.780	0.003		0.003
15	जंगलिया पिता शिवलया जाति बारैला नि. ग्राम डोकाकुई	58	1.570		1.570	0.194		0.194
		59	1.200		1.200	0.441		0.441
16	बीनाबाई पति जुबान जाति बारैला नि.	60		1.210	1.210		0.152	0.152
17	रमाकान्त पिता शालीगराम जाति ब्रा. नि. ग्राम डोकाकुई	56/1	5.790		5.790	0.264		0.264
18	अमरसिंह पिता तूलाराम जा. बारैला नि. ग्राम डोकाकुई	56/2	0.800		0.800	0.264		0.264
19	रविकान्त पिता सालगराम जाति ब्रा. नि. ग्राम डोकाकुई	55	2.000		2.000	0.315		0.315
20	देवेन्द्र कुमार पिता रविकान्त जाति	54	3.290		3.290	0.441		0.441
21	दुर्गेश कुमार पिता हरजी नि. ग्राम डोकाकुई	45		1.000	1.000		0.060	0.060
22	राजेन्द्र पिता बाबूलाल जाति महाजन नि. ग्राम डोकाकुई	49/3	0.800		0.800	0.205		0.205

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रक्बा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्बा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
23	गोपाल पिता रामोतार जाति कुम्हार नि. ग्राम डोकाकुई	49/4	0.800		0.800	0.206		0.206
24	शंकरलाल पिता रामोतार जाति कुम्हार नि. ग्राम डोकाकुई	49/5	0.800		0.800	0.205		0.205
25	भागमल पिता असराफखा मैवाती नि. ग्राम डोकाकुई	166	3.880		3.880	0.729		0.729
		167	5.080		5.080	0.051		0.051
26	अब्दुलखा पिता असराफखा जाति मैवाती नि. ग्राम डोकाकुई	168	2.160		2.160	0.280		0.280
		178	2.440		2.440	0.003		0.003
		170/2	0.400		0.400	0.219		0.219
27	गफूरखा पिता असरफखा जाति मैवाती नि. ग्राम डोकाकुई	170/1	8.200		8.200	0.288		0.288
भायनर नंबर-7 नहर								
28	सालगराव पिता भूरा जाति लोधे नि. ग्राम डोकाकुई	13/3	2.830		2.830	0.160		0.160
29	शिवराम पिता गबूलाल तामि लोधे नि. डोकाकुई	12	2.020		2.020	0.058		0.058
30	रामप्रकाश पिता नारायण जाति ब्रा. नि. डोकाकुई	10	1.010		1.010	0.106		0.106
31	सुमित कुमार सतिकुमार पिता गंदीलाल सुचिताबाई विधया गेंडालाल जाति लोधे नि. डोकाकुई	88		2.270	2.270		0.115	0.115
		87		2.180	2.180		0.113	0.113
32	मधुसुदन पिता द्वारकाप्रसाद जाति लोधे नि. डोकाकुई	90/1	0.190		0.190	0.036		0.036
33	अमन पिता मधुसुदन अं पा. क. मधुसुदन पिता द्वारकाप्रसाद जाति लोधे नि. डोकाकुई	90/2	0.190		0.190	0.036		0.036
34	संतोष पिता ताराचन्द्र जाति लोधे नि. डोकाकुई	91/1	1.250		1.250	0.014		0.014
35	सनील पिता जगदीश जाति लोधे नि. डोकाकुई	94	2.220		2.220	0.163		0.163
36	जगदीश पिता भूरा जाति लोधे नि. डोकाकुई	99		1.870	1.870		0.093	0.093
37	दिनेश पिता जगदीश जाति लोधे नि. डोकाकुई	100		2.220	2.220		0.102	0.102
38	संजय कुमार पिता सीताराम जाति महाजन नि कन्नौद	102	1.620		1.620	0.063		0.063
		103	1.620		1.620	0.051		0.051
		104/2	0.800		0.800	0.067		0.067
39	विजयकुमार पिता सीताराम जाति महाजन नि कन्नौद	104/1	4.050		4.050	0.067		0.067
40	गोविन्द पिता नरसिंहदास जाति महाजन नि. डोकाकुई	109		3.910	3.910		0.185	0.185
		110		2.000	2.000		0.073	0.073
भायनर नंबर-8 नहर								

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
मायनर नंबर-9 नहर								
62	भागमल पिता असराफ खां जाति मैवाती नि. ग्राम गुडबेल	166	3.880		3.880	0.117		0.117
		167	5.080		5.080	0.075		0.075
63	कालेखां पिता छोटेखां जाति मैवाती नि. ग्राम गुडबेल	162		2.430	2.430		0.168	0.168
64	बलराम पिता रमाशंकर जोशीजाति ब्रा. नि.खातेगांव	161	2.630		2.630	0.073		0.073
65	हरीशंकर पिता प्रेमप्रसाद जाति ब्रा. नि. ग्राम गुडबेल	188/1	0.280		0.280	0.006		0.006
66	श्रीराम मन्दिर प्रबन्ध कलेक्टर महोदय देवास	189	2.530		2.530	0.230		0.230
67	ताराबाई पति रमाशंकर जाति ब्रा. नि. ग्राम गुडबेल	190	1.720		1.720	0.095		0.095
68	रमाशंकर पिता शिवराम जाति जोशी नि. खातेगांव	194	1.620		1.620	0.152		0.152
69	रमेशचन्द्र पिता हरकिशन जाति कुम्हार नि. ग्राम गुडबेल	195	1.520		1.520	0.101		0.101
70	शब्बीर पिता करीमखां जाति फकीर नि. ग्राम गुडबेल	268/1	0.190		0.190	0.006		0.006
71	बाबूखां पिता करीमखां जाति फकीर नि. ग्राम गुडबेल	268/2	0.190		0.190	0.006		0.006
72	रसीद खां पिता करीमखां जाति फकीर नि. ग्राम गुडबेल	268/3	0.190		0.190	0.007		0.007
73	इसबखां पिता इज्जतखां जाति मैवाती नि. ग्राम	267	0.780		0.780	0.086		0.086
74	श्रीराम पिता छोटेराम जाति बाड़ी नि. ग्राम	316	2.000		2.000	0.185		0.185
75	सरस्वतीबाई पति गुलाब जाति लोधा नि. ग्राम	239	1.780		1.780	0.221		0.221
76	महेश पिता जगदीश जाति जाट नि. रतवाय	322	0.810		0.810	0.085		0.085
		323	1.930		1.930	0.124		0.124
77	मोहन पिता जगदीश जाट नि. रतवाय	324		1.930	1.930		0.108	0.108
78	महेश पिता भागीरथ जाति लाकधा पि. ग्राम	325	1.820		1.820	0.091		0.091
79	दामोदर ओमप्रकाश पिता रामकुमार जाति महाजन नि. ग्राम	328	9.530		9.530	1.805		1.805
मायनर नंबर-10 नहर								
80	गफूरखां पिता असराफखां जाति मैवाती नि. ग्राम	170/1	8.200		8.200	0.036		0.036
81	अब्दुलखां पिता असराफखां जाति मैवाती नि. ग्राम	178	2.440		2.440	0.120		0.120
		177	1.610		1.610	0.174		0.174

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
41	जंगलिया पिता शिवल्या जाति बारैला नि. ग्राम गुडबेल	59	1.200		1.200	0.021		0.021
42	बीना बाई पति जुवान जाति बारैला नि. बोरानी	60		1.210	1.210		0.059	0.059
43	खुशालसिंह, ज्वारसिंह पिता चोराजी जाति भिलाला नि. ग्राम गुडबेल	61/1	0.810		0.810	0.036		0.036
44	भोन्दा पिता रामसिंह जाति बारैला नि. ग्राम गुडबेल	61/2	0.810		0.810	0.036		0.036
45	ओमप्रकाश पिता सेवाराम जाति बारैला नि. ग्राम गुडबेल	62/2	0.600		0.600	0.072		0.072
46	नर्मदाप्रसाद पिता आत्माराम जाति ब्राह्मण नि. ग्राम गुडबेल	62/3	0.800		0.800	0.072		0.072
		63/2	0.750		0.750	0.009		0.009
47	शिवकुमार जिता आत्माराम जाति ब्रा. नि ग्राम गुडबेल	63/1	2.050		2.050	0.009		0.009
48	बाबू पिता सूरपाल जाति बलाई नि. ग्राम गुडबेल	65		2.110	2.110		0.041	0.041
49	रमेश पिता बाबू जाति बलाई नि. ग्राम गुडबेल	128/1	0.240		0.240	0.077		0.077
50	जगदीश पिता नरसिंहदास जाति महाजन नि. डोकाकुई	126	2.020		2.020	0.110		0.110
51	पुरुषोत्तम पिता नरसिंहदास जाति महाजन नि. डोकाकुई	125	2.020		2.020	0.086		0.086
52	राजेन्द्रकुमार पिता नरसिंहदास जाति महाजन नि. डोकाकुई	124	2.020		2.020	0.076		0.076
53	संजयकुमार पिता सीताराम जाति महाजन नि. कन्नोद	123/1	2.600		2.600	0.061		0.061
		113/1	2.180		2.180	0.105		0.105
54	जगन्नाथ पिता हजारीलाल जाति लोधा नि. ग्राम गुडबेल	106/1	1.440		1.440	0.064		0.064
55	रुखमणी पति बाबुलाल जाति चमार गुडबेल	106/2	0.800		0.800	0.065		0.065
56	अनोखीलाल पिता हजारीलाल जाति लोधा नि. ग्राम गुडबेल	106/3	1.430		1.430	0.065		0.065
57	मांगीलाल पिता बाबु जाति बलाई नि. ग्राम गुडबेल	127/1		0.320	0.320		0.014	0.014
58	मनोहर पिता मदनलाल जाति ब्रा. नि. ग्राम गुडबेल	116	1.190		1.190	0.140		0.140
59	गोविन्द पिता नरसिंहदास जाति महाजन नि. डोकाकुई	108		3.090	3.090		0.029	0.029
60	विजयकुमार पिता सीताराम जाति महाजन नि. कन्नोद	113/2	2.180		2.180	0.106		0.106
61	आलोककुमार पिता गोविन्ददास जाति महाजन नि. डोकाकुई	111		3.450	3.450		0.154	0.154

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
82	रुक्मणीबाई वि. भारका प्रसाद, सुनील, राहुल पिता द्वारका जाति ब्रा नि. ग्राम	281/1	0.930		0.930	0.071		0.071
83	मीनाबाई पति हेमन्त जाति बारेली नि. ग्राम	281/2	0.800		0.800	0.071		0.071
84	नुरसिंह पिता निख्या जाति बारेली नि. पांगरा	280	0.980		0.980	0.056		0.056
85	सिद्धीबाई पति राधेश्याम जाति देशवाली नि. पांगरा	282	3.060		3.060	0.072		0.072
86	चिन्ताबाई वि. गोपाल नि. ग्राम	278	1.600		1.600	0.157		0.157
87	हरिकिशन पिता गोरधन जाति कुम्हार नि. ग्राम	271	7.190		7.190	0.191		0.191
88	बिटू पिता हरिसिंह जाति बारेली नि. ग्राम	286/1		1.010	1.010		0.082	0.082
89	गैमलसिंह पिता हरिसिंह अ.पा.क. जाति बारेली नि. ग्राम	286/2		1.010	1.010		0.083	0.083
90	मोहनसिंह पिता भावसिंह जाति बारेली नि. ग्राम	287	2.020		2.020	0.131		0.131
91	पानुबाई वि. भावसिंह जाति बारेली नि. पांगरा	289	3.510		3.510	0.122		0.122
92	मांगीलाल पिता ठाकुर जाति लोधा नि.ग्राम	261/1	0.060		0.060	0.017		0.017
93	राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति लोधा नि. ग्राम	296/2	0.400		0.400	0.018		0.018
		297/2	0.200		0.200	0.020		0.020
94	दीनदयाल पिता मांगीलाल जाति लोधा नि. ग्राम	297/1	0.600		0.600	0.020		0.020
		298/1	0.200		0.200	0.017		0.017
95	योगेन्द्र पिता बोंदालाल जाति ब्रा. नि. ग्राम	298/2		0.600	0.600	0.017		0.017
		299/1	0.200		0.200	0.017		0.017
96	मधुबाला पति योगेश शर्मा जाति ब्रा नि. ग्राम	299/2	0.600		0.600	0.017		0.017
		300	0.800		0.800	0.042		0.042
97	नर्मदाप्रसाद पिता चैनसिंह जाति लोधा नि. रतवाय	302	2.420		2.420	0.057		0.057
98	रामेश्वर पिता मांगीलाल नि. ग्राम	304	0.800		0.800	0.034		0.034
99	रामप्रसाद पिता भोलू जाति लोधा नि. ग्राम	305	2.200		2.200	0.066		0.066
100	जीवन पिता राधेश्याम बगैरह जाति लोध नि.ग्राम	346/2	1.000		1.000	0.059		0.059
101	राजाराम पिता बोंदर नि. ग्राम	346/1	0.600		0.600	0.059		0.059
102	मुरादखा पिता छोटेखा मैवाली नि. ग्राम	345/1	1.380		1.380	0.079		0.079

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
103	सफदर खां पिता मुराद खां नि.ग्राम	350/1	0.890		0.890	0.009		0.009
104	रतनलाल पिता भागीरथ नि. ग्राम	352	3.410		3.410	0.187		0.187
		345/2	0.400		0.400	0.079		0.079
		351	2.320		2.320	0.050		0.050
	योग	124	196.780	34.290	231.070	13.620	1.789	15.409

प्र.क 16/ए-82/13-14

देवास दिनांक 18/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-डोकाकुई		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	2.457	0.514	2.971
	(2) मायनर नं. 4 नहर	0.538	0.116	0.654
	(3) सब मायनर नं. एम 4 एस 1 नहर	1.300	0.000	1.300
	(4) सब मायनर नं. एम 4 एस 3 नहर	0.540	0.249	0.789
	(5) मायनर नं. एम 5 नहर	0.038	0.899	0.937
	(6) मायनर नं. एम 6 नहर	2.046	0.054	2.100
	(7) मायनर नं. एम 9 नहर	1.598	0.626	2.224
	(8) मायनर नं. एम 10 नहर	1.226	0.550	1.776
	(9) मायनर नं. एम 10 एस 1 नहर	0.281	0.000	0.281
	योग	10.024	3.008	13.032

अनुसूची (2)								
मुख्य नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मीराबाई पति हरीसिंह जाति भिलाला नि.ग्राम डोकाकुई	98	0.58		0.520	0.137	0	0.137
2	हीरासिंह पिता गोकुल जाति भिलाला नि.ग्राम डोकाकुई	96/1	2.000		2.000	0.01		0.010
3	जगदीश मधु पिता राजाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	96/2	2.13		2.130	0.07		0.070
4	लीलाबाई पिता बोनंदर कुम्हार नि.ग्राम डोकाकुई	95/2	2.000		2.000	0.104		0.104
5	रामेश्वर पिता जैराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	89	1.31		1.31	0.157		0.157
6	रामदेव पिता हीरा जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	52	4.45		4.45	0.207		0.207
		12	4.15		4.15	0.293		0.293
7	शिवप्रसाद पिता धन्ना, प्रेम बाई पिता धन्ना जाति नाई नि.ग्राम डोकाकुई	51/1	1.63		1.63	0.316		0.316
8	राजेश पिता शिवप्रसाद जाति नाई नि.ग्राम डोकाकुई	51/2	2.000		2.000	0.316		0.316
9	मुकेश पिता शिवप्रसाद जाति नाई नि.ग्राम डोकाकुई	51/3	1.630		1.630	0.315		0.315
10	हरिओम पिता नारायण जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	9		1.52	1.52		0.514	0.514
11	नारायण पिता ग्यारस्या जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	10	1.52		1.52	0.259		0.259
12	अनारसिंह पिता बाबलाल, कोरकू नि.ग्राम डोकाकुई	4/3	0.44		0.40	0.273		0.273
मायनर न. 4 नहर								
13	राकेश पिता सुवालाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	112/1	1.6		1.6	0.163		0.163
14	सुवालाल पिता जमादार जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	112/2	1.69		1.69	0.165		0.165
15	सोनारायण पिता गंगाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	115/1	0.42		0.42	0.031		0.031
16	गणेश पिता सोनारायण जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	115/2	1.2		1.2	0.032		0.032
17	गब्बुलाल पिता गंगाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	116	1.62		1.62	0.065		0.065
18	गंगाराम पिता पुन्या जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	111		1.94	1.94		0.116	0.116
19	जयनारायण पिता गंगाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	117	1.62		1.62	0.082		0.082
सब मायनर न. एम 4 एस 1 नहर								
20	ज्योती पति केशरसिंह जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	135	1.53	0	1.53	0.135	0	0.135
21	शान्ताबाई पति रामेश्वर जाति जाट नि.चपलासा	136	1.01	0	1.01	0.026	0	0.026
		149/2	1.25	0	1.25	0.084	0	0.084
22	महेश पिता रामेश्वर जाति जाट नि.चपलासा	149/1	0.63	0	0.63	0.056	0	0.056
		148	1.00	0	1.00	0.004	0	0.004

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
23	सोनारायण पिता बाबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	153	2.35	0	2.35	0.119	0	0.119
		154/2	1.05	0	1.05	0.081	0	0.081
24	लखनलाल पिता बाबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	154/1	1.3	0	1.3	0.034	0	0.034
25	पंकज पिता विमल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	147/2	1.6	0	1.6	0.005	0	0.005
26	रतनलाल पिता कोदर जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	157/1	2.00	0	2.00	0.107	0	0.107
27	श्रवन पिता रतनलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	157/2	1.72	0	1.72	0.109	0	0.109
28	नन्नु पिता बलदेव जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	163	1.82	0	1.82	0.081	0	0.081
29	सुनिल पिता नन्नु जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	164	1.82	0	1.82	0.086	0	0.086
30	विनोद पिता कोदर जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	168	4.05	0	4.05	0.041	0	0.041
31	दिलीप पिता नन्नु जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	169/2	0.800	0	0.800	0.076	0	0.076
32	नर्मदा प्रसाद पिता जैत्या जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	170	3.300	0	3.300	0.081	0	0.081
33	राहुल कुमार पिता आत्माराम जाति महाजन निवासी ग्राम कन्नौद	171/1	1.39	0	1.39	0.078	0	0.078
34	कैलाश पिता चैन्या जाति बलाई नि.ग्राम डोकाकुई	171/2	0.4	0	0.4	0.052	0	0.052
35	राजेन्द्र कुमार, पिता नरसिंह दास जाति महाजन नि.ग्राम डोकाकुई	172/2	1.6	0	1.6	0.045	0	0.045
सब मायनर न. एम 4 एस 3 नहर								
36	संतोष, दिलीप पिता शंकरलाल, लीला बाई विधवा शंकरलाल जाति खाती नि.ग्राम डोकाकुई	642	2.02		2.02	0.071		0.071
37	सुभाष पिता रेवाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	643/1	0.66		0.66	0.092		0.092
38	सुनिल पिता रेवाराम अ.पा.कर्ता सागरबाई पति रेवाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	643/2	0.66		0.66	0.061		0.061
39	रामाधार पिता बल्ला जाति बलाई नि.ग्राम डोकाकुई	641	1.62		1.62	0.004		0.004
40	जमुना बाई पति मयाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	647	1.11		1.11	0.022		0.022
41	मयाराम पिता रंगलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	648	0.6		0.60	0.132		0.132
42	घुडु खां पिता अली शेर जाति मैवाती नि.डोकाकुई	649/2	1.78		1.78	0.004		0.004
		650	0.59		0.59	0.012		0.012
43	अलीशेर पिता दलशेर जाति नि.ग्राम रतवाय	666		9.83	9.83		0.140	0.140
44	सुरेश, पिता बालाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	66/2	1.43		1.43	0.062		0.062
45	शब्बीर खां पिता मुन्शी खां जाति मैवाती नि.रतवाय	664/2	0.6		0.6	0.036		0.036
		663/1	0.61		0.61	0.043		0.043

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
46	भागीरथ पिता देवा जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	661		5.98	5.98		0.109	0.109
मायनर न. एम 5 नहर								
47	गोपाल पिता शोभाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	361/1		1.00	1.00		0.057	0.057
48	मंगली बाई पिता धन्ना, जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	361/2		2.61	2.61		0.057	0.057
49	मुकेश पिता गब्बु जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	72		1.62	1.62		0.150	0.150
50	कैलाश पिता गब्बु जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	70		1.56	1.56		0.035	0.035
51	बाबुलाल पिता छोगमल जाति महाजन नि.ग्राम डोकाकुई	357		8.46	8.46		0.326	0.326
52	बद्री पिता तुलसीराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	73		0.70	0.70		0.014	0.014
53	केदार पिता तुलसीराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	360		1.10	1.10		0.020	0.020
54	नारायण पिता गणेश अ.पा. कर्ता गणेश पिता बाबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	358/5		1.19	1.19		0.034	0.034
55	विशाल पिता गणेश अ.पा. कर्ता गणेश पिता गबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम	358/4		1.2	1.2		0.034	0.034
56	गणेश पिता गबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	359	1.79		1.79	0.038		0.038
57	गीताबाई देवी पति मोहनलाल जाति महाजन नि.ग्राम डोकाकुई	356/1		1.62	1.62		0.036	0.036
58	किशन पिता रामचरण जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	362		0.91	0.91		0.014	0.014
59	संजय पिता नत्थु जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	366		1.90	1.90		0.122	0.122
मायनर न. एम 6 नहर								
60	हरिओम पिता नारायण जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	9		1.52	1.52		0.018	0.018
61	नारायण पिता ग्यारस्या जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	10	1.52		1.52	0.061		0.061
62	हेमराज पिता नारायण जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	11		1.52	1.52		0.036	0.036
63	कैलाशचंद पिता सीताराम जाति ब्रह्मण नि.ग्राम डोकाकुई	13/1	3.6		3.60	0.121		0.121
64	सीताराम पिता लक्ष्मीनारायण जाति ब्रह्मण नि.ग्राम डोकाकुई	14	1.55		1.55	0.03		0.030
65	ओमप्रकाश पिता सीताराम जाति ब्रह्मण नि.ग्राम डोकाकुई	15	4.00		4.00	0.072		0.072

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
66	गणपत पिता मांगीलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	16	1.41		1.41	0.11		0.110
67	संदीप पिता राजाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	18/1	1.4		1.4	0.03		0.030
68	कुलदीप पिता राजाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	18/2	1.4		1.4	0.033		0.033
69	जगदीश पिता रंगलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	23	1.25		1.25	0.072		0.072
70	कमल पिता मांगीलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	22/1	1.01		1.01	0.09		0.090
71	रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	22/2	1.01		1.01	0.06		0.060
72	भंवरसिंह पिता नन्नु जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	21	2.02		2.02	0.063		0.063
73	तोलाराम पिता मांगीलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	30	2.2		2.20	0.099		0.099
74	जगदीश पिता भूरा जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	404	6.9		6.90	0.165		0.165
75	गंगाधर पिता धन्ना जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	397	2.83		2.83	0.093		0.093
76	जगदीश पिता गंगाधर जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	398	2.77		2.77	0.162		0.162
		401	1.85		1.85	0.152		0.152
77	प्रकाश पिता गंगाधर जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	403	2.76		2.76	0.089		0.089
78	गिरधर पिता नन्दलाल जाति महाजन नि.ग्राम डोकाकुई	399	1.85		1.85	0.038		0.038
79	गिरधर पिता रामानंद जाति नि.ग्राम	416	3.7		3.70	0.058		0.058
80	गफूर खां पिता घुडू खां जाति फकीर नि.ग्राम डोकाकुई	388	2.02		2.02	0.018		0.018
81	मन्ना बाई घुडू खां जाति फकीर नि.ग्राम डोकाकुई	386	1.69		1.69	0.153		0.153
82	सत्तार, गफूर, बदरुद्दीन, जेबुन बी, मेहरुन बी पिता घुडू खां जाति मैवाती नि.ग्राम डोकाकुई	308	1.9		1.90	0.077		0.077
83	शेख अय्युब पिता शेख सत्तार जाति मुसलमान नि.ग्राम डोकाकुई	309	1.21		1.21	0.043		0.043
84	लखन पिता गबुलाल जाति बलाई नि.ग्राम डोकाकुई	310/1	2.09		2.09	0.153		0.153
85	ईमरान खां पिता भूरेखां जाति मैवाती नि.ग्राम डोकाकुई	310/3	0.2		0.2	0.004		0.004
मायनर न. एम 9 नहर								
86	बसन्त कुमार पिता श्री किशन जाति महाजन नि.ग्राम डोकाकुई	437	2.700		2.700	0.202		0.202
87	रामस्वरूप पिता गबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	440/1	1.270		1.270	0.127		0.127
88	गबुलाल पिता गंगाराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	440/2	0.650		0.650	0.128		0.128

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
89	सुरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल जाति महाजन नि.ग्राम डोकाकुई	443/2	0.780		0.780	0.223		0.223
90	रामप्रसाद पिता सुकराम जाति माली नि.ग्राम डोकाकुई	276	3.880		3.880	0.261		0.261
91	गोरेलाल पिता गोविन्द जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	275	1.730		1.730	0.068		0.068
92	सालगराम पिता रामनाथ जाति माली नि.ग्राम डोकाकुई	272	1.500		1.500	0.153		0.153
93	हबीब खां पिता भूरे खां जाति मैवाती नि.ग्राम डोकाकुई	606		0.530	0.530		0.024	0.024
		608		2.960	2.960		0.192	0.192
94	वहिद खां पिता भूरे खां जाति मैवाती नि.ग्राम डोकाकुई	604/1	1.150		1.150	0.065		0.065
95	आमीन खां पिता वहिद खां जाति मुसलमान नि.ग्राम डोकाकुई	604/2	1.200		1.200	0.016		0.016
96	जिब्राईल खां पिता वहीद खां, इमरान खां पिता भूरे खां जाति मैवाती नि.ग्राम डोकाकुई	611/3	1.620		1.620	0.068		0.068
97	अजयकुमार पिता गणेशराम जाति महाजन नि.ग्राम कन्नौद	613/1	0.400		0.400	0.006		0.006
98	शिवलाल पिता सीताराम जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	613/2	1.600		1.600	0.128		0.128
99	राधेश्याम पिता बापूलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	614	1.990		1.990	0.113		0.113
100	गरिबा पिता रामदेव जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	624		1.620	1.620		0.152	0.152
101	सम्पत बाई विधवा रामदेव, गम्बुलाल गरीब, लखन पिता रामदेव जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	623		0.620	0.620		0.045	0.045
102	लखन पिता रामदेव जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	622		1.210	1.210		0.062	0.062
103	सुगना बाई पति गरीबा जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	621	0.640		0.640	0.024		0.024
		620	0.640		0.640	0.017		0.017
104	सुमन बाई पति लखनलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	619		1.280	1.280		0.105	0.105
105	शारदा बाई पति बाबुलाल जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	618/1		0.880	0.880		0.045	0.045
मायनर न. एम 10 नहर								
106	ईश्वर पिता सीताराम जाति देशवाली नि.पांगरा	481	1.82		1.82	0.202		0.202
107	नारायण पिता रघुनाथ जाति जाट नि.ग्राम हरदाखुई	483	1.82		1.82	0.014		0.014
108	रामनिवास पिता छीतर जाति देशवाली नि.पांगरा	480	3.62		3.62	0.245		0.245
		486/4	2.21		2.21	0.126		0.126
109	जगदीश पिता बाबुलाल जाति नाई नि. ग्राम डोकाकुई	487	1.01		1.01	0.06		0.060
110	कैलाश पिता बाबुलाल जाति नाई नि. ग्राम डोकाकुई	488	1.01		1.01	0.045		0.045
111	बाबुलाल पिता हीरालाल जाति नाई नि. ग्राम डोकाकुई	489	1.84		1.84	0.100		0.100
112	मदनलाल, रामप्रसाद, श्रीराम हरिओम पिता चम्पालाल जाति नाई नि. ग्राम डोकाकुई	490/1	1.65		1.65	0.028		0.028

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
113	दुजियाबाई पति नारायण जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	490/2	1.6		1.6	0.162		0.162
114	रेवाराम पिता जेत्या जाति लोधा नि.ग्राम डोकाकुई	499		1.91	1.91		0.208	0.208
115	नन्दकिशोर पिता नर्मदाप्रसाद जाति लोधा नि. ग्राम डोकाकुई	503		0.97	0.97		0.045	0.045
116	रामभरोसी बाई पिता नत्थू जाति नाई नि. ग्राम डोकाकुई	502/1	2.02		2.02	0.172		0.172
117	कुबराबाई पति छोटे खां जाति मैवाती नि.ग्राम डोकाकुई	52/2	0.45		0.45	0.004		0.004
118	रामप्रसाद पिता पुन्या जाति देसवाली नि. डांगराखेडा	524	1.51		1.51	0.068		0.068
119	गोपाल पिता प्रहलाद जाति देसवाली नि.डांगराखेडा	525		1.24	1.24		0.123	0.123
120	गोविन्द पिता प्रहलाद जाति देसवाली नि.डांगराखेडा	526		1.24	1.24		0.174	0.174
सब मायनर न. एम 10 एस 1 नहर								
121	रामनिवास पिता छीता जाति देसवाली नि.पांगरा	480	3.62		3.62	0.027		0.027
122	रामनिवास पिता छीता जाति देसवाली नि.पांगरा	486/4	2.21		2.21	0.105		0.105
123	रामनिवास पिता प्रहलाद जाति चमार नि.पांगरा	486/3	0.6		0.60	0.027		0.027
124	दिनेश पिता भगीरथ अ.पा.कर्ता, कमलाबाई पति भागीरथ जाति चमार नि.पांगरा	486/1	0.6		0.60	0.032		0.032
125	दिनेश पिता भगीरथ अ.पा.कर्ता, कमलाबाई पति भागीरथ जाति चमार नि.पांगरा	486/2	1.62		1.62	0.09		0.090
	योग	136	181.180	60.640	241.720	10.024	3.008	13.032

प्र.क 7 / ए-82 / 13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- चपलासा		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	1.261	0.025	1.286
	(2) मायनर नं. 2 नहर	1.057	0.000	1.057
	(3) मायनर नं. 3 नहर	3.28	0.075	3.355
	(4) मायनर नं. 3 एस 1 नहर	1.47	0.000	1.470
	योग	7.068	0.100	7.168

अनुसूची (2)

मुख्य नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	गणेश पिता शंकरलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	11	0.840		0.840	0.157		0.157
2	माधवपुरी पिता केशवपुरी व पवन पिता जगदीश अ.पा. कर्ता माधवपुरी पिता केशवपुरी नि.ग्राम चपलासा	12		0.200	0.200		0.025	0.025
3	कैलाश पिता चेतन जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	19/1/2				0.029		0.029
4	अज्जु बाई पति कैलाश जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	19/1/1	0.660		0.660	0.160		0.160
5	ओमप्रकाश पिता बाबूलाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	19/2	1.600		1.600	0.124		0.124
6	कानपुरी पिता पुरापुरी जाति गुसाई नि.ग्राम चपलासा	20	4.690		4.690	0.056		0.056
7	नरेन्द्र पिता कैलाश जाति गुसाई नि.ग्राम चपलासा	29/2	0.420		0.420	0.063		0.063
8	श्रवण पिता कैलाशराव जाति ढोली नि.ग्राम चपलासा	29/1	0.750		0.750	0.158		0.158
9	बलीबाई विधवा देवीसिंह, निर्मल, चिमन पिता लाल्या जाति बारेला नि.ग्राम चपलासा	24	3.650		3.650	0.348		0.348
10	रेखाबाई पति गणेशचन्द्र जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	25	2.300		2.300	0.166		0.166
मायनर नं. (M) 2 नहर								
11	विनिता पिता कैलाशचंद्र जाति महाजन नि.ग्राम चपलासा	5/1	1.400		1.400	0.136		0.136
12	गजानंद पिता गण्पूलाल जाति नाई नि.ग्राम चपलासा	5/2	2.000		2.000	0.205		0.205
13	बद्रीलाल पिता गण्पूलाल जाति नाई नि.ग्राम चपलासा	6/1	1.900		1.900	0.068		0.068
14	बृजमोहन पिता बद्रीलाल जाति नाई नि.ग्राम चपलासा	6/2	1.800		1.800	0.058		0.058
15	नितेश पिता बद्रीलाल जाति नाई नि.ग्राम चपलासा	6/3	1.800		1.800	0.067		0.067
16	रामोत्तार पिता जगराम जाति खाती नि.ग्राम चपलासा	208	1.590		1.590	0.074		0.074
		209	1.580		1.580	0.110		0.110
		210	1.580		1.580	0.035		0.035
17	हरिराम पिता बद्रीलाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	213	5.660		5.660	0.242		0.242

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
18	कपिल पिता प्रेमनारायण जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	217	1.120		1.120	0.062		0.062
एम 3 नहर								
19	ओमप्रकाश पिता बाबूलाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	19/2	1.960		1.600	0.052		0.052
20	नरेन्द्र पिता कैलाशराव जाति ढोली नि.ग्राम चपलासा	30	0.930		0.930	0.116		0.116
21	सुआ बाई पति बाबूलाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	31/2	0.67		0.670	0.083		0.083
22	पंकज पिता किशोर जाति नाई नि.ग्राम चपलासा	27/2	1.12		1.120	0.083		0.083
23	अजुत्या बाई वि. बाबूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम चपलासा	84	2.41		2.410	0.010		0.010
24	राहुल पिता कैलाश जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	83	1.93		1.930	0.132		0.132
25	सुरेश पिता हीरालाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	82	4.58		4.580	0.138		0.138
26	हीरालाल पिता धन्नालाल नि.ग्राम चपलासा	77	1.45		1.450	0.028		0.028
27	राजेश पिता हीरालाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	78	3.24		3.240	0.189		0.189
28	बलराम पिता हरचंद्र जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	76	1.82		1.820	0.030		0.030
29	कृष्णा बाई पति बलराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	79	1.6		1.600	0.137		0.137
30	प्रेमबाई पति रामभरोसे जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	122	1.94		1.940	0.105		0.105
31	धर्मेन्द्र पिता रामबलिरास जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	119	4.16		4.160	0.182		0.182
32	हजारी पिता गिरधारी जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	116	6.51		6.510	0.257		0.257
33	रेवाराम पिता सुरता जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	321	1.700		1.700	0.068		0.068
34	जगदीश पिता रुग्या जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	322/1	0.400		0.400	0.026		0.026
35	शुभम शिवानी पिता रामनिवास अ.पा.क.	322/2	1.4		1.400	0.105		0.105
36	हरीराम पिता चेतनराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	324	3.67		3.67	0.100		0.100
37	हरनारायण पिता सेवाराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	326/1	4.11		4.110	0.250		0.250

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
38	रुगनाथ पिता सेवाराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	332/1	4.32		4.320	0.074		0.074
39	रामविलास पिता रामचंद्र जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	333/1	3.15		3.150	0.127		0.127
40	जवाहरलाल पिता बाबूलाल जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	335	1.96		1.960	0.005		0.005
41	सुनिल पिता बलराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	349	5.00		5.00	0.220		0.220
42	रेवाशंकर पिता रामनारायण जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	364/1	5.54		5.540	0.122		0.122
43	मणी बाई पति रेवाशंकर जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	364/2	4.000		4.000	0.082		0.082
44	संजय, कुमार पिता नर्मदाप्रसाद जाति महाजन नि.ग्राम चपलासा	366	0.02		0.020	0.042		0.042
48	वल्लभदास, नर्मदाप्रसाद पिता प्रहलाद जाति महाजन नि.ग्राम चपलासा	367	5.48		5.480	0.144		0.144
49	राजू पिता जगदीश जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	370/3	0.81		0.810	0.027		0.027
50	रामेश्वर पिता किशनलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	371	1.69		1.690	0.116		0.116
51	दिनेश कुमार अ.पा.क. भागवती बाई पति रामेश्वर जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	372		0.81	0.810		0.075	0.075
52	जगदीश पिता गिरधारी जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	373	6.82		6.820	0.230		0.230
एम 3 एस 1 नहर								
53	प्रेमबाई पिता रामभरोसे जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	122	1.94		1.940	0.055		0.055
54	धर्मेन्द्र पिता रामविलास जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	119	4.16		4.160	0.075		0.075
55	हजारी पिता गिरधारी जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	117	0.300		0.300	0.035		0.035
56	धर्मेन्द्र पिता रामविलास जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	118	0.52		0.520	0.072		0.072
57	कैलाश पिता चेतनराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	129/1/2	0.66		0.660	0.099		0.099
58	प्रेमबाई पति चेतनराम जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	129/2	1.2		1.200	0.099		0.099
59	धर्मेन्द्र पिता रामविलास जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	254/2	2.73		2.730	0.164		0.164

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
60	चेतनराम पिता भागीरथ जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	255	7.25		7.250	0.121		0.121
		261	0.7		0.700	0.010		0.010
61	हेमराज पिता हरचंद जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	309	3.27		3.270	0.179		0.179
62	हरीराम पिता हरचंद जाति जाट नि.ग्राम चपलासा	307	1.71		1.710	0.117		0.117
63	शिवराम पिता गंगाराम जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	286	0.75		0.750	0.045		0.045
64	बलराम पिता सुखदेव जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	285	1.59		1.590	0.089		0.089
65	बलराम पिता सुखदेव जाति कुम्हार नि.ग्राम चपलासा	287	0.22		0.220	0.085		0.085
66	राजेन्द्र कुमार पिता रामचंद्र जाति महाजन नि.ग्राम चपलासा	288	1.35		1.350	0.175		0.175
67	शांताबाई बेवा रामचंद जाति महाजन नि.ग्राम चपलासा	289	1.21		1.210	0.050		0.050
68	शिवराम पिता मोती जाति खाती नि.ग्राम चपलासा	290/1	0.11		0.110	0.025		0.025
	योग	68	153.4	1.01	154.410	7.068	0.100	7.168

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 133-भू-अर्जन-14

सिंगरौली, दिनांक 17 फरवरी 2014

करारनामा

मेसर्स, एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2,, जेपी नगर रीवा, पिन कोड-486450 द्वारा श्री के. आर. रघू पिता स्व. श्री के. सुब्बाराव, उम्र 56 वर्ष.

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म. प्र.)

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-31-2013-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2013 के अनुसार ग्राम-गजराबहरा (4.98 हे.) खनुआ खास (9.32 हे.) खनुआ नया (0.12 हे.) फाटपानी (2.88 हे.) झलरी (17.06 हे.) एवं बजौड़ी (2.93 हे.) एमपीजेपी कोल लिमिटेड डोंगरी ताल-2 कोल ब्लाक से उत्खनन किये जाने वाले कोयले के उद्घवन हेतु रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए तहसील-सरई, जिला-सिंगरौली (म. प्र.) की निजी भूमि कुल रकबा 37.29 हे. के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 17-2-2014 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित किया गया—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही ग्राम गजराबहरा, खनुआ खास, खनुआ नया, फाटपानी, झलरी एवं बजौड़ी की भूमि के मूल्यांकन के आधार पर राशि रुपये 69541794.00 एवं 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की राशि रुपये 6954179.00 कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
3. कम्पनी द्वारा (इस आशय की करारनामे या बचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रता अनुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थाई योजना को सम्बन्धित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
4. सम्बन्धित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य भू-अर्जन अधिनियम तथा सम्बन्धित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा.
5. सम्बन्धित परियोजना को स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देशों के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
6. कम्पनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये जिला कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ, अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से सम्बन्धित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
8. अर्जित की गई उक्त निजी भूमियों का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार भू-अर्जन अधिनियम की धारा 44(क) के तहत राज्य शासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा.
12. यदि कम्पनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, ईमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी भी प्रकार का मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पालन कम्पनी को करना होगा.
20. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
21. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा.
22. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यकता शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.

23. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित “जय प्रकाश सेवा संस्थान” जो की ट्रस्ट के रूप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर मेसर्स एम. पी. जे. पी. कोल लिमिटेड कार्यवाही कर समस्त व्यय का वहन भी करेगी.
24. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा.
25. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थिति फलदार एवं इमारती वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय गणना पत्रक के अनुसार दुगने पेड़ वन विभाग या उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कम्पनी द्वारा किया जायेगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे.
26. परियोजना से विस्थापित लोगों के लिए शासन एवं कम्पनी के बीच में की जाने वाली पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करारनामा का शासन से अनुमोदन होने के पश्चात् इस करारनामों का एक अंग या भाग माना जायेगा.
27. पुनर्वास के मुद्दे या आर एण्ड आर करारनामों का क्रियान्वयन कम्पनी को पालन करना होगा. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की शर्तों के क्रियान्वयन एवं विस्थापन के किसी भी मुद्दे पर कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा जो कम्पनी को मान्य होगा.
28. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करारनामे का शासन की संतुष्टि पर क्रियान्वयन के पश्चात् ही अर्जित भूमि का कब्जा कम्पनी को देय होगा. यदि कम्पनी किन्हीं कारणों से पुनर्वास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है तो कलेक्टर द्वारा कम्पनी को समक्ष में सुनवाई का अवसर देते हुए राशि वसूल कर शासकीय संस्था से आवश्यक पुनर्वास कार्य कराये जावेंगे.
29. परियोजना क्षेत्र के आस-पास की ग्रामीण सड़कों पर कम्पनी के भारी वाहनों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण सड़कों क्षतिपूर्ति, चौड़ीकरण एवं मुरमीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कम्पनी को कड़ाई से पालन करना होगा.

यह अनुबंध (करारनामा) दिनांक 17 फरवरी 2014 को एम. पी. जे. पी. कोल लिमिटेड डोंगरी ताल-2 जे. पी. नगर, रीवा मध्यप्रदेश द्वारा श्री के. आर. रघू. महाप्रबंधक (समन्वय) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की ओर से कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

हस्ता./-

(के. आर. रघू)

महाप्रबंधक,
एम. पी. जे. पी. कोल लि.,
डोंगरीताल-III

हस्ता./-

(एम. सेलवेन्द्रन)

कलेक्टर,
जिला सिंगरौली, (म. प्र.)

क्र. 134-भू-अर्जन-14

सिंगरौली, दिनांक 17 फरवरी 2014

करारनामा

मेसर्स, आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, तृतीय तल रेयर ब्लॉक एच. एम. डब्ल्यू. एस. एस. बी, प्रेमिसेस, खैरताबाद, हैदराबाद (आ. प्र.) कोड—500004 द्वारा श्री वाई राजेश्वर रेड्डी पिता श्री वाई रंगा रेड्डी उम्र 54 वर्ष.

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म. प्र.)

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 16-04/2013/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 24 मई 2013 के अनुसार ग्राम आमडाड़ (47.23 हे.), मझौली पाठ (114.48 हे.), सिरसवाह (29.15 हे.), बेलवार (85.92 हे.), झलरी (356.55 हे.),

डोगरी (83.98 हे.), अमरई खोह (2.72 हे.), बजौड़ी (0.25 हे.) में कोयला उत्खनन एवं सेप्टी जोन के लिए तथा ग्राम खनुआ नया टोला (71.05 हे.) पुनर्वास के लिए तहसील सरई, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश की निजी भूमि कुल किता 2987, रकबा 791.33 हे. के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 17 फरवरी 2014 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित किया गया—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही ग्राम मझौली पाठ, बेलवार, सिरसवाह, अमरईखोह, आमडाड़, खनुआ नया टोला, झलरी, बजौड़ी एवं डोगरी की भूमि के मूल्यांकन के आधार पर राशि रु. 28.54 करोड़ शतप्रतिशत राशि का 10 प्रतिशत राशि एवं राशि रु. 1,11,72,28,751.00 रुपया कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
3. कम्पनी द्वारा (इस आशय की करारनामे या बचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रता अनुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थाई योजना को सम्बन्धित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
4. सम्बन्धित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य भू-अर्जन अधिनियम तथा सम्बन्धित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा.
5. सम्बन्धित परियोजना को स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देशों के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
6. कम्पनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये जिला कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से सम्बन्धित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
8. अर्जित की गई उक्त निजी भूमियों का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार भू-अर्जन अधिनियम की धारा 44(क) के तहत राज्य शासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा.
12. यदि कम्पनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, ईमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी भी प्रकार का मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पालन कम्पनी को करना होगा.
20. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
21. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा.
22. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यकता शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.
23. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा.
24. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थिति फलदार एवं इमारती वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय गणना पत्रक के अनुसार दुग्ने पेड़ वन विभाग या उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कम्पनी द्वारा किया जायेगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे.
25. परियोजना से विस्थापित लोगों के लिए शासन एवं कम्पनी के बीच में की जाने वाली पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन करारनामा का शासन से अनुमोदन होने के पश्चात् इस करारनामों का एक अंग या भाग माना जायेगा.
26. पुनर्वास के मुद्दे या आर एण्ड आर करारनामे का क्रियान्वयन कम्पनी को पालन करना होगा. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की शर्तों के क्रियान्वयन एवं विस्थापन के किसी भी मुद्दे पर कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा जो कम्पनी को मान्य होगा.
27. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन करारनामे का शासन की संतुष्टि पर क्रियान्वयन के पश्चात् ही अर्जित भूमि का कब्जा कम्पनी को देय होगा. यदि कम्पनी किन्हीं कारणों से पुनर्वास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है तो कलेक्टर द्वारा कम्पनी को समक्ष में सुनवाई का अवसर देते हुए राशि वसूल कर शासकीय संस्था से आवश्यक पुनर्वास कार्य कराये जावेंगे.

28. परियोजना क्षेत्र के आस-पास की ग्रामीण सड़कों पर कम्पनी के भारी वाहनों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण सड़कों क्षतिपूर्ति, चौड़ीकरण एवं मुरमीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कम्पनी को कड़ाई से पालन करना होगा.

यह अनुबंध (करारनामा) दिनांक 17 फरवरी 2014 को ए. पी. एम. डी. सी. लिमिटेड तृतीय तल रेयर ब्लॉक एच. डब्ल्यू. एस. एस. बी. प्रेमिसेस, खैरताबाद, हैदराबाद (आ. प्र.) द्वारा श्री वाई. राजेश्वर रेड्डी, मुख्य परियोजना अधिकारी एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की ओर से कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

हस्ता./-

हस्ता./-

(वाई. राजेश्वर रेड्डी)
मुख्य परियोजना अधिकारी,
ए. पी. एम. डी. सी.
सुलियरी कोल ब्लॉक
जिला-सिंगरौली (म. प्र.)

(एम. सेलवेन्द्रन)
कलेक्टर,
जिला-सिंगरौली, (म. प्र.)

कार्यालय, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 फरवरी, 2014

क्र. एफ-1-5-13-रा.स.-यू.ए. 1-189.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

- | | | | |
|----|---|------------------|--|
| 1. | डॉ. देव स्वरूप,
कुलपति,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर (राजस्थान). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित |
| 2. | प्रो. दिनेश सिंह,
कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली. | समिति के सदस्य | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
द्वारा मनोनीत. |
| 3. | श्री विवेक कृष्ण तन्खा,
वरिष्ठ अधिवक्ता,
सर्वोच्च न्यायालय,
नई दिल्ली. | समिति के सदस्य | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित |

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. देव स्वरूप को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्र. 6-1-2014-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला (राजस्व जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भोपाल	भोपाल	1. डॉ. के. एस. दुबे अध्यक्ष 2. श्रीमती रेखा श्रीधर सदस्य

No. 6-1-2014-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhopal	Bhopal	1. Dr K. S. Dubey Chair Person 2. Smt. Rekha Shridhar Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 22 जनवरी 2014

प्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	रामगढ़	8.986	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य अंतर्गत.
म.प्र.					

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	परसौरा	1.795	अनुविभागीय अधिकार एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य अंतर्गत.
म.प्र.					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. कले.-जबलपुर-एस.डब्ल्यू.-1486-2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) एवं पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक अअवि-स्थापना-939-13, दिनांक 30 सितम्बर 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा अपराध शाखा जबलपुर को संगठित अपराध व्यवसायिक अपराधियों द्वारा किये गये अपराध गम्भीर एवं अन्य अपराध जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जावें, के अनुसंधान के लिये पुलिस थाना होना घोषित किया जाता है.

यह, पुलिस थाना अपराध शाखा, जबलपुर कहलायेगा. जिसका क्षेत्राधिकार पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के कार्यक्षेत्र में समाविष्ट सम्पूर्ण क्षेत्र पर विस्तारित होगा.

No. S.W.-1486-2014.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and order No. CID-Est-939-13, Dated 30th September 2013 of PHQ CID M.P., Bhopal, the State Government, hereby declares the Crime Branch, Jabalpur to be a Police Station for the purpose of investigation of cases of Organized Crimes, Crimes Committed by professional Criminals, Heinous offences and other cases as directed by senior officers.

The said Police Station shall be called as the Police Station Crime Branch, Jabalpur and its territorial jurisdiction shall be co terminus with jurisdictional area of S.P. Jabalpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 2476-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बांसा	24.084	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2478-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मड़वा	20.466	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2480-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गहिरा	5.084	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2482-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टीकर बृत्त	57.739	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2484-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	शिवपुरवा रानी	23.376	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2486-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	शिवपुरवा	4.024	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2488-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सहिजना	6.526	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2490-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती	10.516	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2492-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	हर्दी	19.643	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2494-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बेला	9.610	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2496-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	खाम्हडीह	4.878	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2498-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अतरारी	5.314	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2500-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमराडाड़ी	0.066	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2502-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	भुसुनुवा	8.238	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2504-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गौरा	5.170	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2506-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बड़ागाँव	8.934	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2508-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गुढ़वा	6.031	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2510-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बदवार	48.328	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2512-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बरसैता	7.380	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2514-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	लढ़	2.690	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2516-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	रेरुआ	1.692	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2518-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	शुकुलगवां	4.525	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2520-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	नरहा	8.243	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2522-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	कर्चुलियान टटेहरा	12.132	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2524-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	कर्चुलियान महगंवा	10.570	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2526-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धरौरा	5.107	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2528-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दादर	14.141	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2530-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	उलही 53	5.066	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2532-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	उलही कला	12.659	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2534-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भीर 55/45	2.912	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2536-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भोथी	4.577	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2538-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पलिया कोठार	5.246	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2540-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रघुराजगढ़	28.934	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2542-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अमवा मामला	16.228	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2544-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दुबहा	12.962	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2546-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पतेला गुड़िया	1.139	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2548-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पतेला तिवारी	5.345	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2550-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पतेला पुड़हन	4.145	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2552-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	अटरा	7.924	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2554-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पलिया त्रिवेणी सिंह	15.938	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2556-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पटपरा जागीर	10.376	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2558-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	मिसिरगवां	10.115	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2560-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	सरई कृष्णकुमार	8.234	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2562-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	सगरा	10.531	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 2678-प्रशा.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	सगौनी	0.13	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर सगौनी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2564-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्थौथर	बघेड़ी	2.810	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्थौथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्थौथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2566-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौँथर	देउपा	6.560	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौँथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2568-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौँथर	खटिया	0.480	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौँथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2570-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौँथर	ऊसरगांव	0.800	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौँथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2572-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौँथर	चंदई	4.500	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौँथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2574-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौँथर	पंछा	0.540	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौँथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2576-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कल्याणपुर मामला-55	2.93	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौँथर	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौँथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2578-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गुढ़ पवाई-140	12.60	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2580-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	टिकेतन पुरवा-214	2.93	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2582-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बधाई की पाती-368	3.15	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2584-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कोटवा पैपखार-89	6.60	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2586-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	गोदकला-148	4.25	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2588-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पाती सरनाम सिंह-323	3.08	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2590-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बरहुला सीगो टोला-384	8.93	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2592-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गगहना पैपखार-129	1.00	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2594-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रमगढवा पवाई-486	15.00	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2596-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	नौवस्ता पवाई-291	2.25	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2598-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पतीहन पुरवा-385	3.45	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2600-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	सलैयाकला कोठार-525	8.05	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2602-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बडाछ कोठार-367	7.67	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2604-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घटेहा-159	9.38	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2612-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	मोहनपुर पवाई-479	2.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2614-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	गोद खुर्द-149	9.32	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2616-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	फुलदेउर	6.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2618-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	रामपुर-495	9.18	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2620-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	डोडौ-239	8.92	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2622-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	भटमोजरा-420	7.47	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2624-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	खमरिया-110	4.73	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2626-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	जोडावर पुर पवाई-203	1.58	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2628-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कुसहा पवाई-71	2.48	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2630-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	जोडावर पुर कोठार-204	0.67	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2632-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कल्याणपुर मामला न.2-57	11.93	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2634-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लटियार कोठार-503	23.40	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2636-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	खारा-115	8.15	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2638-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रीमारी-495	7.82	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2640-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कोनी कला कोठार-84	57.90	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2642-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	अतरैला पैपखार-10	5.25	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2644-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	कांटी कोठार	2.600	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2646-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	उसरी	2.600	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2648-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	फरहदी	5.930	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2650-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	अंतरैला कोठार	3.650	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2652-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	मझिगावां	0.437	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2654-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	रक्सहा	0.073	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2656-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	सोहागी	0.112	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2658-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	पुरवा	0.030	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2660-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	गोपालपुरवा	0.90	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2662-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	चुनरी	0.30	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्बहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तिया का अर्जन.

प. क्र. 2664-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	अमिलकोनी भाईप	3.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्बहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तिया का अर्जन.

प. क्र. 2666-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पाती-322	7.87	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2668-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	दरहा-257	7.68	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2670-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	उपरवार कोठार-37	5.85	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2672-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	खाड़ा-114	17.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2674-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लोहरौही-518	7.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2676-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	मदरी-452	15.00	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर फ्लो योजना के लिये नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2680-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	जनकहाई कला-200	27.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2682-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	मृगशिकारिन पुरवा-469	4.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2684-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पटेहरा-313	6.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2686-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	केचुहा-75	3.65	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2688-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सिरमौर खास	3.00	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2700-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रघुनाथपुर-287	7.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2702-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बसुआर-371	2.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2704-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	अठठरा-19	5.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2706-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	नगमा-277	3.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2708-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बरहटा-370	8.00	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2710-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	भनिगवा-424	31.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2712-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोहट-152	2.46	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2714-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	क्यौटा-82	3.41	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2716-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	चरपनिहन पुरवा-176	2.60	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2718-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	तेजनहा-254	2.70	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2720-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	तेंदुन-252	15.80	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2722-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	खटिका-104	2.56	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2724-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पैरा-338	8.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2726-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	जनकहाई खुर्द-199	9.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2728-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	नीवा-285	15.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2730-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बैगनपुरवा-411	5.40	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2732-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कटांगी-42	3.65	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2734-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लूक न. 2-513	6.90	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2736-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पुरौना-335	5.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2738-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कैथी-79	2.25	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2740-भू-अर्जन-2014.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	डांडी-225	7.20	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2742-भू-अर्जन-2014.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लूक न. 4-515	8.15	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2744-भू-अर्जन-2014.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लूक न. 3-514	6.80	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2746-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	लवरपुरवा रामबाग-506	8.40	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 2748-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पटहट	3.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2750-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	हनुमानगंज-567	7.40	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2752-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लूक न. 1-512	7.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2754-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोहटा न. 1-153	2.46	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2756-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोवरा-156	5.20	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2758-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	देवरी-267	3.60	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2760-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	शाहपुर-536	7.40	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2762-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	लवरपुरवा रामबाग-507	8.70	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2764-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	इटमा-25	15.75	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2766-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रौली	2.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2768-भू-अर्जन-2014.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	चकनन्दी भौजी-174	3.80	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2770-भू-अर्जन-2014.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोहटा न. 3-155	2.70	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2772-भू-अर्जन-2014.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पुरवा-331	5.15	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2774-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बाबूपुर-398	8.10	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2776-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	सिगमा-538	4.90	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 2778-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	खरपटा-109	3.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	त्यौंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 2780-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	सितलहा-542	2.40	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 2782-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोहटा न. 2-154	2.60	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक एवं उससे निकलने वाली माइनर एवं सवमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 2784-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	बड़ेरा	2.64	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2786-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	सरबहना	9.24	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2788-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	फुटौधा	11.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2790-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	बारी खुर्द	12.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2792-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	कुआं	11.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2795-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	डगडीहा	1.88	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2796-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	कोठार	5.72	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2798-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पासी	8.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 सतना (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2800-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बैलिहा	0.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगावां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2802-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	तुरी	9.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2806-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया	2.52	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2808-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	हाटी	2.28	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2810-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	जैतवारा 163	3.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2812-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	जैतवारा	6.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2814-भू-अर्जन 13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कोनिया	4.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 02 सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2816-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	झरी	7.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2818-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	झरी नं. 7	0.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2820-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कुबरी	2.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2822-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मेहुती	18.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2824-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कलवलिया	7.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2826-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सिमरी	4.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2828-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	आराह	3.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2830-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पडुहार	2.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2832-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	रिमारी	3.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2834-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गहिरी	1.30	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2 (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2836-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सेमरी	8.850	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2838-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मोहनिया	10.200	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2840-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	तिहाई	2.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2842-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	भटगवां	12.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2844-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	घोरकाट	10.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2846-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कौड़िहा	2.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2848-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	छिरहटा	2.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2850-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपराछ	4.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2852-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया	3.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2854-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सोनवर्षा	4.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2856-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कचनार	1.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2858-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	झकुरा	4.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2860-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा	4.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2862-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी	2.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क 2 / ए-82 / 13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दतूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक परमोत्तमार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- बिच्छाखेड़ी		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मायनर नं. 10 नहर	1.148	0.207	1.355
	(2) सब मायनर नं. एम 4 एस 3 नहर	0.833	0.103	0.936
	(3) सब मायनर नं. एम 10 एस 2 नहर	1.871	0.114	1.985
	योग	3.852	0.424	4.276

अनुसूची. (2)								
डिस्ट्रीब्यूटरी नं.1 नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	ज्वालाप्रसाद पिता हरी जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	91	1.210		1.210	0.150		0.150
2	पेलाद दत्तक पुत्र हरी जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	92		0.200	0.000		0.054	0.054
3	शैतान पिता हीरालाल जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	94	1.420		1.420	0.083		0.083
4	गबू पिता हीरालाल जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	95	1.420		1.420	0.075		0.075
5	राजाराम पिता रामपाल, कौशल्याबाई वि. रामपाल, दूजीयाबाई, लच्छीबाई, सूननबा	96		1.970	1.970		0.016	0.016
6	राजाराम पिता रामपाल जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	97	1.970		1.970	0.130		0.130
7	सुरेश पिता गबूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम बिच्छाखेडी	108	1.740		1.740	0.057		0.057
8	दिनेश पिता गबूलाल जाति ब्राह्मण नि.डांगराखेडा	109	1.740		1.740	0.063		0.063
9	मेहेश पिता गबूलाल जाति ब्राह्मण नि.डांगराखेडा	110	1.740		1.740	0.102		0.102
10	गीताबाई पति कृष्णा जाति ब्राह्मण नि.ग्राम बिच्छाखेडी	111		2.070	2.070		0.138	0.138
11	कृष्णा पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण नि.डांगराखेडा	112	1.830		1.830	0.013		0.013
12	भागीरथ पिता जयनारायण जाति देशवाली नि. ग्राम बिच्छाखेडी	113	1.980		1.980	0.017		0.017
13	रामप्रसाद पिता कालू जाति बलाई नि.बावडीखेडा	116/1	2.050		2.050	0.124		0.124
14	लक्ष्मीबाई पति चतुर्भुज जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	120	6.580		6.580	0.084		0.084
15	केदार पिता बद्री, शंकरबाई वि. बद्री जाति देशवाली नि.डांगराखेडा	121/1	2.000		2.000	0.010		0.010
16	रामेश्वर पिता केदार जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	121/2	1.600		1.600	0.240		0.240
सब मायनर न एम 10 एस 1 नहर								
17	गेंदालाल पिता चम्पालाल जाति चमार नि.ग्राम बिच्छाखेडी	49	1.210		1.210	0.086		0.086
18	बद्री पिता धन्ना जाति लौदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	51	2.870		2.870	0.106		0.106
19	शिवलाल पिता नत्थू जाति लौदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	44/1	3.110		3.110	0.124		0.124

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
20	देवा,किशन,बाबू पिता कोदर,पन्ना पिता लोदा जगदीश पिता बोंदर जाति लोदा राधीबाई पिता बोंदर जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	56	4.960		4.960	0.169		0.169
21	केवलराम पिता नथू जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	40	2.440		2.440	0.076		0.076
22	देवा,किशन,बाबू पिता केदार जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	38	3.390		3.390	0.175		0.175
23	सुभाषचंद्र पिता बाबूलाल जाति महाजन नि.ग्राम बिच्छाखेडी	37/1	0.940		0.940	0.043		0.043
24	राजेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल जाति महाजन नि.ग्राम बिच्छाखेडी	35		1.240	1.240		0.103	0.103
25	मोहन पिता केवलराम जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	34	1.240		1.240	0.054		0.054
सब मायनर न. एम 10 एस 2 नहर								
26	शैतान पिता हीरालाल जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	94	1.420		1.420	0.198		0.198
27	गबू,किशन,शैतान,राजाराम पिता हीरालाल, हरी पिता रुपा मांगीलाल पिता भूरा जाति लोदा नि.ग्राम भूमि स्वामी रामलाल पिता भेरुसिंह जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	83	2.170		2.170	0.121		0.121
28	गूलाब पिता बाबूलाल जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	99		1.420	1.420		0.114	0.114
29	प्रकाशचंद्र पिता गैन्डालाल जाति महाजन नि.ग्राम बिच्छाखेडी	100	2.800		2.800	0.019		0.019
30	चन्द्रशेखर पिता प्रकाशचंद्र जाति महाजन नि.कन्नोद	101	2.000		2.000	0.161		0.161
31	गिरजाबाई पति जगदीश जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	102	1.620		1.620	0.062		0.062
32	घुडिया पिता केवलराम जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	228/2	1.900		1.900	0.174		0.174
33	सीताराम पिता देवा जाति लोदा नि.ग्राम बिच्छाखेडी	227/2	1.600		1.600	0.132		0.132
34	प्रमेनारायण पिता शिवनारायण जाति देशवाली नि.कन्नोद	226	3.640		3.640	0.009		0.009
35	राजेन्द्र कुमार पिता जगदीश जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	150	1.220		1.220	0.247 0.041		0.247 0.041
36	किशोर पिता शिवनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	236	3.640		3.640	0.215		0.215
37	नारायणी बाई पति प्रहलाद जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	148/1	5.650		5.650	0.080		0.080
38	राहुल पिता भगवत सिंह जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	148/3	2.400		2.400	0.086		0.086
39	अर्जुन पिता छोटेलाल जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	147/1	2.400		2.400	0.027		0.027

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
40	अर्जुन पिता छोटेलाल जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	147/4	1.900		1.900	0.065		0.065
41	शारदाबाई पति छोटेलाल जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	147/5	0.750		0.750	0.111		0.111
42	शारदाबाई पति छोटेलाल जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	146/3	1.140		1.140	0.038		0.038
43	अनिल पिता कैलाश जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	248/4	0.590		0.590	0.030		0.030
44	अनिल पिता कैलाश जाति देशवाली नि.ग्राम बिच्छाखेडी	249	1.410		1.410	0.055		0.055
	योग	44	85.690	6.900	92.950	3.852	0.424	4.276

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेम उप सचिव म.प्र शासन राजस्व विभाग देवास

प्र.क 3 / ए-82 / 13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरो के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- कोठड़ी		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	5.007	0.302	5.309
	(2) सब मायनर नं. एम 4 एस 4 नहर	1.624	0.104	1.728
	(3) सब मायनर नं. एम 4 एस 5 नहर	1.198	0.000	1.198
	योग	7.829	0.406	8.235

अनुसूची (2)								
मुख्य नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	हीरालाल पिता मनीराम जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	1/1	0.38		0.38	0.034		0.034
2	मोतीलाल पिता रामचन्द्र जाति देशवाली पता नि. ग्राम कोटरी	4		2.630	2.630		0.012	0.012
3	चम्पालाल पिता मोतीलाल जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	5/2	2.810		2.810	0.307		0.307
4	श्री किशन पिता पूनमचन्द प्रहलाद पिता भागीरथ जाति देशवाली पता नि. ग्राम कोटरी	9/1	6.740		6.740	0.085		0.085
5	नारायण पिता चम्पालाल जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	14/1	1.070		1.070	0.050		0.050
6	प्रहलाद पिता भागीरथ जाति देशवाली पता नि. ग्राम कोटरी	12	2.830		2.830	0.090		0.090
7	विजय सिंह, अजय सिंह पिता रामहेत जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	11	6.980		6.980	0.432		0.432
8	अर्जुन सिंह पिता सोनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	136	4.900		4.900	0.420		0.420
9	देवकी बाई वि. सोनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	135	7.040		7.040	0.338		0.338
10	संजय कुमार पिता सूरज प्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	132	3.270		3.270	0.273		0.273
11	संतोष कुमार पिता शिवतरण अ.पा.क. शिवचरण पिता सूखलाल जाति कहार जाति कहार नि.ग्राम कोटरी	131		0.810	0.810		0.135	0.135
12	मंजूबाई पति रामेश्वर जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	130/2		1.330	1.330		0.072	0.072
13	गंगाविशन पिता प्यारेलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	279/1	4.18		4.18	0.004		0.004
		277	6.63		6.63	0.081		0.081
14	हेमेन्द्र पिता गंगाविशन जाति ब्राह्मण नि. ग्राम कोटरी	279/2	1.60		1.60	0.002		0.002
		278/2	0.35		0.35	0.032		0.032
15	विष्णु पिता गंगाविशन जाति ब्राह्मण नि. ग्राम कोटरी	278/1	1.26		1.26	0.113		0.113
16	सिंगराम पिता हीरागोपाल पिता भीकू सोदरा बाई पिता भीकू जाति गौड नि.ग्राम कोटरी	295	2.63		2.63	0.059		0.059
		296	2.66		2.66	0.055		0.055
17	बाबू पिता घीसू कैलाश पिता झबू समौता बाई वि. झबू जाति गौड नि. ग्राम किलोदा बी	297	2.57		2.57	0.081		0.081
		306/1	0.24		0.24	0.012		0.012
18	धरम सिंह, चतर सिंह, ओमप्रकाश पिता पुरण, अ.पा.कर्ता, धापू बाई वि. पूरण, धापूबाई वि. पूरण, शांता बाई, रिद्धीबाई पिता पूरण, गेंदालाल, रेवाराम पिता रामचरण, कालूराम, कमल पिता दुजु जाति गौण्ड गौड नि.ग्राम कोटरी	306/2	2.81		2.81	0.069		0.069

19	सूनील कुमार पिता रामसिंह अ.पा.क. रामसिंह पिता जैनारायण जाति	305	6.560		6.560	0.021		0.021
20	राधेश्याम पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	299	3.240		3.240	0.200		0.200
21	राधेश्याम, दीपचंद, सत्यनारायण पिता बाबूलाल, मीदूबाई पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	303	1.050		1.050	0.077		0.077
22	नत्थूबाई पति सोनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	322	7.220		7.220	0.086		0.086
23	रामजानकी पिता सोनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	321	1.970		1.970	0.126		0.126
24	मंजूबाई पति सोनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	320	1.970		1.970	0.126		0.126
25	रामकरण पिता रामकिशन मोतीलाल, शैतान पिता मुगू रामकली, रादूलारी, रामहेती पिता मुगू जाति बलाई नि.ग्राम, गंगा बाई वि.मंगू जाति बलाई नि.ग्राम कोटरी	319	2.540		2.540	0.114		0.114
26	गबूलाल पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	317	1.820		1.820	0.098		0.098
27	गोविन्द पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	318	1.820		1.820	0.072		0.072
28	सरस्वती बाई पति शंकरलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	330/1	0.82		0.82	0.100		0.100
29	शंकरलाल पिता रामप्रसाद जाति ब्रा. पता नि.ग्राम कोटरी	330/2		1.000	1.000		0.030	0.030
30	विष्णु पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि. ग्राम कोटरी	331	1.820		1.820	0.094		0.094
31	धापू बाई पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्राम कोटरी	332	4.020		4.020	0.111		0.111
32	बंशीलाल पिता नन्नू जाति गौण्ड नि.ग्राम कोटरी	333/1	2.000		2.000	0.106		0.106
33	नन्नू पिता मोहनलाल जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	333/2	1.76		1.76	0.081		0.081
34	राधेश्याम पिता नन्नू सिंह जाति कोरकू नि.ग्राम	333/3	2.000		2.000	0.088		0.088
35	नबूबाई पति शिवलाल जाति कोरकू पता नि.ग्राम कोटरी	334/1		0.890	0.890		0.053	0.053
36	नन्दलाल पिता चंपालाल जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	335/3	0.80		0.80	0.108		0.108
37	शिवलाल पिता रामसिंह जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	336	2.58		2.58	0.136		0.136
38	अनारसिंह पिता भागीरथ जाति लोदा नि.ग्राम कोटरी	340	2.56		2.56	0.144		0.144
39	रूपसिंह पिता भागीरथ जाति लोदा नि.ग्राम कोटरी	342/1	0.75		0.75	0.041		0.041
40	विजय पिता रूपसिंह जाति लोदा नि. कोटरी	342/2	1.00		1.00	0.067		0.067
41	अजय पिता रूपसिंह जाति लोदा नि. कोटरी	342/3	1.00		1.00	0.041		0.041
42	गुलाबसिंह पिता चंपालाल जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	1/2	2.80		2.80	0.154		0.154
43	रामेश्वर पिता हीरलाल नि.ग्राम	1/3	1.20		1.20	0.07		0.07

44	गजानंद पिता रामेश्वर नि.ग्राम कोटरी	1/4	2.40		2.40	0.115		0.115
45	अरुण पिता रामेश्वर नि.ग्राम कोटरी	1/5	1.60		1.60	0.096		0.096
सब मायनर एम 4 एस 4 नहर								
46	चम्पालाल पिता हीरालाल नि.ग्राम कोटरी	6/1	1.390		1.390	0.087		0.087
47	कमल पिता चम्पालाल नि.ग्राम कोटरी	6/2	2.400		2.400	0.142		0.142
48	प्रकाश पिता रतनलाल जाति देशवाली नि.ग्राम डांगराखेडा	7/4	3.360		3.360	0.187		0.187
		8/2	1.680		1.680		0.019	0.019
49	गजानंद पिता रतनलाल जाति देशवाली नि.ग्राम डांगराखेडा	7/1	3.250		3.250	0.105		0.105
		8/1		0.100	0.100		0.018	0.018
50	श्यामू बाई पति डबू जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	76		1.500	1.500		0.067	0.067
51	डबू पिता रुग्नाथ जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	77	1.500		1.500	0.064		0.064
52	गंगाराम पिता भग्ना जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	78/1	1.000		1.000	0.048		0.048
53	गुलाब बाई विधवा नारायण जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	78/2	1.000		1.000	0.048		0.048
54	पार्वती बाई पति रामनिवास जाति देसवाली नि.ग्राम कोटरी	79	1.000		1.000	0.062		0.062
55	रामनिवास पिता मूलचन्द जाति देशवाली पता नि. ग्राम कोटरी	80	1.620		1.620	0.063		0.063
56	राधेश्याम पिता मूलचन्द जाति देशवाली पता नि. ग्राम कोटरी	81	1.620		1.620	0.444		0.444
57	रामनिवास कैलाश नन्दू पिता हीरदू शारदाबाई पिता हीरदू जाति गोंड पता नि. ग्राम कोटरी	91	5.010		5.010	0.110		0.110
58	जगदीश पिता हरिप्रसाद जाति गोंड पता नि. ग्राम कोटरी	94/1	2.600		2.600	0.076		0.076
59	रामेश्वर पिता हरिप्रसाद जाति गोंड पता नि. ग्राम कोटरी	94/2	2.600		2.600	0.158		0.158
60	दीपाबाई बेवा हरिप्रसाद जाति गोंड पता नि. ग्राम कोटरी	94/3	0.800		0.800	0.014		0.014
61	गुलाब पिता चम्पालाल जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	1/2	2.800		2.800	0.018		0.018
सब मायनर एम 4 एस 5 नहर								
62	नारायण पिता चम्पालाल जाति	14/1	1.070		1.070	0.036		0.036
63	आशीष कुमार पिता चम्पालाल जाति देशवाली नि.ग्राम कोटरी	14/2	3.390		3.390	0.088		0.088
		15/2	2.210		2.210	0.074		0.074
64	औमप्रकाश पिता चम्पालाल	15/1	5.800		5.800	0.105		0.105
65	रूप बसन्त पिता सीताराम जाति	63	0.970		0.970	0.112		0.112
66	रतनबाई विश्यामलाल प्रहलाद,	62	1.960		1.960	0.043		0.043
67	चैनसिंह पिता परसुराम जाति गोंड	65/1	2.100		2.100	0.027		0.027
68	देवलाल पिता रामसिंह जाति कोरकू	61/3	1.980		1.980	0.224		0.224
69	अनारसिंह पिता देवलाल जाति कोरकू नि.ग्राम कोटरी	61/4	0.600		0.600	0.045		0.045
70	रेवाराम पिता नन्दू जाति बलाइ पता नि. ग्राम कोटरी	59	1.190		1.190	0.115		0.115

71	तूलसी बाई वि. गोबरया सिध्दलाल मागीरल भागीरथ रतनलाल पिता गोबरया जाति कहार पता नि. ग्राम कोटरी	57/1	1.640		1.640	0.126		0.126
72	शिवचरण पिता सुखलाल जाति कहार नि.ग्राम कोटरी	200	1.820		1.820	0.069		0.069
73	ओमप्रकाश पिता शिवचरण जाति कहार नि. ग्राम कोटरी	201	2.020		2.020	0.108		0.108
74	सूनील कुमार पिता चन्दर जाति कहार नि.ग्राम कोटरी	52	0.320		0.320	0.026		0.026
	योग	81	178.95	8.260	187.210	7.829	0.406	8.235

प्र.क 03/ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- लेहकी		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	2.169	2.414	4.583
	(2) मायनर नं. 16 नहर	0.912	0.388	1.300
	(3) मायनर नं. 17 नहर	0.334	0.218	0.552
	योग	3.415	3.020	6.435

अनुसूची (2)								
मुख्य नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	जगदीश पिता मांगीलाल जाति नाई नि.ग्राम लेहकी	191/3	1.740		1.740	0.153		0.153
2	बलराम पिता मांगीलाल जाति नाई नि ग्राम लेहकी	191/4	1.740		1.740	0.185		0.185
3	फूलचंद अमरसिंह पिता नन्नू जाति बलाई नि.ग्राम लेहकी	195		0.100	0.100		0.013	0.013
4	प्रहलाद पिता मोती जाति तैली नि. ग्राम लेहकी	198		0.840	0.840		0.029	0.029
5	गजानंद पिता प्रहलाद जाति तैली नि. ग्राम लेहकी	199/1		1.600	1.60		0.107	0.107
6	अकलेश पिता गजानंद जाति तैली नि. ग्राम लेहकी	199/2		1.650	1.65		0.018	0.018
7	रतनलाल पिता बालकिशन नि.ग्राम लेहकी	200/2	4.950		4.95		0.450	0.450
8	नजीम खां पिता गब्बूखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	201		3.570	3.570		0.036	0.036
9	मांयाबाई पति गजानंद जाति तैली नि. ग्रामा नि. लेहकी	341/1	2.720		2.720		0.180	0.180
10	पारवतीबाई वि. धन्नु कन्हैया, सीताराम, छोटे लाल, गोरेलाल, पिता धन्नु जाति गौड नि.ग्राम लेहकी	340		1.280	1.280		0.130	0.130
11	रहीम खां पिता हिरु खां नि.ग्राम लेहकी	346/1	0.060		0.060		0.225	0.225
12	सरदार खां पिता रमजान फकीर नि. ग्राम लेहकी	346/2	0.950		0.950		0.158	0.158
13	शानूबाई पति दददू खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	344	1.300		1.300	0.312		0.312
14	कयुम खां पिता हीरे खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	345	2.400		2.400	0.390		0.390
15	अय्यूब खां पिता इस्माइल जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	383/2	1.520		1.520	0.287		0.287
16	शानूबाई पति दददू खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	415	1.310		1.310	0.108		0.108
17	दददू खां पिता इसू खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	416	1.920		1.920	0.140		0.140
18	गुलाब खां पिता इसू खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	422	4.450		4.450	0.234		0.234
19	मनीष पिता कैलाश जाति तैली नि. ग्राम लेहकी	423		1.600	1.600		0.225	0.225
20	मिनल पति कमल कुमार जैन नि. ग्राम भैसून	296/1	2.000		2.000	0.200		0.200

21	खाजू खां पिता घूडू खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	295		2.630	2.630		0.144	0.144
22	राजकुमार पिता माणकचन्द जाति जैन नि. लोहरदा	294	5.680		5.680	0.160		0.160
23	संतोष पिता कैलाशचन्द जाति जैन नि. लोहरदा	292		1.310	1.310		0.136	0.136
24	नरेन्द्रकुमार पिता माणकचन्द जाति जैन नि. लोहरदा	290		4.210	4.210		0.333	0.333
25	कैलाशचन्द्र पिता माणकचन्द जाति जैन नि. लोहरदा	285/3		2.340	2.340		0.230	0.230
मायनर कं. 16 नहर								
26	गुलाब खां पिता इरूँ खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	422	4.450		4.450	0.179		0.179
27	इसूखां, मीरखां, छोटेखां, रसूली, सक्को, बसकर, सज्जो, पिता सरदार खां, भोलीबाई वि. सरदार खां, हारुन पि. हम्मीद खां, रसीदा कल्लो पि. हम्मीद खां, नप्पोसन वि. हम्मीद खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	434		4.040	4.040		0.171	0.171
28	हसनखां पिता फूलखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	436	1.560		1.560	0.167		0.167
		435	2.030		2.030	0.012		0.012
29	मेहबूब खां पिता फूल खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	439/2	3.620		3.620	0.206		0.206
30	अब्दूलखां पिता जहांगीर खां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	442		3.240	3.240		0.052	0.052
31	अनवरखां पिता छीतूखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	443	1.070		1.070	0.092		0.092
32	नूरखां पिता रालूखां अ.पा.क. मीसरबाई पति रालूखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	445	4.400		4.400	0.088		0.088
33	मीसरबाई पति रालूखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	446	4.040		4.040	0.038		0.038
34	शेरखां पिता छीतूखां अ.पा.क. आपसाबाई पति छीतूखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	448		1.820	1.820		0.165	0.165
35	आमनाबाई पिता फूलखां जाति मेवाती नि.ग्राम लेहकी	450	2.990		2.990	0.130		0.130
मायनर कं. 17 नहर								
36	संतोष पिता कैलाशचन्द्र जाति जैन नि. ग्राम लेहकी	292		1.310	1.310		0.078	0.078
37	रामदेव पिता नारान जाति देशवाली नि. लोहारदा	293	0.610		0.610	0.154		0.154
38	राजकुमार पिता माणकचन्द जाति जैन नि. लोहरदा	294	5.680		5.68	0.015		0.015

39	नबूबाई वि. बदीलाल जाति देशवाली नि. लोहारदा	288		2.500	2.500		0.140	0.140
40	रामदेव पिता नारान जाति देशवाली नि. लोहारदा	287	2.500		2.500	0.165		0.165
	योग	41	8.790	3.810	12.600	3.415	3.020	6.453

प्र.क 5 / ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- डांगराखेड़ा		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मायनर नं. 4 नहर	0.76	0.000	0.760
	(2) सब मायनर नं. एम 4 एस 3 नहर	0.642	0.000	0.642
	(3) सब मायनर नं. एम 4 एस 4 नहर	0.43	0.000	0.430
	(4) मायनर नं. 10 नहर	1.135	0.010	1.145
	योग	2.967	0.010	2.977

अनुसूची (2)								
मायनर नं 4 नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रामनारायण पिता भगवान जाति जाट नि. ग्राम डांगराखेडा	120	1.810		1.810	0.135		0.135
2	छोटेलाल पिता हरीलाल जाति देशवाली नि.ग्राम डांगराखेडा	193	6.320		6.320	0.210		0.210
3	अर्जुनसिंह पिता छोटेलाल अ.पा.मां. आशाबाई पति छोटेलाल जाति देशवाली	194/2	2.400		2.400	0.189		0.189
4	जानीबाई विधवा मोती जाति जाट नि. ग्राम डांगराखेडा	197	2.430		2.430	0.144		0.144
5	जगदीश पिता मोती जाति जाट नि.ग्राम डांगराखेडा	196	1.820		1.820	0.083		0.083
सब मायनर न. एम 4 एस 3 नहर								
6	ओमप्रकाश पिता गोविन्द जाति ब्राह्मण नि.ग्राम डांगराखेडा	72/1	5.680		5.680	0.181		0.181
7	राधेश्याम पिता घासीराम जाति ब्राह्मण नि.ग्राम डांगराखेडा	72/2	1.600		1.600	0.120		0.120
8	शान्ताराम पिता सिकदार,राजूबाई वि. सिकदार जाति चमार नि.ग्राम डांगराखेडा	70/3	2.540		2.540	0.112		0.112
9	घीस्या पिता धन्ना,राजूबाई जाति चमार नि.ग्राम डांगराखेडा	73	2.800		2.800	0.007		0.007
10	हरी पिता हजारी जाति चमार नि.ग्राम डांगराखेडा	70/2	0.940		0.940	0.041		0.041
11	रेवाबाई पति हरीलाल जाति चमार नि. ग्राम डांगराखेडा	69	1.050		1.050	0.059		0.059
12	गीताबाई पति हरी जाति चमार नि. ग्राम रतवाय	68	1.420		1.420	0.072		0.072
13	हरीप्रसाद पिता चतुर्भुज जाति ब्राह्मण नि. ग्राम डांगराखेडा	75	1.000		1.000	0.050		0.050
सब मायनर न. एम 4 एस 4 नहर								
14	कन्हैयालाल पिता बालकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम डांगराखेडा	337	1.620		1.620	0.034		0.034
15	रामकिशन पिता नंदकिशोर अ.पा.कर्ता अनुसुईया बाई पति नंदकिशोर नि.ग्राम	340/2	1.530		1.530	0.080		0.080
16	मोतीलाल पिता जयनारायण देशवाली नि. ग्राम	339/2	1.930		1.930	0.048		0.048
17	तकत सिंह पिता भागीरथ जाति देशवाली नि.ग्राम डांगराखेडा	339/4	0.180		0.180	0.064		0.064
18	रामेश्वर पिता भागीरथ जाति देशवाली नि.ग्राम	338/3] 339/1	2.000		2.000	0.166		0.166
19	कमल पिता मूलचंद जाति देशवाली नि. ग्राम डांगराखेडा	325/1	0.220		0.220	0.030		0.030

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	प्रसिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
20	गजानंद पिता रतनलाल देशवाली नि. ग्राम डांगराखेडा	325/2	1.400		1.400	0.008		0.008
मायनर न. 10 नहर								
21	अनिताबाई विधवा गोपाल जाति तैली नि. ग्राम डांगराखेडा	25	1.400		1.400	0.140		0.140
22	रवि पिता गोपाल जाति तैली नि.ग्राम डांगराखेडा	26/1	1.400		1.400	0.058		0.058
23	जगदीश पिता हजारी जाति तैली नि. ग्राम डांगराखेडा	27	1.800		1.800	0.122		0.122
24	हजारी पिता चून्या जाति तैली नि. ग्राम डांगराखेडा	28	1.400		1.400	0.076		0.076
25	बिहारी पिता चुन्या जाति तैली नि. ग्राम डांगराखेडा	30		1.200	1.200		0.010	0.010
26	रामअवतार पिता बिहारी जाति तैली नि. ग्राम डांगराखेडा	31	1.380		1.380	0.117		0.117
27	गबूलाल पिता नत्थू जाति देशवाली नि. ग्राम डांगराखेडा	263/3	3.450		3.450	0.076		0.076
		276/3	1.310		1.310	0.005		0.005
28	शक्कर बाई पि.मनफूल कमलाबाई पि. चतुर्भुज जाति देशवाली नि.ग्राम	277	2.210		2.210	0.011		0.011
29	गोपाल पिता प्रहलाद जाति देशवाली नि. ग्राम डांगराखेडा	275/2	1.310		1.310	0.009		0.009
		276/2						
30	प्रहलाद पिता भागीरथ जाति देशवाली नि. ग्राम डांगराखेडा	275/3 276/1	2.120		2.120	0.121		0.121
31	रामाधार पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम डांगराखेडा	283/2	1.200		1.200	0.115		0.115
32	जयराम पिता बट्टी जाति देशवाली नि. ग्राम डांगराखेडा	288	0.940		0.940	0.160		0.160
33	सत्यनारायण पिता बट्टी जाति देशवाली नि.ग्राम डांगराखेडा	289	0.970		0.970	0.050		0.050
34	रूपबंसत पिता नन्नू सुशीलाबाई पति रूपबंसत जाति बलाई न.ग्राम डांगराखेडा	274	1.870		1.870	0.076		0.076
योग		38	22.760	1.200	23.960	2.967	0.010	2.977

प्र.क 6/ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- नागझिरी		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) सब मायनर नं. एम 4 एस 2 नहर	2.31	0.000	2.310
	योग	2.31	0.000	2.310

अनुसूची (2)								
सब मायनर नं. एम 4 एस 2 नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रामेश्वर उर्फ बाबूलाल, द्वारकाप्रसाद, सीताराम पिता कन्हैया जाति महाजन नि. लोहारदा	43/1	39.01		39.01	0.372		0.372
		44	1.11		1.11	0.071		0.071
2	दिनेश पिता कैलाशचन्द्र जाति जाट नि. ग्राम नागझिरी	93/1	2.18		2.18	0.105		0.105
3	रामनिवास पिता कैलाशचन्द्र जाति जाट नि.ग्राम बागनखेडा	93/2	2.19		2.19	0.051		0.051
4	हरीप्रसाद पिता भागीरथ जाति लौदा नि. ग्राम नागझिरी	94	1.21		1.21	0.004		0.004
5	मनोहर पिता जगन्नाथ जाति लौदा नि. ग्राम नागझिरी	97/1	0.70		0.70	0.075		0.075
		98/1	0.29		0.29	0.016		0.016
		99	0.52		0.52	0.069		0.069
6	रेवाराम पिता रामदेव जाति लौदा नि. ग्राम नागझिरी	100/3	1.73		1.73	0.195		0.195
7	गोर्वधन पिता दवसिंह जाति जाट नि. ग्राम नागझिरी	115	5.06		5.06	0.138		0.138
8	जगदीश पिता देवीसिंह जाट नि. ग्राम नागझिरी	116/1	5.06		5.06	0.149		0.149
9	कैलाशचंद्र पिता किशन जाति महाजन नि. लोहारदा	119	10.52		10.52	0.212		0.212
10	गोपालदास पिता श्रीकिशन जाति महाजन नि. लोहारदा	120	10.52		10.52	0.200		0.200
11	हरीप्रसाद पिता नन्नू जाति बलाई नि. कोण्डी	126	2.02		2.02	0.115		0.115
12	सुन्दरलाल पिता रामोतार जाति बलाई नि. कोठरी	127/1	0.82		0.82	0.063		0.063
13	मनोरमाबाई पति राधेश्याम जाति महाजन नि. कन्नौद	131	5.00		5.00	0.173		0.173
14	राधेश्याम पिता चम्पालाल जाति महाजन नि. कन्नौद	130	4.04		4.04	0.082		0.082
15	गिरधर पिता चम्पालाल जाति महाजन नि. कन्नौद	132	9.15		9.15	0.221		0.221
	योग	18	101.130	-	101.130	2.31		2.31

प्र.क 8 / ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- अडानिया		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) सब मायनर नं. एम 1 एस 2 नहर	1.163	0.069	1.232
	योग	1.163	0.069	1.232

अनुसूची (2)

सब मायनर नं. एम 1 एस 2 नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	बलदेव, शंकरलालउ, हरिचरण, शंभूलाल, महेश पिता बंशीलाल जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	458		0.100	0.100		0.011	0.011
2	देवराज पिता श्रीराम जाति बलाई नि. ग्राम अडानिया	457/1	0.450		0.450	0.069		0.069
3	हरिप्रसाद पिता कालू जाति बलाई नि. ग्राम अडानिया	457/2	0.450		0.450	0.069		0.069
4	गोपाल पिता नाथजी जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	447	2.030		2.030	0.006		0.006
5	सुगनाबाई बेवा शिवराम, महेश पिता शिवराम जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	448	4.040		4.040	0.336		0.336
6	राजेश पिता रामनारयण जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	449	0.310		0.310	0.048		0.048
7	राजेश पिता रामनारयण जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	450	0.410		0.410	0.053		0.053
8	कृष्णाबाई पति महेश जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	445	1.760		1.760	0.068		0.068
9	राहुल पिता नारायण अ.पा.क. मां गीताबाई बेवा नारायण जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	420	2.230		2.230	0.190		0.190
10	शिवराम दत्तक पुत्र ब्रजलाल जाति पंवार नि. ग्राम अडानिया	421	1.690		1.690	0.005		0.005
11	हेमराज पिता कोदर जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	417	1.300		1.300	0.077		0.077
		416	1.300		1.300	0.080		0.080
12	बाबूलाल पिता कोदर जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	415	1.250		1.250	0.079		0.079
13	राधकिशन पिता कोदर जाति जाट नि. ग्राम अडानिया	414	1.560		1.560	0.083		0.083
14	बाबू पिता छितरदास जाति बैरागी नि. ग्राम अडानिया	402		0.130	0.130		0.036	0.036
15	कमल पिता देवीसिंह जाति पंवार नि. ग्राम अडानिया	339		0.070	0.070		0.022	0.022
	योग	16	18.78	0.300	19.080	1.163	0.069	1.232

प्र.क ९ / ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- भैसून		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	3.728	0.148	3.876
	(2) मायनर नं. 12 नहर	0.695	0.315	1.010
	(3) मायनर नं. 13 नहर	0.893	0.000	0.893
	(4) मायनर नं. 14 नहर	0.942	0.143	1.085
	(5) मायनर नं. 15 नहर	2.343	0.731	3.074
	(6) वितरिका क. 1 नहर	4.940	1.078	6.018
	(7) मायनर नं. डी 1 एम 1 नहर	0.190	0.110	0.300
	योग	13.731	2.525	16.256

अनुसूची (2)								
मुख्य नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	प्रसिंचित	कुल	सिंचित	प्रसिंचित	कुल
1	गुलाब बाई पिता लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली नि. ग्राम	14	5.480		5.480	0.017		0.017
2	कल्लु पिता मनफूल जाति देशवाली नि.ग्राम	13	0.970		0.970	0.163		0.163
3	गेंदालाल पिता रंगलाल नि.ग्राम भेसून	6/2	1.980		1.980	0.338		0.338
4	कल्लु पिता मनफूल जाति देशवाली नि.ग्राम	12	1.960		1.960	0.120		0.120
5	गजानंद पिता कल्लु जाति देशवाली नि.ग्राम	11	2.830		2.830	0.351		0.351
6	हुकमचंद पिता कल्लू जाति देशवाली नि. ग्राम	10	0.410		0.410	0.018		0.018
		19	1.810		1.810	0.012		0.012
7	नंदलाल पिता जगन्नाथ जाति देशवाली नि.ग्राम भेसून	29/2	1.470		1.470	0.018		0.018
8	लक्ष्मीबाई पति जगन्नाथ जाति देशवाली नि.ग्राम	28	1.160		1.160	0.187		0.187
10	गब्बूलाल पिता प्रताप जाति नाई नि.ग्राम भेसून	23/1	2.370		2.370	0.168		0.168
11	चम्पालाल पिता प्रताप जाति नाई नि.ग्राम भेसून	23/2	2.380		2.380	0.322		0.322
12	राजु पिता चम्पालाल जाति नाई नि.ग्राम भेसून	23/4	1.000		1.000	0.056		0.056
13	इब्राहिम खां पिता असीन खां जाति मेवाती नि.ग्राम	24	3.680		3.680	0.008		0.008
14	गब्बु पिता सुक्या जाति कोरकू नि. ग्राम	56/1	0.810		0.810	0.123		0.123
15	रामेश्वर पिता सुभाष फूलकुंवर बेवा करतार जाति कोरकू नि.ग्राम	56/2	0.810		0.810	0.073		0.073
16	रामेश्वर पिता सुभाष फूलकुंवर बेवा करतार जाति कोरकू नि.ग्राम	66/1	0.810		0.810	0.045		0.045
17	अमरसिंह पिता रुगनाथ नि.ग्राम भेसून	66/2	0.810		0.810	0.061		0.061
18	रुगनाथ पिता दुरपाल जाति कोरकू नि.ग्राम	67/1	1.000		1.000	0.102		0.102
19	दलसिंह पिता रुगनाथ नि.ग्राम भेसून	67/2	0.600		0.600	0.101		0.101
20	मिश्रीबाई पति राधेश्याम जाति देशवाली नि.ग्राम	68		0.750	0.750		0.048	0.048
		69	1.530		1.530	0.210		0.210
21	बद्रीप्रसाद पिता छोटेलाल जाति देशवाली नि.ग्राम	70	2.280		2.280	0.261		0.261
22	देवकी बाई पिता बाला पति राधेश्याम	71/3	0.630		0.630	0.010		0.010

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	प्रसिंचित	कुल	सिंचित	प्रसिंचित	कुल
23	सज्जनसिंह पिता नर्मदाप्रसाद	88/2		5.960	5.960		0.10	0.10
24	कालुराम पिता रामकिशन जाति कोरकू नि.ग्राम	89	0.530		0.530	0.080		0.080
25	धरमसिंह पिता नर्मदाप्रसाद जाति देशवाली नि.ग्राम	90	6.850		6.850	0.390		0.390
26	कैलाशचंद्र पिता पुनमचंद्र जाति जैन नि.ग्राम	467	5.300		5.300	0.495		0.495
मायनर न. 12 नहर								
27	वहीद खां,खाजू खां,असगर खां पिता राज खां, हसन बी पिता राज खां जाति मेवाती नि.ग्राम	37		0.680	0.680		0.1030	0.104
28	राहुल पिता जयनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम	38	1.620		1.620	0.108		0.108
		39/1	1.130		1.130	0.040		0.040
29	जयनारायण पिता सहीराम जाति देशवाली नि.ग्राम	39/2	0.570		0.570	0.002		0.002
30	हीरालाल पिता गब्बुलाल जाति देशवाली नि.ग्राम	45	4.860		4.860	0.045		0.045
31	गब्बुलाल पिता लक्ष्मण जाति देशवाली नि.ग्राम	44		4.460	4.460		0.2120	0.212
32	राजाराम पिता लछमन जाति देशवाली नि.ग्राम	47	7.750		7.750	0.162		0.162
33	चिन्ताबाई पति गोविन्द जाति देशवाली नि.ग्राम	48	5.860		5.860	0.158		0.158
34	राहुल पिता गोविन्द जाति देशवाली नि.ग्राम	49	1.620		1.620	0.027		0.027
35	राधेश्याम पिता चम्पालाल जाति देशवाली नि.ग्राम	50	5.860		5.860	0.117		0.117
36	शान्ता बाई पति राधेश्याम जाति देशवाली नि.ग्राम	51	1.620		1.620	0.036		0.036
मायनर न. 13 नहर								
37	सुरेश गेंदालाल पिता रंगलाल जाति कोरकू नि.ग्राम	6/2	1.980		1.980	0.031		0.031
38	कल्लु पिता मनफूल जाति देशवाली नि.ग्राम	12	1.960		1.960	0.103		0.103
39	नंदलाल पिता जगन्नाथ नि.ग्राम भेसून	29/2	1.470		1.470	0.097		0.097
40	सत्यनारायण पि जगन्नाथ नि.ग्राम भेसून	29/3	1.470		1.470	0.137		0.137
41	रहीश खां पिता ईब्राहीम खां जाति मेवाती नि.ग्राम	30	1.620		1.620	0.044		0.044
42	ईब्राहीम खां पिता अनीस खां जाति मेवाती नि.ग्राम	31	0.470		0.470	0.016		0.016
		32	1.620		1.620	0.041		0.041
43	रसीद खां पिता इब्राहीम खां जाति मेवाती नि.ग्राम	33	1.620		1.620	0.066		0.066

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	प्रसिंचित	कुल	सिंचित	प्रसिंचित	कुल
44	प्रेमबाई पति राजाराम जाति देशवाली नि.ग्राम	46	3.470		3.470	0.025		0.025
45	चिन्ताबाई पति गोविन्द जाति देशवाली नि. ग्राम	48	5.860		5.860	0.051		0.051
46	राहुल पिता गोविन्द जाति देशवाली नि.ग्राम	49	1.620		1.620	0.026		0.026
47	राधेश्याम पति चम्पालाल जाति देशवाली नि.ग्राम	50	5.860		5.860	0.180		0.180
48	शान्ताबाई पति राधेश्याम जाति देशवाली नि. ग्राम	51	1.620		1.620	0.077		0.077
मायनर नं. 14 नहर								
49	राजू पिता चम्पालाल जाति नाई नि.ग्राम भेसून	23/4	1.000		1.000	0.008		0.008
50	ईब्राहीम खां पिता असीन खां जाति मेवाती नि.ग्राम	24	3.680		3.680	0.074		0.074
51	बन्नो बाई पति रसीद खां जाति मेवाती नि. ग्राम लेहकी	55		1.690	1.690		0.131	0.131
52	सुनीता बाई पति उमशचंद्र जाति देशवाली नि.ग्राम	58	1.000		1.000	0.088		0.088
53	उमेशचंद्र पिता रामप्रसाद जाति देशवाली नि. ग्राम	59	1.450		1.450	0.095		0.095
54	बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति देशवाली नि. ग्राम	60	2.000		2.000	0.073		0.073
55	गोदावरी बाई वि.रामप्रसाद जाति देशवाली नि.ग्राम	61	0.070		0.070	0.026		0.026
		54		0.43	0.430		0.012	0.012
56	प्रेमबाई पति प्रहलाद जाति देशवाली नि.ग्राम	62/1	1.000		1.000	0.092		0.092
57	प्रहलाद पिता रामप्रसाद जाति देशवाली नि.ग्राम	62/2	0.100		0.100	0.010		0.010
		63	0.900		0.900	0.009		0.009
58	गबूलाल पिता जगन्नाथ जाति देशवाली नि.ग्राम	239	2.000		2.000	0.081		0.081
		238	4.320		4.320	0.132		0.132
59	गजानंद पिता मयाराम जाति देशवाली नि.ग्राम	237	2.260		2.260	0.149		0.149
60	लक्ष्मीचंद पिता रामलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम	236	1.210		1.210	0.106		0.106
मायनर नं. 15 नहर								
61	कैलाशचंद्र पिता पुनमचंद्र जाति जैन नि. ग्राम	467	5.300		5.300	0.143		0.143
		457	2.390		2.390	0.172		0.172
62	चन्दर पिता भागीरथ जाति बलाई नि.ग्राम	470	1.050		1.050	0.005		0.005
63	गजानंद पिता मयाराम जाति देशवाली नि.ग्राम	456		3.320	3.320		0.006	0.006
		443	3.320		3.320	0.145		0.145

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
64	बबलू पिता रामप्रसाद जाति देशवाली नि.ग्राम भेसून	457/2	2.000		2.000	0.065		0.065
65	मंगीबाई वि.गब्बुलाल जाति देशवाली नि.ग्राम	440	2.460		2.460	0.120		0.120
66	शब्बीर खां मजीत खां जाति मेवाती नि.ग्राम	441/1	1.520		1.520	0.088		0.088
67	रामकिशन पिता गुलाब जाति देशवाली नि.	435	3.880		3.880	0.110		0.110
68	रामचंद्र पिता रतनलाल जाति देशवाली नि.ग्राम	432	3.590		3.590	0.100		0.100
		433	3.590		3.590	0.150		0.150
69	श्यामलाल पिता रामप्रसाद जाति ब्राम्हाम नि.ग्राम	424	4.950		4.950	0.200		0.200
70	बाबूलाल पिता गिरधारी जाती देशवाली नि. ग्राम	510		0.810	0.810		0.005	0.005
71	राकेश पिता बाबुलाल जाति देशवाली नि.ग्राम	512		1.010	1.010		0.015	0.015
72	कमल कुमार पिता बाबुलाल जाति देशवाली नि. ग्राम	511		1.020	1.020		0.090	0.090
73	बादाम बाई वि. रमेशचंद्र,नारायण पिता रमेशचंद्र जाति देशवाली नि.ग्राम	508	4.050		4.050	0.143		0.143
74	चिन्मय पिता अनिल कुमार जाति जैन नि.ग्राम	506	5.200		5.200	0.162		0.162
75	तन्मय कुमार पिता अलिन कुमार जाति जैन नि. ग्राम	519	5.200		5.200	0.035		0.035
76	अनिल कुमार पिता छीतरलाल जाति जैन नि.ग्राम	520	1.900		1.900	0.083		0.083
77	गुलाब पिता जगदीश जाती देशवाली नि ग्राम	613	2.970		2.970	0.072		0.072
78	धापूबाई वि.गपुलाल , नारायण सिंह पिता जगदीश जाति देशवाली नि.ग्राम	612	4.860		4.860	0.273		0.273
79	जगदीश पिता मांगीलाल जाती देशवाली नि. ग्राम	616		6.100	6.100		0.015	0.015
80	मंजेश पिता गोविन्द नि.ग्राम भेसून	611/2	2.680		2.680	0.135		0.135
81	भरत पिता गोविन्द जाति देशवाली नि.ग्राम	619/2	3.210		3.210	0.142		0.142
82	हरीकिशन पिता चन्दर जाति गुजर नि.मुहाई	620		2.600	2.600		0.160	0.160
83	नर्मदाप्रसाद पिता उंकार जाति गुजर नि.मुहाई	621		2.610	2.610		0.080	0.080
84	मनफूल पिता गोपाल जाति देशवली नि.हरडी	623		4.620	4.620		0.210	0.210
		624		4.620	4.620		0.150	0.150
डिस्ट्रीब्यूटरी न.1 नहर								
85	रामोतार पिता छितर जाति धोबी नि.पांगरा	283/1	2.480		2.480	0.254		0.254
86	छगनलाल पिता छितर जाति धोबी नि पांगरा	284/1		0.480	0.480		0.018	0.018
87	सत्यनारायण पिता छगनलाल जाति धोबी नि.ग्राम पांगरा	284/2		1.000	1.000		0.103	0.103
88	मदनलाल पिता छगनलाल जाति धोबी नि.ग्राम	285	2.48		2.480	0.151		0.151
89	नर्मदाबाई पति छितर जाति धोबी नि पांगरा	286	2.480		2.480	0.107		0.107

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	प्रसिंचित	कुल	सिंचित	प्रसिंचित	कुल
90	मांगीलाल, कालुराम, गजानन्द, गोविन्द, छोटेलाल पिता गबूलाल जाति बलाई नि. पांगरा	287	2.630		2.630	0.237		0.237
91	गेंदालाल पिता हजारीलाल जाति महाजन नि. लोहारदा	288		2.900	2.900		0.119	0.119
92	राधेश्याम, रमशचंद्र पिता गेंदालाल जाति महाजन नि. लोहारदा	289/1	1.050		1.050	0.168		0.168
93	कय्युम खां पिता छोटे खां जाति मेवाती नि. ग्राम	294	1.600		1.600	0.098		0.098
94	नुरमोहम्मद पिता करीम खां जाति फकीर नि. ग्राम	295	1.980		1.980	0.194		0.194
95	गोविन्द पिता लक्ष्मण जाति देशवाली नि. ग्राम	296		1.210	1.210		0.016	0.016
96	मिश्रीबाई वि. सालगराम जाति बाडी नि. ग्राम	199		1.330	1.330		0.030	0.030
97	लक्ष्मीचंद पिता रामलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम	229/3		0.210	0.210		0.022	0.022
98	शंकर पिता मकुन्दराम जाति सुतार नि. ग्राम	319	0.800		0.800	0.147		0.147
99	अमरसिंह पिता दशरथ जाति कोरकू नि. ग्राम	320	1.010		1.010	0.107		0.107
100	हसन खां पिता नूर मोहम्मद फकीर नि. ग्राम	324/2	1.000		1.000		0.008	0.008
101	लक्ष्मीनारायण पिता गोपाल, रामनन्द पिता लक्ष्मीनारायण जाति सुतार नि. ग्राम	323	2.430		2.430	0.259		0.259
102	देवीसिंह, धूम सिंह उर्फ अशोक, संतोष, विजय, नर्मदा बाई पि. मांगीलाल, जीवन बाई वि. मांगीलाल जाति भाट नि. ग्राम	325	4.620		4.620	0.033		0.033
103	किशनलाल पिता रामलाल जाति चमार नि. डांगराखेडा	331	1.940		1.940	0.020		0.020
104	लालु पिता झण्डया जाति बलाई नि. ग्राम	352	1.990		1.990	0.256		0.256
105	गोविन्द पिता प्रहलाद जाति देशवाली नि. ग्राम	351	2.000		2.000	0.198		0.198
106	कैलाशचंद्र पिता बट्टी जाति देशवाली नि. ग्राम	357	1.730		1.730	0.063		0.063
107	राजेश पिता रामसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम	363/1	1.050		1.050	0.030		0.030
108	मायाबाई पति कचरुलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भेसून	363/2	1.820		1.820	0.157		0.157
109	कचरु पिता नरान जाति देशवाली नि. ग्राम भेसून	363/3	2.460		2.460	0.205		0.205
110	रामेश्वर पिता गजानन्द जाति देशवाली नि. ग्राम	365		4.520	4.520		0.081	0.081
111	बलराम पिता श्याम जाति देशवाली नि. ग्राम	381	1.130		1.130	0.091		0.091
112	राजेश कुमार पिता सत्यनारायण जाति देशवाली नि. ग्राम	368	3.240		3.240	0.007		0.007
113	शंकरलाल पिता मंशाराम जाति देशवाली नि. झलवा	380/1	1.310		1.310	0.138		0.138
114	रफीक खां पिता रसीद खां जाति पिंजारा नि. ग्राम भेसून	380/2	0.600		0.600	0.036		0.036
115	शंकरलाल पिता मंशाराम जाति देशवाली नि. झलवा	379/1	0.800		0.800	0.060		0.060
116	शफीक खां पिता रसीद खां आ. पा. कर्ता रसीद खां पिता अलावक्स जाति पिंजारा पता नि. ग्राम	378	1.120		1.120	0.062		0.062
117	श्री निवाश पिता गेंदालाल जाति बलाई नि. ग्राम	377		1.050	1.050		0.113	0.113

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
118	शाकीर खां पिता इशाक खां जाति पिंजारा नि.ग्राम	552		0.330	0.330		0.014	0.014
119	मेहबूब खां पिता अलाबक्स जाति पिन्जारा नि.ग्राम	554/2	2.630		2.630	0.015		0.015
		555/1	1.360		1.360	0.049		0.049
120	आबिद खां पिता एहमद नूर जाति पिन्जारा नि.ग्राम	555/2	0.930		0.930	0.215		0.215
		556/1	0.170		0.170	0.025		0.025
121	सुरेश पिता रामनाथ जाति ब्राम्हण नि.मुहाई	559	0.780		0.780	0.090		0.090
122	रमेश पिता रामनाथ जाति ब्राम्हण नि.मुहाई	562	0.790		0.790	0.165		0.165
123	दीलीप पिता विष्णुप्रसाद अ.पा.क.सुगन बाई वि. विष्णुप्रसाद जाति ब्राम्हण नि.ग्राम	563		0.820	0.820		0.053	0.053
124	घीसीबाई विधवा शिवलाल मदनलाल अ.पा.क. घीसीबाई वि.शिवालाल जाति गुजर नि.ग्राम	565		3.510	3.510		0.128	0.128
		574		3.650	3.650		0.168	0.168
125	आशिक खां पिता एहमद नूर खां जाति पिन्जारा नि.ग्राम	555/5	0.930		0.930	0.036		0.036
		556/4	0.170		0.170	0.025		0.025
126	निसार खां पिता अलाबक्स जाति पिंजारा नि.ग्राम	556/5	1.980		1.980	0.213		0.213
127	अमीर खां पिता निसार खां जाति पिंजारा नि.ग्राम	556/6	2.000		2.000	0.165		0.165
128	सन्तोष पिता मनोहरलाल जाति गुजर नि.मुहाई	571	1.450		1.450	0.217		0.217
129	सत्यनारायण पिता गंगाराम जाति गुजर नि.मुहाई	576		2.000	2.000		0.160	0.160
130	राधेश्याम पिता गंगाराम जाति गुजर नि.मुहाई	575		0.710	0.710		0.045	0.045
131	बालकराम पिता कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम	588	1.820		1.820	0.108		0.108
		589	1.840		1.840	0.098		0.098
132	रुपराम पिता कालुराम जाति गुजर नि.मुहाई	590	7.700		7.700	0.202		0.202
133	सतीश पित कैलाशचंद्र देशवाली	358	1.730		1.730	0.239		0.239
डिस्ट्रीब्यूटरी न.1 मायनर न.1 नहर								
134	आबिद खां पिता एहमद नूर खां	556	0.17		0.17	0.051		0.051
135	चंपालाल पिता गोपीलाल जाति ब्राम्हण नि. मुहाई	558		0.730	0.730		0.110	0.110
136	राकेश पिता मदनलाल	560/3	1.600		1.600	0.140		0.140
	योग	151	269.900	65.130	335.030	13.731	2.525	16.256

सभी पन्ने के सामान्य के साथ ले

प्र.क 10/ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- भवाना		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अजित की जाने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मुख्य नहर	0.751	0.539	1.290
	योग	0.751	0.539	1.290

अनुसूची (2)								
मुख्य नहर								
स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भावसिंह पिता सुणा जाति बारेला नि.ग्राम भवाना	147	2.16		2.16	0.300		0.300
2	दिनेश कुमार पिता भवसिंह जाति भिलाला नि.ग्राम भवाना	208		1.65	1.65		0.156	0.156
3	सुकलाल ,मांगीलाल ,मदन पिता वेराग्या जाति बारेला नि.ग्राम भवाना	207	2.93		2.93	0.270		0.270
4	राधेश्याम पिता किसानलाल जाति देशवाली नि.ग्राम भवाना	153	1.21		1.21	0.113		0.113
5	श्रीकिशन पिता कान्या जाति देशवाली नि.ग्राम भवाना	205		1.29	1.29		0.075	0.075
6	बाबूलाल पिता श्रीकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम भवाना	204		1.81	1.81		0.105	0.105
7	जगदीश पिता श्रीकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम भवाना	203		0.34	0.34		0.075	0.075
8	कैलाश पिता श्रीकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम भवाना	202		1.80	1.80		0.128	0.128
9	जगदीश पिता श्रीकिशन जाति देशवाली नि.ग्राम भवाना	201	1.46		1.46	0.068		0.068
	योग	9	7.76	6.89	14.65	0.751	0.539	1.290

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेम उप सचिव म.प्र शासन राजस्व विभाग देवास

प्र.क)) / ए-82 / 13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- मोहाई		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) डिस्ट्रीब्यूटरी नं. 1 नहर	4.271	0.359	4.630
	(2) मायनर डी 1 एम 2 नहर	3.924	0.289	4.213
	योग	8.195	0.648	8.843

अनुसूची (2)								
डिस्ट्रीब्यूटरी न.1 नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमां	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	लक्ष्मण पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	4/3	2.63		2.63	0.074		0.074
2	विनोद पिता सेवकराम जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	4/2	1.31		1.31	0.074		0.074
3	श्रवण पिता सेवकराम जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	4/1	1.32		1.32	0.076		0.076
4	जगदीश पिता गब्जीराम, श्यामलाल, कैलाश, बोदराबाई पिता गब्जी जाति ब्रह्मण नि.ग्राम मोहाई	50		0.810	0.81		0.105	0.105
5	मोहनलाल पिता श्यामलाल जाति ब्रह्मण नि.ग्राम मोहाई	51	1.03		1.03	0.085		0.085
6	दीपचंद पिता हरकिशन जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	49/5	0.60		0.60	0.021		0.021
7	सागलराम पिता हरिनारायण जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	54/3	0.89		0.89	0.149		0.149
8	गणेश पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	58	2.66		2.66	0.112		0.112
9	रमेश पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	48	1.85		1.85	0.142		0.142
10	भूरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	45	1.85		1.85	0.095		0.095
11	रामकिशन पिता हरनारायण जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	63/2	1.33		1.33	0.204		0.204
12	गोरेलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	62	0.81		0.81	0.082		0.082
13	हीरालाल पिता गोविन्दा जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	64	4.52		4.52	0.100		0.100
14	रमेश पिता गंगाराम जाति रामचंद्र नि. ग्राम मोहाई	48	1.85		1.85	0.082		0.082
15	रामरतन पिता रामचंद्र जाति बलाई नि. ग्राम मोहाई	94	4.05		4.05	0.047		0.047
16	मोहनलाल पिता भीका जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	96	2.73		2.73	0.259		0.259
17	अब्दुल हुसैन पिता एहमद हुसैन जाति मुसलमान नि.ग्राम मोहाई	98	3.60		3.60	0.179		0.179
18	लीलाबाई पति गंगाप्रसाद जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	99/2		1.440	1.44		0.228	0.228
19	हरीओम पिता गंगाप्रसाद जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	99/1	1.430		1.430	0.044		0.044
20	गणपत पिता हरनारायण जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	63/3	1.33		1.330	0.078		0.078
21	हजारीलाल पिता राधकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	460/1	2.05		2.050	0.009		0.009
22	गोविन्द पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहाई	459		1.62	1.620		0.026	0.026
23	रमेश पिता प्रहलाद जाति देशवाली नि. ग्राम मोहाई	514	1.27		1.270	0.38		0.380

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमां	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
24	सेवकराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	518	4.02		4.020	0.158		0.158
25	अनोखीलाल पिता कन्हैयालाल जाति कोरकू नि.ग्राम मोहाई	526	2.02		2.020	0.158		0.158
26	जैनारायण पिता कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	528	3.08		3.080	0.261		0.261
27	कालूराम पिता मायाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	529	1.54		1.540	0.205		0.205
28	देवकरण पिता बालमुकुन्द जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	555	3.32		3.320	0.229		0.229
29	मोतीलाल पिता गोरधन जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	553	1.34		1.340	0.16		0.160
30	रामेश्वर पिता किशनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	559/1	1.04		1.040	0.315		0.315
31	जगदीश पिता किशनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	557	6.75		6.750	0.15		0.150
32	रामेश्वर पिता किशनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	561	4.53		4.530	0.175		0.175
33	महेश पिता घासीराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	562/2	1.200		1.200	0.168		0.168
मायनर न.डी 1 एम 2 नहर								
34	गणेश पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	58	2.66		2.660	0.042		0.042
35	रमेश पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	48	1.85		1.850	0.060		0.060
36	भुरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	45	1.85		1.850	0.072		0.072
37	किशोर पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	44/1	0.65		0.650	0.081		0.081
38	गोरेलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	41	1.85		1.850	0.105		0.105
39	कम्मोबाई विधवा मुबारिक खां जाति मुसलमान नि.ग्राम मोहाई	38/2	0.17		0.170	0.057		0.057
40	चांद खां पिता मुंशी खां जाति मुसलमान नि.ग्राम मोहाई	38/1	0.16		0.160	0.069		0.069
41	मोहनलाल पिता भीका जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	32	3.97		3.970	0.171		0.171
42	गोविन्द पिता भीका जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	68	3.44		3.440	0.220		0.220
43	पप्पू पिता अज्जू खां नि.ग्राम मोहाई	120	0.51		0.510	0.059		0.059
44	कम्मोबाई विधवा मुबारिक खां जाति मुसलमान नि.ग्राम मोहाई	121	0.51		0.510	0.044		0.044
45	बाबू, चिम्मू, उस्मान पिता शंकरलाल हीरालाल, श्यामलाल, रामनारायण, जैनारायण, मगनलाल पिता नंदराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	124	0.72		0.720	0.033		0.033
46	बशीर खा पिता घुडिया जाति मुसलमान नि.ग्राम मोहाई	128/5	1.12		1.120	0.172		0.172

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमां	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
47	इब्राहिम, हिरे खां, भई खां, केशर खां पिता आजम खां, फत्ता बाई पत्नि आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	131		0.4	0.400		0.027	0.027
48	हिरे खां पिता आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	129	2.72		2.720	0.016		0.016
49	भाई खां पिता आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	130	2.63		2.630	0.090		0.090
50	केशर खां पिता आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	137	2.63		2.630	0.108		0.108
51	बशीर खा पिता छुडिया जाति मुस्लमान नि.ग्राम मोहाई	128/6	0.4		0.400	0.172		0.172
52	इब्राहिम पिता आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	138	2.62		2.620	0.069		0.069
53	मांगीलाल पिता परसराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	352		0.800	0.800		0.089	0.089
54	गणेश पिता मांगीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	351	1.5		1.500	0.054		0.054
55	इब्राहिम पिता आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	354	1.42		1.420	0.059		0.059
56	मनिष पिता भगवान जाति गुर्जर मेवाती नि.ग्राम मोहाई	355		0.400	0.400		0.074	0.074
57	सुनिल पिता दयाराम अ.पा.क. मंगू बाई पति दयाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	356		0.780	0.780		0.039	0.039
58	इब्राहिम पिता आजम खां जाति मेवाती नि.ग्राम मोहाई	357	1.12		1.120	0.032		0.032
		359/1	1.02		1.020	0.005		0.005
59	सुशीला बाई बेवा गोपाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	358/1	3.2		3.200	0.151		0.151
60	भंवर सिंह पिता हरीकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	363	2.11		2.110	0.116		0.116
61	लखुबाई वि. हरबक्स, आशबाई, अवंती बाई, पप्पी बाई, हरबक्स जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	364	4.3		4.300	0.019		0.019
62	जितेन्द्र पित धूमसिंह जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	421/1	2.46		2.460	0.059		0.059
63	मणीबाई पति धूमसिंह जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	421/2	2.46		2.460	0.059		0.059
64	धूमसिंह पिता रुखडिया जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	420	2.46		2.460	0.074		0.074
65	हरिप्रसाद पिता रुखडिया जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	415	2.46		2.460	0.151		0.151
66	माखन पिता हीरलाल नि.ग्राम मोहाई	414/2	2.8		2.800	0.050		0.050
67	कमल पिता हीरलाल नि.ग्राम मोहाई	413/1	2.8		2.800	0.085		0.085
68	रामप्रसाद पिता हीरलाल नि.ग्राम मोहाई	410/2	2.8		2.800	0.094		0.094
		407/2	0.1		0.100	0.005		0.005
69	जीवन पिता रामसिंह नि.ग्राम मोहाई	407/3		1.000	1.000		0.006	0.006
70	छोटेलाल पिता हिरालाल जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	407/1	1.1		1.100	0.090		0.090

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमां	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
71	लक्ष्मीबाई पति रतनलाल जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	406	2		2.000	0.157		0.157
72	गोपाल पिता रामनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	404	1.61		1.610	0.005		0.005
73	लक्ष्मीनारायण पिता मयाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	588	4.02		4.020	0.041		0.041
74	अमरसिंह पिता प्रहलाद जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	589	1.82		1.820	0.124		0.124
75	प्रहलाद पिता हजारीलाल जाति देशवाली नि.ग्राम मोहाई	590	1.82		1.820	0.072		0.072
76	विजय पिता कोदर जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	592	4.97		4.970	0.167		0.167
77	अजय सिंह पिता कोदर जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	595	4.96		4.960	0.020		0.020
78	कोदर पिता बलदेव जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	601	4.86		4.860	0.158		0.158
79	खुशाल पिता गंगाविशन जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	613	1.62		1.620	0.021		0.021
80	लक्ष्मीनारायण पिता मोतीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	614	1.21		1.210	0.150		0.150
81	मोतीलाल पिता सुखदेव जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	615		4.64	4.640		0.054	0.054
82	गुलाब बाई पति मोहनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	616	3.67		3.670	0.149		0.149
83	भंवर सिंह पिता श्रीकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहाई	617	3.67		3.670	0.117		0.117
	योग	85	168.750	11.890	180.640	8.195	0.648	8.843

प्र.क | 2/ए-82/13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-रतवाय		तहसील-कन्नौद		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मायनर नं. 3 नहर	0.694	0.000	0.694
	(2) मायनर नं. 4 नहर	3.725	0.556	4.281
	(3) सब मायनर नं. एम 4 एस 1 नहर	0.326	0.000	0.326
	(4) सब मायनर नं. एम 4 एस 2 नहर	0.976	0.176	1.152
	(5) सब मायनर नं. एम 4 एस 3 नहर	0.817	0.274	1.091
	योग	6.538	1.006	7.544

अनुसूची. (2)								
मायनर न. 3 नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	जगदीश पिता गेना जाति जाट नि. ग्राम रतवाय	376	3.670		3.67	0.099		0.099
2	मयाराम पिता धन्ना जाति जाट नि. ग्राम रतवाय	375	3.670		3.67	0.120		0.120
3	महेशचंद्र पिता मशराम जाति जाट नि.ग्रामा रतवाय	374	4.050		4.05	0.099		0.099
4	महेशचंद्र पिता मशराम जाति जाट नि.ग्रामा रतवाय	373	3.900		3.90	0.180		0.180
5	हरीप्रसाद पिता मौजीराम जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	381	2.120		2.12	0.098		0.098
6	फत्तुलाल पिता मौजीराम पिता जाट नि. ग्राम रतवाय	382	1.370		1.37	0.098		0.098
मायनर न. 4 नहर								
7	रामबिलास पिता जगदीश जाति कुम्हार नि. ग्राम चपलासा	2	1.22		1.220	0.111		0.111
		3		1.21	1.210		0.086	0.086
8	गीताबाई पति राधेश्याम जाति कुम्हार नि. ग्राम रतवाय	4		1.21	1.210		0.047	0.047
9	सुदामा प्रसाद पिता राधेश्याम जाति कुम्हार नि.ग्राम रतवाय	5/1	0.8		0.800	0.010		0.010
10	राजेश पिता शिवराम जाति खाती नि.ग्राम रतवाय	5/2	0.81		0.810	0.045		0.045
11	शिवराम पिता घासीराम जातिजाट नि.ग्राम रतवाय	14/1	4.64		4.640	0.105		0.105
12	संदीप पिता छोटुलाल जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	17/1	1.38		1.380	0.252		0.252
13	अरुण पिता छोटुलाल जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	17/2	1.37		1.370	0.253		0.253
14	कैलाश,कमलाबाई ,कृष्णाबाई पिता हजारीलाल सोदरा बाई बेवा हजारीलाल	22	2.75		2.750	0.081		0.081
15	हरीप्रसाद पिता नाथु जाति खाति नि.ग्राम रतवाय	28	2.17		2.170	0.183		0.183
16	पूनम पिता कोदर जाति खाति नि. ग्राम रतवाय	26	1.09		1.090	0.239		0.239
17	जगदीश पिता रामनारायण जाति नाई नि. ग्राम रतवाय	176/3	1.07		1.070	0.144		0.144
18	शिवप्रसाद पिता रामपसाद जाति लोधा नि. ग्राम रतवाय	174		1.74	1.740		0.135	0.135

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
19	मांगीलाल पिता रामपाल जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	175	3.4		3.400	0.117		0.117
20	मुकेश पिता नत्थु जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	184/1	1.7		1.700	0.005		0.005
21	गेंदालाल पिता जगन्नाथ जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	169/1	0.8		0.800	0.048		0.048
22	रविकांत पिता रंगलाल जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	169/2	0.82		0.820	0.110		0.110
23	संतोष पिता शिवलाल जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	188/1	8.3		8.300	0.270		0.270
24	विरम पिता गिरधारी जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	245	2.05		2.050	0.294		0.294
25	भुजराम पिता शिवराम जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	244	3.05		3.050	0.154		0.154
26	कमल पिता नत्थु जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	266/1/2/1	1.4		1.400	0.090		0.090
27	गफुर खां पिता असरफ खां जाति मुसलमान नि.ग्राम रतवाय	265/2/1/2	0.6		0.600	0.110		0.110
28	अनोखीलाल पिता चैनसिंह जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	265/1/1	2.4		2.400	0.111		0.111
29	रामविलास पिता चैनसिंह जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	265/2/1	0.6		0.600	0.110		0.110
30	किशोर, जगदीश, प्रमबाई, सुगना बाई, गीता बाई, नबुबाई पिता पन्ना जाति जाट नि.ग्राम	272		1.6	1.600		0.025	0.025
31	जगदीश पिता पन्नालाल जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	274	3.15		3.150	0.068		0.068
32	किशोर पिता पन्नालाल जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	273/1		2.00	2.000		0.068	0.068
33	भागीरथ पिता रामपाल जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	277/1/1	1.26		1.260	0.113		0.113
34	अतीश पिता नर्मदा प्रसाद अ.पा.कर्ता नर्मदा प्रसाद पिता घासीराम जाति चमार नि.ग्राम	288	1.400		1.400	0.106		0.106
35	नुसरुद्दीन पिता कमरुद्दीन जाति लोहार नि.ग्राम रतवाय	289		1.4	1.400		0.124	0.124
36	घुडु खां पिता अली शेर जाति मेवाती नि.ग्राम रतवाय	290	1.45		1.450	0.060		0.060
37	कमरुद्दीन पिता सुलेमान जाति लोहार नि.ग्राम रतवाय	291		1.44	1.440		0.071	0.071
38	शांती बाई पति नर्मदाप्रसाद जाति चमार नि.ग्राम रतवाय	292	1.44		1.440	0.049		0.049

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
39	रामाधार पिता घासीराम अज्ञान रमेश उर्फ रामस्वरूप पिता घासीराम जाति चमार नि.	293/2	3.24		3.240	0.065		0.065
40	नन्नू पिता रामा जाति चमार नि.ग्राम रतवाय	294/5	3.94		3.940	0.211		0.211
41	जगदीश पिता सुखदेव पिता रामा जाति चमार	294/4/6	1.00		1.000	0.042		0.042
42	अनोखीलाल पिता सुखदेव पिता रामा जाति चमार	294/4/5	1.000		1.000	0.084		0.084
43	दिलीप ,गोविन्द पिता उमराव जाति चमार नि.ग्राम	294/4/7	0.87		0.870	0.085		0.085
सब मायनर न. एम. 4 एस 1 नहर								
44	संदीप पिता छुटुलाल जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	17/1	1.380		1.380	0.051		0.051
45	कैदार पिता मोजीराम जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	16	2.750		2.750	0.086		0.086
46	रामभरोसे पिता शिवराम जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	15	1.820		1.820	0.135		0.135
47	रोहित पिता रामभरोसे जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	14/2	1.070		1.070	0.054		0.054
सब मायनर न. एम. 4 एस 2 नहर								
48	भुजराम पिता शिवराम जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	244	3.050		3.050	0.043		0.043
49	नन्नू पिता बोंदर जाति जाट ग्राम रतवाय	266/1/1	1.900		1.900	0.137		0.137
50	मदन पिता बोंदर जाति जाट ग्राम रतवाय	267/1	1.980		1.980	0.093		0.093
51	राधेश्याम पिता बोंदर जाति लोदा नि.ग्राम रतवाय	309		0.870	0.870		0.057	0.057
52	नत्थु पिता बोंदर जाति लोदा नि.ग्राम रतवाय	308	0.870		0.870	0.085		0.085
53	गब्बु पिता बोंदर जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	307	0.870		0.870	0.038		0.038
54	रासद खां पिता गब्बु खां जाति मेवाती नि.ग्राम रतवाय	312	2.720		2.720		0.119	0.119
55	मान खां पिता जहांगीर खां जाति मेवाती नि.ग्राम रतवाय	314	1.230		1.230	0.017		0.017
56	मरियाम बाई पति रसीद खां जाति मेवाती नि.ग्राम रतवाय	313	2.500		2.500	0.16		0.160
57	अयुब पिता रुढा जाति मेवाती नि.ग्राम रतवाय	420	5.460		5.460	0.166		0.166

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
58	बाबु खां पिता असखु खां जाति मेवाती नि. ग्राम रतवाय	421	1.880		1.880	0.059		0.059
59	अफजल खां पिता गफूर खां जाति मेवाती नि. ग्राम रतवाय	422	1.880		1.880	0.09		0.090
60	अकरम खां पिता गफूर खां जाति मेवाती नि. ग्राम रतवाय	423	1.880		1.880	0.088		0.088
सब मायनर न. एम. 4 एस 3 नहर								
61	विरम पिता गिरधारी जाति जाट नि.ग्राम रतवाय	245	2.450		2.450	0.009		0.009
		246/1	4.850		4.850	0.216		0.216
62	भुजराम पिता शिवराम जाति जाट नि.ग्राम	244	3.050		3.050	0.149		0.149
63	रामकली बाई बेवा रामचंद्र नि.ग्राम रतवाय	250		1.580	1.580		0.036	0.036
		252		1.420	1.420		0.072	0.072
64	बालकिशन शिवराम पिता गब्बु जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	253		2.850	2.850		0.166	0.166
		259/2	1.200		1.200	0.012		0.012
65	आमना बाई पति ईसब खां जाति मेवाती नि. ग्राम रतवाय	259/1	1.410		1.410	0.048		0.048
66	संतोष पिता मोती जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	256	1.180		1.180	0.147		0.147
67	मोती पिता पन्ना जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	257	1.180		1.180	0.184		0.184
68	गुलाब पिता मोती जाति लोधा नि.ग्राम रतवाय	258	1.180		1.180	0.052		0.052
	योग	72	129.690	17.320	147.010	6.538	1.006	7.544

प्र.क 15 /ए-82/ 13-14

देवास दिनांक 19/02/2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दत्तनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कं वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- भिल्दी		तहसील-सतवास		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि			
	(1) मायनर नं. 10 नहर	0.678	0.040	0.718
	(2) मायनर नं. डी 1 एम 1 नहर	3.556	0.201	3.757
	योग	4.234	0.241	4.475

अनुसूची. (2)								
मायनर न. 10 नहर								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	संजू पिता राजाराम जाति लोदा नि. ग्राम भिल्दी	254/1	1.820		1.820	0.151		0.151
2	संतोष पिता हेमराज जाति लोदा नि. ग्राम भिल्दी	254/2	1.820		1.820	0.108		0.108
3	दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली नि. डांगराखेडा	255	1.760		1.760	0.089		0.089
4	दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली नि. डांगराखेडा	260	1.430		1.430	0.093		0.093
5	रतिराम पिता रंगलाल जाति गौण्ड नि. गादिया	261	1.820		1.820	0.078		0.078
6	गोपाल पिता बलाराम जाति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	268	1.820		1.820	0.032		0.032
7	शन्तुबाई पति गोपाल जाति लौदा नि.ग्राम भिल्दी	267		0.400	0.400		0.014	0.014
8	जगदीश पिता हरिप्रसाद जाति गोड नि.कोठडी	266	1.410		1.410	0.092		0.092
9	शुभम पिता गजानंद अ.प.क. माता सीमा बाई पति गजानंद जाति लोदा नि. ग्राम भिल्दी	265		1.380	1.380		0.026	0.026
10	रामसिंह पिता रामचरण जाति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	264/2	2.000		2.000	0.035		0.035
मायनर न. डी 1 एम 1 नहर								
11	कंजाडीमल पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण नि.मुहाई	13		0.500	0.500		0.016	0.016
12	प्रेमनारायण पिता बिहारी जाति नाई नि.ग्राम भिल्दी	14	4.040		4.040	0.207		0.207
13	महेश कु.राजेश कु. पिता बिहारी जाति ब्राह्मण नि. मुहाई	15	2.260		2.260	0.079		0.079

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
14	कवर खां, पीरजी, चुन्नु खां, रसीद खां पिता मजीत खां, फत्तो बाई, वि मजीत खां, रहीसन बाई पि. रहीस खां, अ.पा.कर्ता हाजराबाई वि. रहीस खां, हाजरा बाई वि. रहीस खां जाति मेवाती नि. ग्राम	16	0.750		0.750	0.071		0.071
15	सरूपी बाई पति ईब्राहिम खां जाति मेवाती नि.ग्राम भिल्दी	18/1	1.430		1.430	0.140		0.140
16	मथराबाई पति गरीबा जाति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	110	1.550		1.550	0.133		0.133
17	बंशीलाल पिता भोलू ताति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	109/1	0.070		0.070	0.018		0.018
18	गुलाब पिता बंशीलाल जाति लोदा नि. ग्राम भिल्दी	109/2	1.700		1.700	0.242		0.242
19	मेहबूब खां पिता भग्गू जाति मेवाती नि.मौहाई	120/1	1.030		1.030	0.097		0.097
20	गिरधर पिता शंकरलाल जाति ब्राम्हण नि.ग्राम भिल्दी	121/2	3.320		3.320	0.157		0.157
21	दिलीप पिता बाबूलाल जाति ब्रा. नि.ग्राम भिल्दी	121/1	1.200		1.200	0.062		0.062
22	बाबूलाल पिता घुडमल ब्रह्मण भिल्दी	121/3	0.430		0.430	0.018		0.018
23	मनोरमा बाई वि. बृजमोहन, बटेश्वर पिता बृजमोहन अ.प. कर्ता मनोरमा बाई वि. बृजमोहन जाति ब्रा.नि.ग्राम भिल्दी	121/4	1.210		1.210	0.109		0.109
24	मनोरमा बाई वि. बृजमोहन, बटेश्वर पिता बृजमोहन अ.प. कर्ता मनोरमा बाई वि. बृजमोहन जाति ब्रा.नि.ग्राम भिल्दी	125/3		0.970	0.970		0.058	0.058

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
25	मोजीराम पिता रामपाल जाति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	126	3.770		3.770	0.200		0.200
26	शिवप्रसाद पिता रामपाल जाति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	133	3.760		3.760	0.072		0.072
27	रामपाल पिता घिसाराम जाति लोदा नि.ग्राम भिल्दी	134		0.250	0.250		0.024	0.024
28	सौनारायण पिता श्रीकिशन जाति गौण्ड नि.ग्राम भिल्दी	148/3		0.400	0.400		0.059	0.059
29	सालगराम पिता मांगीलाल जाति गुजर नि.ग्राम भिल्दी	149	2.430		2.430	0.168		0.168
30	केवलराम पिता मांगीलाल जाति गुजर नि.ग्राम	152	3.160		3.160	0.024		0.024
31	जागेश्वर पिता मांगीलाल जाति गुजर नि.ग्राम भिल्दी	194	3.310		3.310	0.210		0.210
32	हीरालाल पिता छीतर जाति गोड नि.ग्राम	193	1.030		1.030	0.042		0.042
33	गेंदालाल पिता छीतर जाति गोड नि.ग्राम भिल्दी	192	1.030		1.030	0.104		0.104
34	भूरु खां पिता उसमान खां जाति मुसलमान नि.ग्राम मौहाई	335/1	1.930		1.930	0.058		0.058
35	हापिज खां पिता उस्मान खां जाति मुसलमान नि.ग्राम मौहाई	335/2	1.930		1.930	0.055		0.055
36	अजीज खां पिता बाबू खां जाति मुसलमान नि. ग्राम भिल्दी	336/1	1.930		1.930	0.061		0.061
37	रफीक खां पिता बाबू खां जाति मुसलमान नि. ग्राम	336/2	1.930		1.930	0.056		0.056
38	मदनलाल पिता शोभाराम जाति लोदा नि.ग्राम	337	3.860		3.860	0.118		0.118
39	सोनारायण पिता सुखदेव जाति लोदा नि.ग्राम	343	1.300		1.300	0.094		0.094

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
40	सालगराम पिता सुखदेव जाति लोदा नि.ग्राम	344	1.300		1.300	0.015		0.015
41	परताप पिता गुलाब जाति गुजर नि.मुहाई	366	3.400		3.400	0.086		0.086
42	नर्मदा प्रसाद पिता मोतीलाल जाति लौदा नि. ग्राम	368	4.850		4.850	0.157		0.157
43	जगन्नाथ पिता देवाजी जाति गुजर नि. मुहाई	369	1.610		1.610	0.061		0.061
44	दयाराम पिता देवाजी जाति गुजर नि.मुहाई	372	1.610		1.610	0.086		0.086
45	चम्पालाल पिता देवा जाति गुजर नि.ग्राम भिल्दी	373	1.610		1.610	0.107		0.107
46	हरबक्स पिता देवाजी जाति गुजर नि.मुहाई	377	2.500		2.500	0.087		0.087
47	कन्हैयालाल पिता सेवाराम जाति गुजर नि.मुहाई	382	2.280		2.280	0.146		0.146
48	कन्हैयालाल पिता सेवाराम जाति गुजर नि.मुहाई	383	2.270		2.270	0.062		0.062
49	कन्हैयालाल पिता सेवाराम जाति गुजर नि.मुहाई	381	1.240		1.240	0.067		0.067
50	छोटेलाल पिता हीरालाल जाति देशवाली नि.मुहाई	391	2.000		2.000	0.077		0.077
51	रामसिंह पिता हीरालाल जाति देशवाली नि.मुहाई	392		2.000	2.000		0.044	0.044
52	रामप्रसाद पिता हीरालाल जाति देशवाली नि. ग्राम भिल्दी	393	2.000		2.000	0.010		0.010
	योग	52	90.910	5.900	96.810	4.234	0.241	4.475

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.